

भूगोल हिन्दो

भाग व परिम

भूगोल—भूगोल शब्द से मतलब पृथिवी के तल पर का, जिसके द्वारा पृथिवी के तल पर का, जिसपर हम रहते हैं, या समुद्र-तल का, जिसपर हम जहाजों द्वारा भ्रमण करते हैं हाल मालूम होता है।

भूगोल के भाग—भूगोलविद्या तीन भागों में बांटी गई है।

(१) प्राकृतिक भूगोल—जिसमें कुल पृथिवी का हाल, उसके तल पर की तबदीलियां और उनके कारण साफ साफ वर्णन किये जाते हैं।

(२) राज सम्बन्धी भूगोल—जिसमें कुल पृथिवी के मुल्कों के विभाग, शहर और क़स्बों की कैफियत मालूम होती है।

(३) भूगोल आम—जिसमें प्राकृतिक भूगोल के साथ हर मुल्क की आवोहवा, पैदावार और रहनेवालों की कैफियत मालूम की जाती है।

भूगोल सीखने का ढंग—(१) भूगोल सीखने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि हर जगह भ्रमण करे और चीज़ों को अपनी आंखों से देखे, क्योंकि भ्रमण करने से भूगोल का हाल बहुत कुछ


मालूम होसकता है । २ चित्राओं को ध्यान से पढ़ने और नक्शों के देखने से भी बहुत कुछ जानकारी बढ़जाती है ।

नक्शा—कुल पृथिवी की और उसके जुदे जुदे हिस्सों की तमबीरों को कहते हैं, जिन पर उसके हिस्से, नदी, पहाड़, झील, व शहर इत्यादि दिखलाये जाते हैं ।

व्योहार—नक्शे को दीवार या लकड़ी की तिरपाई पर लटकाकर किसी नोकदार लकड़ी से (जिसको पोइंटर कहते हैं) पहले उसकी चारों सीमा मालूम करो, उसके बाद उसकी लम्बाई चौड़ाई किसी डोरे से नापकर उस पैमाने की मदद से, जो नक्शे के एक कोने में दिया हुआ है, मीलों में मालूम करो । फिर पहाड़ों की उंचाई, नदियों की लम्बाई, उनके रुख, व बहाव इत्यादि का हाल मालूम करो इसी तरह शहरों व कस्बों के स्थान और दूरी इत्यादि मालूम करो ।

फायदे—नक्शे के द्वारा भूगोल बहुत जल्द और सहज ही से याद हो जाता है । पृथिवी पर की हर एक चीज़ की जगह और दूरीरे हालात भी जान लिये जाते हैं । देखने, सोचने और विचार करने की शक्ति बढ़ती है ।

पैमाना ।



पैमाना—जिस नाप में कोई नक्शा खींचा जाता है, उसको

पैमाना कहते हैं । किसी दूरी को छोटे व बड़े पैमाने में जान सकते हैं । जैसे ३३३ पैमाने में एक इंच सौ मील के बराबर माना गया है,

यानी नक्शे में जिन दो स्थानों में एक इंच की दूरी है, वे स्थान एक दूसरे से १०० मील की दूरी पर होंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखलाने के वारते पैमाने की जरूरत होती है। जैसे हम एक मील का फासला नक्शे पर दिखलाना चाहते हैं, तो चूंकि एक मील का लम्बा कागज़ लेने में कठिनता होगी, इस लिये एक मील को एक इंच या आध इंच मान लेंगे। जैसे अगर किसी मदरसे का कमरा २० फीट लम्बा और १० फीट चौड़ा है, तो उसकी लम्बाई चौड़ाई से दूनी मान लेंगे और एक फीट को एक इंच या आध इंच मानेंगे।

प्रश्न—(१) भूगोल शब्द की परिभाषा बताओ (२) भूगोल के भाग परिभाषा सहित बताओ [३] तुम किस प्रकार का भूगोल पढ़ते हो [४] भूगोल सीखने का सब से अच्छा दंग क्या है [५] भूगोल शब्द की व्युत्पत्ति करो [६] नक्शे और पैमाने की परिभाषा बताओ [७] नक्शे को किस प्रकार काम में लाना चाहिये [८] पैमाने की तस्वीर बनाओ और इसका लाभ बयान करो [९] अगर पैमाना न बनाया जाता तो क्या हानि होती [१०] अगर तुम अपने मदरसे के बड़े कमरे का नक्शा बनाना चाहो तो बताओ, पहिले तुम क्या करोगे ?

दिशाएं ।

दिशाएं—चार होती हैं; उनके प्रगट करने के लिये दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, जो एक दूसरे को एक बिन्दु पर काटती हैं। नक्शे में दिशाएं ठीक इसी प्रकार होती हैं, जैसे कि इस नक्शे में हैं; अर्थात् ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दायें हाथ को पूर्व और बायें हाथ को पश्चिम होगा।

सिवाय इन चार दिशाओंके इनके बीच चार दिशाएं और होती हैं, जैसे उत्तर-पूर्व के कोने को ईशानकोन उत्तर-पश्चिम


के कौने को वायव्यकोन, दक्षिण-पश्चिम के कौने को नैऋत्यकोन और दक्षिण-पूर्व के कौने को आग्नेयकोन कहते हैं।

उत्तर

वायव्यकोन

ईशानकोन

पश्चिम



पूर्व

नैऋत्यकोन

आग्नेयकोन


दक्षिण

दिशाएं जानने की रीतियां ।


दिशाएं जानने की रीति-दिशाएं जानने की तीन रीतियां हैं

१ (१) निकलते हुए सूरज से- अर्थात्

अपना मुंह निकलते हुए सूरज की तरफ करके खड़े हो तो मुंह के सामने पूर्व होगा, पीठ की तरफ पश्चिम होगा, दायाँ हाथ की ओर दक्षिण और बायाँ हाथ की ओर उत्तर होगा ।



(२) ध्रुवतारे से-यह तारा रात के समय सदा उत्तर की ओर रहता है। इसकी तरफ मुंहकर के खड़े हो तो मुंह उत्तर को पीठ दक्षिण को, दायां हाथ पूर्व को और बायां हाथ पश्चिम को होगा।




(३) कुतुबनुमा से-यह एक छोटीसी डिनिया होती है, जिसकी सूई चौरस जगह में रखने से हमेशा उत्तर की ओर रहती है। वस जब उत्तर मालूम होगया तो शेष दिशाये भी मालूम होसकती हैं।

२


प्रश्न-[?] रात के समय यदि दिशाएं मालूम करनी चाहें तो किस प्रकार करेंगे [२] क्या कारण है कि ध्रुव तारे से हम चारों दिशाएं जान लेते हैं (३) अगर हम अपना मुंह दक्षिण की ओर करके खड़े हों तो बताओ हमारे सीधे हाथ की ओर कौनसी दिशा होगी (४) अगर हम किसी चौकोर कमरे के चार बराबर के दुरइ-जो दो रेखाओं से उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम को खिंची हुई हों करलें, और फिर हम उत्तर के कोने से पश्चिम के कोने को उस वर्ग की रेखा पर चलें तो बताओ आधी दूरी पर पहुचकर उस बिन्दु से जहां दोनों रेखाएं मिलती है, हम किस तरफ रेंगे और अगर बाकी का आधा हिस्सा भी खतम करलें तो किस तरफ होजायगे (५) उस दन्त्र का नाम बताओ, जितसे हम हर समय दिशाएं मालूम कर सकते हैं (६) दिशाएं जानने की कौन कौन सी रीतियां हैं हर एक को बताओ।

अक्षांश और देशान्तर ।

अक्षांश



देशान्तर



गोला—वह गोल वृत्त है, जिसके ऊपर का हर एक बिन्दु उस के केन्द्र से बराबर दूरी पर हो ।

गोलार्ध—जब किसी गोले में दो बराबर हिस्से कर लिये जावें तो हर एक उनमें से गोलार्ध कहलावेगा ।

मध्याह्न रेखा—वह कल्पित रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण को ध्रुवों पर होकर जाती है और पृथिवी के दो बराबर भाग करती है । ये सब रेखाएं आपस में बराबर होती हैं । उस एक रेखा को, जहां से पूर्वी और पश्चिमी फासले नापे जाते हैं, प्रथम मध्याह्न रेखा कहते हैं और इस फासले को, जो इस रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर नपा है, देशान्तर कहते हैं । पूर्वी फासले को पूर्वी देशान्तर और पश्चिमी फासले को पश्चिमी देशान्तर कहते हैं । यह दूरी ज्यादा से ज्यादा १८०° दर्जों की होती है ।

भूमध्य रेखा—वह कल्पित रेखा है, जो पृथिवी के चारों ओर

पूर्व से पश्चिम को खिंची हुई है और पृथिवी के दो बराबर हिस्से उत्तरी व दक्षिणी करती है।

परिधि—वह गोल रेखा है, जो किसी गोला के चारों ओर खिंची होती है।

व्यास—जो रेखा किसी गोला के केन्द्र में होकर परिधि, के किनारे तक खिंची जावे। **अक्षांश रेखा**—जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानान्तर उत्तर व दक्षिण खिंची हुई है, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी फासले को उत्तरी अक्षांश—और दक्षिणी फासले को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा ९०° दर्जे का होता है।

अक्ष (कीली)—उस कल्पित रेखा को कहते हैं, जो दोनों ध्रुवों पर होकर गुजरती है और जिस पर पृथ्वी घूमती है। कीली के हर एक सिरे को ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं।

प्रश्न—(१) मध्यान्ह रेखा, प्रथम मध्यान्ह रेखा, भूमध्य रेखा, और अक्षांश रेखा और देशान्तर की परिभाषा बताओ। (२) अक्षांश और देशान्तर कहाँ से नापा जाता है (३) ज्यादा से ज्यादा अक्षांश और देशान्तर कितना होता है। (४) अक्षांश और देशान्तर जानने से क्या फायदा है (५) क्या अक्षांश की मूल रेखाएँ आपस में बराबर होती हैं (६) अगर हम भूमध्य रेखा से ९०° दूरी

उत्तर को चने जावें तो बताओ हम कहां होंगे । (७) एक आदमी इतरी ध्रुव से ६० ° दरजे दक्षिण को चला और दूसरा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर को उसी प्रकार चला तो बताओ वे कहां मिलेंगे (८) परिध, व्यास, कीजी, गोला और गोलार्ध की परिभाषा करो और एक गोले की शकल बनाकर सब बातें उनमें दिखाओ ?

कटिबंध ।

कर्करेखा—यह कल्पित रेखा है, जो भूमध्य रेखा के समानान्तर

उससे $२३\frac{1}{2}$ ° दरजे उत्तर में खिंची है ।

मकर रेखा—वह कल्पित रेखा है, जो भूमध्य रेखा के समा-

नान्तर उससे $२३\frac{1}{2}$ ° दरजे दक्षिण में खिंची है ।

उत्तरी ध्रुव वृत्त—यह रेखा है, जो उत्तरी ध्रुव से $२३\frac{1}{2}$ ° दरजे दक्षिण की तरफ खिंची है ।







दक्षिणी ध्रुव वृत्त—वह रेखा है, जो दक्षिणी ध्रुव से $२३\frac{1}{2}$ ° दरजे उत्तर की तरफ खिंची है ।

कटिबंध-गरमी और सर्दियों के खयाल से पृथिवी को पांच हिस्सों में बांट दिया है ।

(१) **उष्ण कटिबंध**—वह हिस्सा, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्करेखा और मकर रेखा के बीच में है । चूंकि भूमध्य रेखा पर सूरज हमेशा सामने रहता है, इस लिये यहां बहुत ज्यादा गरमी रहती है ।

कटिबंध

रेखाएं



(२) उत्तरी मध्य कटिबंध-जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में है। यहां गरमी व सरदी बराबर की होती है।

(३) दक्षिणी मध्य कटिबंध-जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में है। यहां भी गरमी सरदी बराबर की होती है।

(४) उत्तरी शीत कटिबंध-दक्षिणी ध्रुव वृत्त में है।

(५) दक्षिणी शीत कटिबंध-दक्षिणी ध्रुव वृत्त में है।

ये दो टुकड़े बिल्कुल ठंढे हैं, क्यों कि सूरज की किरने यहां बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं।

प्रश्न—क्या कारण है कि उष्ण कटिबंध ऐसा गरम रहता है (२) उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच में है [३] गरमी और सर्दी बराबर की कहां होती है (४) जब कि गोलार्ध १८०° दर्जे का माना गया है तो ब्रह्मांड हर एक टुकड़े का क्या विस्तार होगा और कौन टुकड़ा सबसे बड़ा होगा (५) एक गोला बनाकर उस में हर एक कटिबंध को दिखलाओ (६) उष्ण कटिबंध का कौनसा हिस्सा ज्यादा गरम होगा, जग, यह गरमी उत्तर या दक्षिण जाने से कम हो जायगी (७)सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ती है, उसका क्या कारण है(८) जमीन के किस हिस्से पर सूरज की किरने बिल्कुल सीधी पड़ती है ! और किम हिस्सों पर तिरछी।

पृथिवी ।

आकार-पृथिवी नारंगी की तरह गोल है, परन्तु ध्रुवों के पास वह कुछ चपटी है। चूंकि उसका विस्तार हमारे कद के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इस लिये वह हमको गोल नहीं दिखलाई देती। अगर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर हम अपने चारों तरफ निगाह करें तो किसी कदर जमीनदूर तक दिखलाई देगी, लेकिन फिर भी चपटी ही नज़र आवेगी। इस तरह निगाह करने से हमको अपने चारों तरफ एक ऐसा गोला दिखलाई देगा, जहां पृथिवी और आकाश मिलते हुए दिखलाई देते हैं इस गोले का क्षितिज कहते हैं। पृथिवी की परिधि २५००० मील और व्यास ८००० मील के लगभग है इसका ऊपरी हिस्सा भूतल और जल से ढका हुआ है, लेकिन जल स्थल से तिगुने के लगभग है।


पृथिवी के गोल होने का सबूत-पृथिवी के गोल होने के बहुत से सबूत हैं। (अ) जब कि कोई जहाज़ समुद्र में आता है तो पहले उसका मस्तूल दिखलाई देता है और उधों में जहाज़ घूम आता जाता है, उसके नीचे के हिस्से दिखलाई देने लगते हैं। अगर पृथिवी गोल न होती तो कुल जहाज़ एक साथ दिखलाई देता। इसी तरह पृथिवी पर पहले पहाड़ों की चोटी दिखलाई देती हैं, बाद उसके नीचे का हिस्सा। (ब) चन्द्रग्रहण जो परछाई पृथिवी की चन्द्रमा पर पड़ती है, वह हमेशा गोल होती है और सिवाय गोल चीज़ के दूसरी चीज़ की गोल परछाई

नहीं होसकती । (स) पृथिवी पर एक तरफ सीधे चले जाने से हम फिर उसी जगह आजाते हैं, जहां से हम पहिले चले थे । (द) जब सूर्य निकलता है, तो पहिले उन जगहोंमें दिखलाई देता है, जो ज्यादा ऊंची होती हैं और बाद को नीची जगहों में दिखलाई देता है । इसी तरह जब छिपता है तो पहिले मैदानों पर से गायब होता है, फिर ऊंची जगहों में दिखलाई देना बंद होजाता है । (य) सूर्यमंडल में मानिन्द और ग्रहों के पृथिवी भी एक ग्रह है और जब कि सब ग्रह गोल होते हैं तो पृथिवी भी गोल होनी चाहिये । (फ) जब कि कोई नहर खोदी जाती है तो एक मील में आठ इंच की निचाई देते हैं, जिस में सब जगहोंमें पानी की गहराई एकसी रहे ।


ग्रहण—दो तरह के होते हैं (१) चन्द्र ग्रहण और (२) सूर्य ग्रहण । पृथिवी और चन्द्रमा की रोशनी सूर्य से मिलती है । पृथिवी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चन्द्रमा पृथिवी के चारों ओर घूमता है । इससे प्रगट हुआ कि जब पृथिवी सूर्य और चन्द्रमा के बीच में आजायगी तब वह सूर्य की रोशनी को चन्द्रमा पर जाने से रोवेगी, वस जितना हिस्सा चन्द्रमा का पृथिवी से ढका रहेगा, वही अंधेरा दिखलाई देगा वही चन्द्रग्रहण होगा ।

और जब चन्द्रमा पृथिवी और सूर्य के बीच में आजाता है तब वह सूर्य की रोशनी को पृथिवी पर जाने से रोकता है और सूर्यके जितने हिस्से को चांद ढकता है उतने हीमें सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य के उमी हिस्से में अंधकार दिखलाई देता है ।



सूर्यग्रहणा



चन्द्रग्रहणा



नवग्रह




सूर्य-मंडल—सूर्य पृथिवी और दूसरे ग्रह और उन ग्रहोंके चारों ओर घूमनेवाले उपग्रह मिलकर सूर्य मंडल कहलाता है।

पृथिवी के अतिरिक्त सात और बड़े बड़े ग्रह सूर्य के चारों ओर अलग अलग दूरी से घूमते हैं: जैसा कि तस्वीर में देखने से मालूम होगा कि सूर्य पृथिवी से १३ लाख गुना बड़ा है। सूर्य से सब ग्रहों में रोशनी पहुंचती है।

चाल—पृथिवी ठहरी हुई नहीं है, जैसा कि हमको मालूम होता है, बल्कि उसमें दो चाले हैं। प्रथम दैनिक गति, जिससे वह अपनी कीली या धुरी पर चौबीस घंटे में एकबार घूम जाती है और जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इस गति में पृथिवी पश्चिम से पूर्व को जाती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व में निकलता हुआ मालूम होता है पर असल में वह विलकुल ठहरा रहता है। ज़मीन का जो हिस्सा सूर्य की तरफ़ होता है, वहां दिन और जो हिस्सा सूर्य से हटा हुआ होता है, वहां रात होती है। दूसरी वार्षिक गति, जिससे पृथिवी सूर्य के चारों ओर एक बार ३६५ दिन ६ घंटे में यानी १ साल में घूमती है और जिसके कारण मौसिम बदलते हैं। मौसिम चार होते हैं। यानी जाड़ा, वसंत, गरमी, पतझड़। इनमें से हर एक तीन तीन महीने का होता है।

*नोट—गरमी में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी। इसके विरुद्ध जाड़े में रात बड़ी होती है और दिन छोटे। लेकिन भूमध्य रेखा पर रात दिन हमेशा बराबर होते हैं २१ मार्च और २२ सितम्बर को भी रात दिन हर जगह बराबर होते हैं, यानी हर एक बारह बारह घंटे का होता है।

प्रश्न—? पृथिवी की शकल कैसी है, क्या कारण है कि वह हमको गोल दिखलाई नहीं देती २. ज़मीन के गोल होने के कुछ सबूत बयान करो ३. क्षितिज की परिभाषा बताओ, पृथिवी की परिधि और व्यास कितना है ४ चन्द्रग्रहण किस प्रकार होता है, एक शकल ऐसी बनाओ, जिसमें चन्द्रग्रहण का होना साधित हो ५. सूर्यमण्डल किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन यह शामिल है ६. पृथिवी में कै गति हैं. इसके कारण पृथिवी पर क्यों तचदीलियां पैदा होती हैं ७. पृथिवी तल पर जल और स्थल का सुकाविला करो ८. मौलिम कै दोते है, वे एक दूसरे के बाद क्यों रुद आते हैं ९. दिन और रात कब और कहां बगरर होते हैं १०. गरमियों में दिन बढे और रात छोटी क्यों होती हैं ।



स्थल के भाग

महाद्वीप—पृथिवी के उस बड़े भाग को कहते हैं जिसमें बहुत से मुल्क हों, जैसे एशिया ।

मुल्क—महाद्वीप के उस बड़े भाग को कहते हैं, जिसमें बहुत से सूबे हों, जैसे हिन्दोस्तान ।

सूबा या प्रेसीडेन्सी—मुल्क के उस भाग को कहते हैं, जिसमें कई कमिश्नरियां हों और वह एक लेफ्टनेन्टगवर्नर या चीफ कमिश्नर की हुकूमत में हो, जैसे मंगुक्तदेश आगरा व अजमेर

कमिश्नरी—सूबे के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें कई जिले हों और वह एक कमिश्नर के आधीन हो, जैसे आगरा ।

जिला—उसे कहते हैं जो एक डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की हुकूमत में हो, जैसे मथुरा । +

राजधानी—किसी मुल्क या सूबे के उस शहर को कहते हैं, जहां उस मुल्क या सूबे का बड़ा हाकिम रहता हो; जैसे इलाहाबाद, देहली आदि ।

ब्यापारिक शहर—उस शहर को कहते हैं, जहां बहुत ज्यादा व्यापार होता हो, जैसे कानपुर ।

द्वीप पृथिवी के उस हिस्से को कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, जैसे लंका । +

द्वीपसमूह—बहुत से द्वीपों के झुंड को कहते हैं जैसे लक-द्वीप, मालद्वीप ।

प्रायद्वीप—स्थल का वह हिस्सा जिसके तीन ओर पानी हो, जैसे काठियावाड़ ।


+नोट—जिला आईनी उसे कहते हैं जिसमें फौजदारी और दीवानी की अदालतें अलग अलग हों, जैसे बनारस । और जिला गैर आईनी उसे कहते हैं, जिस में फौजदारी व दीवानी की अदालतें अलग अलग न हों, बल्कि एक ही हाकिम की हुकूमत में हों, जैसे गढ़वाल ।

×नोट—द्वीप दो प्रकार के होते हैं । एक महाद्वीपीय द्वीप जो किसी बड़े द्वीप या प्रायद्वीप के पास हों, जैसे लंका । दूसरे महासागरी द्वीप, जो दूर समुद्र में हों, जैसे पंडमान, निकोबार ।

डमरूमध्यस्थल के उस सकड़े हिस्से को कहते हैं, जो अपने से दो बड़े हिस्सों को मिलाता हो, जैसे, क्रा डमरूमध्य ।

अन्तरीप-पृथिवी के उस सकड़े हिस्से को कहते हैं, जो ~~अन्तरीप~~ (नोकदार) दूर तक समुद्र के भीतर चला गया हो, जैसे कुमारी अन्तरीप । *

किनारा ।



किनारा-पृथिवी के उस हिस्से को कहते हैं, जिससे समुद्र का पानी आकर टकराता हो, जैसे कारमंडल किनारा । नदी इत्यादि के दोनों ओर की पृथिवी को भी किनारा कहते हैं । *

पहाड़-पृथिवी के उस ऊंचे हिस्से को कहते हैं, जो आस पास की ज़मीन से दो हजार फीट से ज्यादा ऊंचा हो, जैसे हिमालय पहाड़ ।

पर्वत-श्रेणी-उन पहाड़ों को कहते हैं जो दूर तक आपस में मिली हुई चली गई हों, जैसे हिमालय या उसकी तरहटी ।

*नोट-अगर कोई पहाड़ी समुद्र के भीतर चली गई हो तो उसको प्रोमॉन्टरी कहते हैं ।

*नोट-अगर दरिया के बहाव की ओर मुह करके बड़े हों तो दांये हाथ को दायां किनारा और बाये हाथ को बायां किनारा होगा ।

पहाड़ का दामन—पहाड़ के नीचे की पृथिवी को कहते हैं, जो उसके किनारे किनारे चली गई हो ।

ज्वालामुखी पहाड़—वे पहाड़ हैं जिनमें से आग निकलती है, जैसे नगर कोट की पहाड़ी ।

पहाड़ी—कम ऊंचे पहाड़ को कहते हैं, जिनकी उंचाई दो हजार फीट से कम हो, जैसे अरबली ।+

दर्रा या पास—दो पहाड़ या पहाड़ियों के बीच के तंग रास्ते को कहते हैं, जैसे दर्रा खैवर ।

घाटी—पहाड़ या पहाड़ियों से घिरी हुई, नीची ज़मीन को कहते हैं, जहां कोई नदी बहती हो, जैसे काश्मीर की घाटी ।

प्लेटो या टेबुललैंड—उस चौरस मैदान को कहते हैं, जो किसी क़दर ऊंचा हो, जैसे मालवा का प्लेटो ।

मैदान—पृथिवी के उस हिस्से को कहते हैं, जो चौरस हो जैसे उत्तरी हिन्दुस्तान का मैदान ।

रेगिस्तान—उन बड़े मैदानों को कहते हैं, जहां बालू हो, जैसे थर का रेगिस्तान ।

नख़लिस्तान या ओसिस—उन हरीभरी जगहों को कहते हैं, जो किसी रेगिस्तान में मौजूद हों और जहां पानी भी पाया जावे ।

+नोट—पहाड़ों के ऊपर के तिरों को चोटी कहते हैं । ज्वालामुखी पहाड़ के मुह को जिस में से आग निकलती है, क्रेटर कहते हैं ।

ऐसे टुकड़े अरब के रेगिस्तान में ज्यादा पाये जाते हैं।

जंगल--उस ज़मीन को कहते हैं, जो गुंजान दरख्तों से भरी हो, जैसे क़जलीवन, सुन्दरबर्न।

वेसिन--वह कुल पृथिवी जो किसी नदी या उसकी सहायक नदी या नदी की शाखों से सींची जाती हो, जैसे गंगा का वेसिन।

पाटर शेड--उस ऊंची पृथिवी को कहते हैं, जो दो वेसिन के बीच में हो, जैसे सतपुड़ा पहाड़, नर्वदा और ताप्ती के बीच में है।

डेल्टा--पृथिवी के उस भाग को कहते हैं, जो त्रिभुजाकार नदी के दहाने पर उसकी धाराओं से बनजाता हो, जैसे गोदावरी का डेल्टा।

दोआबा--पृथिवी के उस हिस्से को कहते हैं, जो दो नदियों के बीच में हो, जैसे रचना दोआब।

बन्दरगाह--वह शहर है जो किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर हो और जहां पर जहाज़ से माल उतरता और लदता हो, जैसे बम्बई।

पानी के भाग।

महासागर--पानी के सबसे बड़े हिस्से को कहते हैं, जैसे हिन्द महासागर।

सागर--पानी के उस हिस्से को कहते हैं, जो महासागर से छोटा हो और किसी कदम ज़मीन से घिरा हो, जैसे अरब सागर।

वाड़ी-पानी के उस हिस्से को कहते हैं, जो दूर तक पृथिवी
अन्दर चला गया हो, जैसे बंगाले की खाड़ी ।

भील-पानी के उस हिस्से को कहते हैं, जो चारों ओर
की से घिरी हो, जैसे सांभर भील । *

लंगून-खारे पानी की भील, जो समुद्र के किसी कदर हिस्से
अलग होजाने के कारण उसके किनारे बन जाती है, जैसे चिल्का ।

मुहाना-पानी के उस तंग हिस्से को कहते हैं, जो पानी के
। बड़े हिस्से को मिलाता हो, जैसे पाक का मुहाना ।

नदी-मीठे पानी की उस कुदरती धार को कहते हैं, जो किसी
हाड़ या भील से निकलकर समुद्र, भील या किसी दूसरी नदी

। जाकर गिरे, जैसे गंगा ।

फर्थ या स्वोरी-नदी के उस चौड़े हिस्से को कहते हैं जो
समुद्र में गिरते समय होजाता है ।

सहायक नदी-वह नदी है, जो किसी दूसरी नदी में जाकर
गिरे, जैसे जमुना गंगा की सहायक नदी है ।

नदी की शाखा-वह नदी है, जो किसी नदी से निकलकर
समुद्र तक अलग वही हो, जैसे हुगली ।

* नोट--भील चार तरह की होती है (१) वह भील जिससे पानी आवे और
निकल भी जावे (२) वह भील जिसमें पानी आवे लेकिन निकले नहीं (३) वह
भील जिससे पानी निकल जावे लेकिन आवे नहीं (४) वह भील जिसमें न तो
पानी आवे और न निकल जावे । यानी न तो कोई नदी उसमें आकर गिरती हो
और न कोई नदी उसमें से निकलती हो ।

निकास--नदी के निकलने की जगह को कहते हैं, जैसे गंगा का निकास गंगोत्री पहाड़, हिमालय के उत्तर में है।

दहाना--नदी के गिरने की जगह को कहते हैं जैसे गंगा का दहाना बंगाले की खाड़ी है।


संगम--दो नदियों के मिलने की जगह को कहते हैं, जैसे गंगा और जमुना का संगम इलाहाबाद में है।

भरना--नदी के किसी ऊंची जगह से नीचे गिरने को कहते हैं।

सोता--उस जगह को कहते हैं, जहां से पानी पृथिवी या पहाड़ के अन्दर से निकलता हो।

नहर--पानी की उस बनाई हुई धार को कहते हैं, जो किसी नदी में से काटकर सिंचाई के वास्ते लेगये हों।

जरूरी बातें--(१) ज्यादा चौड़ी खाड़ी को खोर या आखात या खाल कहते हैं (२) आवदाना वह रास्ता, नदी का जहां होकर वह बहे। चैनलमुहाना से चौड़े पानी के रास्तेको कहते हैं गांव जो आवादी शहर से छोटी हो और जिसमें चन्द्र भांपड़े हों। शहर जो गांव से बड़ा हो और जिसमें बहुत से आदमी रहते हों। (३) प्रायद्वीप का रुख बहुधा दक्षिण की ओर होता है। थोड़े से प्रायद्वीप ऐसे होंगे, जिनका रुख दूसरी तरफ हो। (४) ज्वालामुखी पहाड़ विशेषकर समुद्र के किनारे के मुल्कों में तथा द्वीपों में पाये जाते हैं क्योंकि पृथिवी के नीचे जो आग है वह पानी के मिलाप के कारण जोर कर ऊपर उठती है और बहुतसा हिस्सा खुशकी का ऊंचा होजाना है।



विक्टोरिया झरना

मद्रास

बंगलौर

मंगलौर

वास्को

कलकत्ता

गोदावरी

विक्टोरिया झरना की झरनी

स्वाध्याय हिन्दुस्तान

२१
 श्व--(१) द्वीप नौन प्रायद्वीप, सुहाना और डमरूमध्य, सादिल और किनारा
 पर्वत श्रणी और पहाड की तरहटी मे क्या फरक है ? (२) दो नदियों के मिलने
 की जगह को क्या कहते है । नदी का दायां और बायां किनारा कैसे मालूम
 करते हैं (३) मैदान, घाटी, टेबुललैड, खाडी अन्तरीप और दर्रा की परिभाषा
 लिखो और एक २ मिसाल बताओ । ज्वालाशुखी पहाड किसको कहते है और
 उसका दूसरा नाम क्या है ? [४] इन शब्दों में आपस में क्या अन्तर है--भरना
 व वाटरशेड, सागर व खाडी, महाद्वीप व महासागर (५) नदी किसको कहते है
 है । सहायक नदी और नदीकी शाखामें क्या फर्क है (६) भील किसको कहते है
 और वे कै किसम की होती है । हर एक की परिभाषा लिखो (७) भील, सुहाना
 और खाडी का अन्तर लिखो (८) दो नदियों के बीच की ज्ची पृथिवी को क्या
 कहते है [६] प्रायद्वीप का रख आम तौर पर किस तरफ को होता है इस
 कायदेके विपरीत एक मिसालबतलाओ [१०] डमरूमध्य और प्रायद्वीपका विलोम
 बतलाओ [११] समुद्र के किनारों की भीजों को क्या कहते हैं और वे किस तरह
 बनती हैं [१२] दो पहाडों के बीच के तंग रास्ते को क्या कहते है [१३] अगर
 हम किसी सुहाने को मिट्टी से भरदे तो बताओ कौन चीज अलग हो जावेगी और
 कौनसी मिल जायगी [१४] ज्वालाशुखी पहाड आम तौर पर कहां पाये जाते
 हैं और इनसे पृथिवी की शकल मे क्या फर्क होजाता है ॥

हिन्दोस्तान ।

प्रायद्वीप हिन्दोस्तान जिसको भारतवर्ष और भारतखराड भी
 कहते है, महाद्वीप एशिया का दक्षिणीहिस्सा है । यह मुल्क बहुत
 हरा भरा और आबाद है और इस तरह चारों ओर पहाडों और
 समुद्रों से घिरा है कि कोई कौम सुगमता से यहां नहीं आसकती
 आवादी गुंजान है, आवाहवा मातदिल है और जर्मन उपजाऊ है ।
 पहिले हिन्दू राजे इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, उनके पीछे
 मसलमानों का राज हुआ और फिर अंगरेजों ने धीरे धीरे सब

मुल्क को अपने हाथ में लेलिया और नये सिरे से विद्या और हुनर को बढ़ाया। मुल्क में अमनचैन के वायस लड़ाई भगड़े बंद हुए, लोग अपनी तरकीब बेहतरी के लिये मेहनत करने लगे, खेती की तरकीब हुई, जगह जगह पर रेलें जारी हुई, नहरें खोदी गईं, और तारवर्की का इन्तज़ाम हुआ। मतलब यह है कि कुल मुल्क अब व्यापारिक मुल्क है। इसकी आकृति त्रिभुज या पतंग की सी है।

सीमा—उत्तर में हिमालय पहाड़, जो हिन्दोस्तान को तिब्बत से अलग करता है पूर्व में ब्रह्मा और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्दमहासागर और पश्चिम में अरब सागर, विलोचिस्तान अफ़ग़ानिस्तान है।

विस्तार—हिन्दोस्तान की लम्बाई कुमारी अन्तरीप से नंगा पर्वत तक जो कश्मीर में है, १६०० मील है और चौड़ाई करांची से आसाम में सिदिया तक दो हजार मील से अधिक है। क्षेत्रफल करीब १८ लाख वर्ग मील है।

“साहिल” किनारा।

साहिल यद्यपि पांच हजार मील का है, लेकिन दन्दानेदार न होने के कारण से जहाज़ के ठहरने की बहुत कम जगह है सिर्फ़ चार जगह पर पानी पृथिवी के अन्दर घुस आया है रन कच्छ और खम्भातकी खाड़ी पश्चिम में हैं, मनारकी खाड़ी हिन्दोस्तान और लंका के बीच में है, मरतवानकी खाड़ी बरमा के दक्षिण में है। बम्बई बन्दर अलबत्ता अन्धे बन्दरगाहों में से है। खास ग़ाम साहिल (किनारे) यह हैं(?) उड़ीसा का किनारा, हुगली और गोदावरी।

के बीच में (२) साहिल गोलकुंडा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में (३) साहिल कारोमंडल, कृष्णा और कुमारी अन्तरीप के बीच में (४) मालावार का किनारा, पश्चिमी किनारे पर कुमारी अन्तरीप और गोवा के बीच में है।

अन्तरीप ।

मुंज-अन्तरीप सिंध के पश्चिम में ड्यू-गुजरात के दक्षिण में, कुमारी-अन्तरीप हिन्दोस्तान के दक्षिण में, गाली-और डंडाहेड-लंका के दक्षिण में, पालमीरास, उड़ीसा में और नीगरेस, पीगू के दक्षिण में है।

खाड़ी, सागर और मुहाने ।

मरतवान-की खाड़ी पीगू के दक्षिण में; बंगाल की खाड़ी हिन्दोस्तान के पूर्व में; मनार की खाड़ी हिन्दोस्तान और लंका के बीच में; पाक का मुहाना हिन्दोस्तान और लंका के बीच में; अरब सागर हिन्दोस्तान के पश्चिम में; खम्भात की खाड़ी, काठियावाड़ के पूर्व में; तथा रन कच्छ, काठियावाड़ और कच्छ के बीच में है।

प्रायद्वीप ।

कच्छ और काठियावाड़ हिन्दोस्तान के पश्चिम में और इखन या हिन्दोस्तान का दक्षिणी हिस्सा, विन्ध्याचल के दक्षिण में है।

द्वीप ।

-ड्यू-काठियावाड़ के दक्षिण में: बम्बई क द्वीप, जिनमें बम्बई,

सालसट, कोलावा, और एलीफेण्टा के द्वीप हैं। पश्चिमी किनारे पर: लकड्वीप और मालद्वीप अरब सागर में; लंका हिन्दीस्तान के दक्षिण में; रामेश्वर और मन्नार हिन्दोस्ताब और लंका के बीच, सागर हुगली के दहाने पर; मरग्यू द्वीपसमूह टनासरम के पश्चिमी किनारे पर; एंडमान और निकोवार बंगाले की खाड़ी में हैं।

प्रश्न—[१] हिन्दोस्तान और लंका के बीच में कौन से दो द्वीप हैं और वे एक दूसरे से क्यों कर मिले हुए हैं [२] अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप बयान करो [३] द्वीप और प्रायद्वीप में फर्क बताओ, हिन्दोस्तान के प्रायद्वीप लिखो [४] इन स्थानों में कौन कौन से अन्तरीप हैं, हिन्दोस्तान के दक्षिण में, उड़ीसा में, लंका के दक्षिण में तथा पीगू में [५] हिन्दोस्तान के किनारों के नाम बताओ और वे कहाँ कहाँ हैं [६] हिन्दोस्तान की लम्बाई चौड़ाई क्या है, उसकी पश्चिमी इद्द पर क्या है [७] हिन्दोस्तान की क्या शकल है, उसकी कुदरती बनावट उसके वास्ते क्योंकर लाभ दायक है [८] यह क्या है और कहाँ है,—सागर, टनासरम, काठियावाड, गाली, मरतवान, नीगरेस, एडमान, रामेश्वर, आदम का पुल, और मज ।

पहाड़ ।

हिमालय पहाड़—हिन्दोस्तान की उत्तरी सीमा पर कश्मीर से आसाम तक चला गया है । इसकी लम्बाई १५०० मील और चौड़ाई २०० मील है । यह पहाड़ दुनियाँ के सब पहाड़ों से ऊँचा है और सड़ब बर्फ से ढका रहता है । इसकी मशहूर चोटियाँ ये हैं, एवरिष्ट और धौलागिर, नेपाल में चमलारी भूटान में ।

किनचिनचिंगा, शिकम में। नन्दादेवी कमायूं में। जमनोत्री, गढ़वाल में। और नन्दू कश्मीर में। सबसे ऊंची चोटी एवरिस्ट ^{२९००२} फीट ऊंची है। कराकोरम कश्मीर के उत्तर में, हिन्दू कुश चित्राल के उत्तर में, सफेद पहाड़ उत्तर पश्चिम में काबुल नदी के दक्षिण तक चला गया है। सुलेमान पहाड़ पंजाब व अफगानिस्तान के बीच में हैं। सबसे ऊंची चोटी तख्त सुलेमान है। हाला मिंध और विलोचिस्तान के बीच में। नमक का पहाड़ पंजाब में। शिवालक संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध में। अरवली राजपूताना में, जिसकी ऊंची चोटी आबू का पहाड़ है विन्ध्याचल हिन्दोस्तान के बीच में। ऊंची चोटी जामघाट, सतपुड़ा विन्ध्याचल पहाड़ के समानान्तर नर्वदा और ताप्ती नदी के बीच में। पारसनाथ छोटानागपुर में और गिरनार गुजरात में जैनियोंके पवित्र स्थान हैं। पूर्वीघाट हिन्दोस्तान के पूर्वी किनारे पर पश्चिमीघाट हिन्दोस्तान के पश्चिमी किनारे पर, इनमें महाबलेश्वर अंगरेजों के हवा खाने की जगह है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाती है। ऊंची चोटी उदकमंड है। गारू, खसिया, नागा, और जयंतिया की पहाड़ियां आसाम में। पटकोई ब्रह्मा और आसाम के बीच में और आदम की पहाड़ी लंका में है।

दर्रे ।

दर्रा खैबर सुलेमान पहाड़ में पेशावर से २५ मील पर है, इस रास्ते से हिन्दोस्तान पर सब हमले हुए और यही रास्ता पेशावर से काबुल जाने का है। दर्रा वोल्न हाली पहाड़ में। दर्रा गोमल जिसमें होकर कैटा को रेल जाती है, यही डेराइस्माईलखां को जाने का रास्ता है। दर्रा काराकोरम लिया को जाने का रास्ता है। दर्रा शबकी शिमला को जाने का रास्ता है। सिवाय इनके दो रास्ते और हैं, एक नैनीताल से तिब्बत जाने को और दूसरा दार-जिलिंग से लामा जाने को ।

नदी ।

हिन्दोस्तान की कुल नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरवसागर में ।

अरवसागर में गिरनेवाली नदियां ।

इंडस या सिंध—तिब्बतमें कैलाश पर्वत से निकल कर कश्मीर, पंजाब और सिंध में १८०० मील बहकर अरवसागर में गिरती है । इसमें काबुल नदी दायें तरफ से और झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, और सतलज बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। इस पर अटक, डेराइस्माईलखां, डेरागाजीखां मठनकोट, रोड़ी, शकर, हैदराबाद और करांची हैं।

लुनी—अरवली पहाड़ के पूर्व में बहती हुई रनकच्छ में गिरती है।

सावरमती और माही—दक्षिण की तरफ बहकर स्वभात की खाड़ी में गिरती हैं।

नर्वदा—अमरकंटक पहाड़ से निकल कर भड़ोच के पास खम्भात की खाड़ी में गिरती है, इसपर जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर और होशंगाबाद हैं ।

ताप्ती—सतपुड़ा पहाड़ से निकलकर मध्यहिन्द और दम्बई में ५०० मील बहकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है, इस पर बैतूल, बुढानपुर और सूरत हैं ।

बंगाल की खाड़ी में गिरनेवाली नदियां ।

ब्रह्मपुत्र—हिमालय पहाड़ के उत्तर मानसरोवर मील से निकलकर तिब्बत में सांपू और देहांग के नाम से बहकर आराम व बंगाल में बहता हुआ १६८० मील बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है । टिसिया और सुरमा इसकी सहायक नदियां हैं और रंगपुर, नौगांव, गोहाटी, दिरंग और ढाका इसपर आबाद हैं ।

गंगा—हिमालय में गंगोत्री से निकलकर १५०० मील बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । जमुना, काली, रामगंगा, गोमती घाघरा, रावती, गंडक, महानन्दा, कोसी, सोन और करमनासा इसकी सहायक नदियां हैं और हरिद्वार, विजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद मिर्जापुर, बनारस, पटना, मुंगेर, राजमहल, मुर्शिदाबाद, हुगली और कलकत्ता इस पर आबाद हैं ।

जमुना—हिमालय पहाड़ से निकलकर इलाहाबाद में गंगा से मिलजाती है । चन्बल, सिंध, चेतवा, केन और धोसन इसकी सहायक नदियां हैं और देहली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद किनारे के शहर हैं ।

काली—हिमालय पहाड़ से निकलकर कन्नौज के पास गंगा से मिल गई है इसपर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और कामगंज आवाद हैं।

रामगंगा—हिमालय पहाड़ से निकलकर कन्नौज में गंगा से मिल गई है, इसपर वरेली और मुरादाबाद हैं।

गोमती—हिमालय से निकलकर गंगा में मिली है। इसपर लखनऊ, सुलतानपुर और जौनपुर हैं।

घाघरा—हिमालय से निकलकर छपरा के पास गंगा से मिली है। इसपर बहरामघाट, फैजाबाद और अयोध्या हैं।

महानदी—अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसपर सम्भलपुर मोनपुर और कटक हैं।

गोदावरी—मयादरी पहाड़ से निकलती हैं। बारधा और पाई गंगा इसकी सहायक नदियां हैं नासिक और राजमहन्दी इसपर आवाद हैं।

कृष्णा—पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भीमा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं और सितारा, करनूल तथा मछलीपट्टम इसपर आवाद हैं।

कावेरी—पश्चिमी घाट से निकली है और ५७५ मील बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसपर मरंगापट्टम, त्रिचिनापली और तंजौर हैं। उत्तरी व दक्षिणी नगर मैसूर के पहाड़ों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहली पर नीलोर और दूसरी पर वीलोर और अरकट हैं।

ऐरावती—और सालविन ब्रह्मा में दक्षिण की तरफ बहकर तैवान की खाड़ी में गिरती हैं। ऐरावती पर परदूम और रंगून हैं।

प्रश्न—[१] हिमालय पहाड़ की मशहूर चोटियों को बताओ [२] हिमालय उत्तरी व दक्षिणी ढाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं और वे कहाँ हैं गिरती हैं [३] इस इलाक़े की खाली जगहों को भरो... परबत के स से निकलकर पहिले उत्तर व पश्चिम की तरफ बहकर कश्मीर से... बहकर उम पृथिवी के ठिस्से को साँचता हुआ जिसको... कहते हैं और द को...में बहकर सागर में गिरता है [४] उन नदियों के नाम बताओ जिन पर ये शहर आबाद हैं—अटक, तंजौर, परदूम, राजमहन्डी, लखनऊ, फैजाबाद टक, नौगांव; गाज़ीपुर, कालपी, और बरेली [५] विन्ध्याचल के दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और वे कहाँ कहाँ गिरती हैं [६] नदियों से क्या लाभ है। कृष्णा की सहायक नदियों के नाम बताओ [७] इन नदियों पर कौन कौन से शहर आबाद हैं—गोमती, घाघरा, कावेरी, काली, और रामगंगा [८] खम्भात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं और वे किस तरफ से आती हैं [९] हिन्दोस्तान के उन दरों को लिखो, जिनमें होकर लोग आते जाते हैं [१०] हिन्दोस्तान के पहाड़ों में अंगरेजों के हवा खाने के स्थान बताओ।

मैदान व घाटी ।

दक्षिण का प्लेटो—यह मैदान विन्ध्याचल के दक्षिण में है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ तक चला गया है। पूर्व व पश्चिम में यह मैदान पूर्वी व पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इस मैदान का ढाल पूर्व की तरफ है क्योंकि सब नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकल कर पूर्व को बहती हैं।

मालवा का प्लेटो—यह मैदान विन्ध्याचल और अरवली पहाड़ के बीच में है और चम्बल तथा उसकी सहायक नदी उमको सींचती है

थर या बड़ा जंगल—यह बहुत बड़ा रेतीला मैदान है और अरवली पहाड़ से सिंध नदी तक फैला हुआ है इसमें सिंध व राजपूताना का रेतीला मैदान भी शामिल है ।

कश्मीर की घाटी—यह घाटी कश्मीर में है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है ।

सिंध नदी की घाटी—इसमें सिंध नदी का डेल्टा और उसके ऊपर की ज़मीन भी शामिल है ।

गंगा का मैदान—यह मैदान हिमालय और मालवा के प्लेटो के बीच में है और बंगाल की खाड़ी से अरवली पहाड़ तक फैला हुआ है । इसका ढाल पूर्व की तरफ है ।

हिन्दोस्तान का बड़ा मैदान—यह वह मैदान है, जिस में गंगा और सिंध के बेसिन शामिल हैं ।

मुन्दरवन—गंगानदी के दहाने पर दलदली ज़मीन है, कहीं रेत के टीले हैं और कहीं जंगल है ।

करनाटक का मैदान—कृष्णा नदी से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है किनारे की तरफ चौरस लेकिन रेतीला है ।

वन्दरगाह ।

पश्चिमी किनारे पर करांची, सूरत, बम्बई, गोवा, मंगलोर कालीकट, बेपुर । लंका में कोलम्बो, प्वाइंटडीगाली और त्रिकोमाली । पूर्वी किनारे—पांडिचेरी, मदरास, मछलीपट्टम, बिज़गापट्टम; कलकत्ता और चटगांव हैं ।

भील ।

(१) डल और उलर कश्मीर में (२) मंचर सिंध में (३) रन कच्छ काठियावाड़ और सिंध के बीच में (४) सांभर राजपूताना में (५) लोनार वरार में (६) पालीकट कारोंमंडल के किनारे पर (७) कोलेर गोदावरी और कृष्णा के दहानों के बीच में (८) चिलका उड़ीसा में (९) मानसरोवर और सबनहद या एक हिमालय पहाड़ में हैं।

प्रश्न—(१) विंध्याचल और अरवली पहाड़ के बीच के मैदान को क्या कहते है (२) गंगा नदी के दहाने पर के बीच के मैदान को क्या कहते हैं और वह किस तरह का मैदान है (३) नीचे लिखे हुए मुकामों पर कौनसी भीलें हैं— कारोंमंडल के किनारे पर, उड़ीसा में, गोदावरी और कृष्णा के दहानों के बीच (४) हिन्दोस्तान के पश्चिमी किनारे के बन्दर, विन्ध्याचल के उत्तर की भीलें और धर का हाल लिखो (५) चिलका किस प्रकार की भील है, ऐसी भीलें किस खास नाम से पुकारी जाती हैं।

नहरें

हिन्दोस्तान में सिंचाई के लिये बहुतसी नहरे जगह जगह पर जारी हैं। बड़ी नहरों में से छोटी छोटी नहरें निकाली है, इस तरह पर बहुत से हिस्सों में इन नहरों से खेती होती हैं। पंजाब में सतलज जमुना सिंध और चिनाव की नहरों से सिंचाई होती हैं। संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध में गंगा और यमुना की नहरें काम देती हैं। सिंध और बम्बई में बहुत सी नहरें हैं। मद्रास में गोदावरी; कृष्णा; कावेरी और पीनार से नहरें काटी गई हैं और बंगाल में महानदी और मोन की नहरों से बहुत खेती होती है।

थर या बड़ा जंगल—यह बहुत बड़ा रेतीला मैदान है और अरवली पहाड़ से सिंध नदी तक फैला हुआ है इसमें सिंध व राजपूताना का रेतीला मैदान भी शामिल है ।

कश्मीर की घाटी—यह घाटी कश्मीर में है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है ।

सिंध नदी की घाटी—इसमें सिंध नदी का डेल्टा और उसके ऊपर की ज़मीन भी शामिल है ।

गंगा का मैदान—यह मैदान हिमालय और मालवा के प्लेटो के बीच में है और बंगाल की खाड़ी से अरवली पहाड़ तक फैला हुआ है । इसका ढाल पूर्व की तरफ है ।

हिन्दोस्तान का बड़ा मैदान—यह वह मैदान है, जिस में गंगा और सिंध के बेसिन शामिल हैं ।

सुन्दरवन—गंगानदी के दहाने पर दलदली ज़मीन है, कहीं-कहीं के टीले हैं और कहीं जंगल है ।

करनाटक का मैदान—कृष्णा नदी से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है किनारे की तरफ चौरस लेकिन रेतीला है ।

बन्दरगाह ।

पश्चिमी किनारे पर करांची, सूरत, बम्बई, गोवा, मंगलोर-कालीकट, बेंपुर । लंका में कोलम्बा, प्वाइंटडीगाली और त्रिकोमाली । पूर्वी किनारे—पांडिचेरी, मदरास, मछलीपट्टम, विज़गापट्टम; कलकत्ता और चटगांव हैं ।

शाखें हैं (१) मुरादाबाद से देहली तक (२) लुक्मर से देहरादून तक (३) बरेली से अलीगढ़ तक (४) लखनऊ से कानपुर तक ।

(६) बंगाल नागपुर रेलवे-हावड़ा से खड़गपुर और विलासपुर होती हुई नागपुर में जी. आई. पी. से मिल गई है । एक शाख खड़गपुर से दक्षिण को बालर तक गई है और मदरास रेलवे से मिल गई है ।

(७) मदरास रेलवे-मदरास से आरकोनम तक है यहां से इसकी एक शाख कालीकट तक और दूसरी रायचोर तक है ।

(८) साउथ इंडियन रेलवे-मदरास से दक्षिण की तरफ पांडेचेरी, तंजार, त्रिचनापली और मदुरा होती हुई तनावर्ली तक गई है ।

(९) ब्रह्मा स्टेट रेलवे—रंगून से एक शाख प्रोम तक और दूसरी मांडले तक है ।

(१०) सीलोन स्टेट रेलवे कोलम्बो से कांडी तक जाती है । इनके सिवाय और बहुत सी छोटी २ रेलें हर तरफ को जाती हैं ।

प्रश्न—(१) अगर कोई आदमी आगरा से बम्बई जाना चाहे तो बतलाओ केस किस लाइन पर होकर जासकता है और कहां कहां से उसको दूसरी लाइनों पर सवार होना होगा (२) बम्बई से हावड़ा तक जाने में किसी आदमी को किस किस लाइन पर बैठना होगा (३) ईस्ट इंडियन रेलवे कहां से कहां तक जाती है, रास्ते में जंक्शन स्टेशन कहां कहां मिलेंगे (४) ये शहर किन लाइनों पर हैं—तंजौर, बेपुर, प्रोम, रायचोर विलासपुर, भांसी, अजमेर, मुरादाबाद, ललतान, सहारनपुर (५) मथुरा, आगरा और लखनऊ में कौन कौन लाइनें आकर मिलती है (६) मदरास में किन किन नदियों से नहरें निकाली गई हैं (७) ब्रह्मा और लका में कौन कौनसी रेलें हैं और कहां कहां को जाती हैं । बलपुर ने कलकत्ते जानेवाला आदमी कौनसा सीधा रास्ता पसंद करेगा ?

रेल्वें ।

- (१) ईस्ट इंडियन रेलवे कलकत्ता में कालका तक जारी है । इसकी बहुतसी शाखें इधर उधर फैली हुई हैं और जगह जगह और लाइनों से मिलती चली गई हैं । खास खास जकणन स्टेशन भागलपुर, बांकीपुर, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, टूंडला, आगरा, अलीगढ़, गाज़िआबाद, देहली और अम्बाला हैं ।
- (२) नार्थ वेस्टर्न रेलवे—देहली से गाज़िआबाद, मेरठ, सहारनपुर, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी होती हुई पेशावर को गई है एक शाख लाहौर से रोड़ी शकर होती हुई करांची को गई है ।
- (३) ग्रेट इंडियन पेनिनशुला रेलवे—इसकी दो शाखें हैं । एक बम्बई से जबलपुर तक इसमें से इटासी में एक शाख झांसी आगरा होती हुई देहली तक गई है । दूसरी शाख बम्बई से रायचोर तक गई है और वहां से मदरास रेलवे शुरू होगई है ।
- (४) बम्बई बरोदा ऐन्ड सेन्ट्रल इंडिया रेलवे—यह लाइन बम्बई से अहमदाबाद होती हुई कच्छ के किनारे वितरी तक गई है । इसकी एक शाख राजपूताना भालवा रेलवे के नाम से अहमदाबाद से अजमेर, जैपुर, भरतपुर, मथुरा और फर्रुखाबाद होती हुई कानपुर तक गई है ।
- (५) अवध ऐराड रुहेलखंड रेलवे—यह लाइन मुगलसराय से बनारस, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली और मुरादाबाद होती हुई महारनपुर तक चली गई है । इसकी कई

शाखें हैं (१) मुरादाबाद से देहली तक (२) लुक्मर से देहरादून तक (३) बरेली से अलीगढ़ तक (४) लखनऊ से कानपुर तक।

(६) बंगाल नागपुर रेलवे-हावड़ा से खड़गपुर और विलासपुर होती हुई नागपुर में जी. आई. पी. से मिल गई है। एक शाख खड़गपुर से दक्षिण को बालर तक गई है और मदरास रेलवे से मिल गई है।

(७) मदरास रेलवे-मदरास से आरकोनम तक है यहां से इसकी एक शाख कालीकट तक और दूसरी रायचोर तक है।

(८) साउथ इंडियन रेलवे-मदरास से दक्षिण की तरफ पांडेचेरी, तंजार, त्रिचनापली और मदुरा होती हुई तनावली तक गई है।

(९) ब्रह्मा स्टेट रेलवे—रंगून से एक शाख प्रोम तक और दूसरी मांडले तक है।

(१०) सीलोन स्टेट रेलवे कोलम्बो से कांडी तक जाती है। इनके सिवाय और बहुत सी छोटी २ रेलें हर तरफ को जाती हैं।

प्रश्न—(१) अगर कोई आदमी आगरा से बम्बई जाना चाहे तो बतलाओ किस किस लाइन पर होकर जासकता है और कहां कहां से उसको दूसरी लाइनों पर सवार होना होगा (२) बम्बई से हावड़ा तक जाने में किसी आदमी को किस किस लाइन पर बैठना होगा (३) ईस्ट इंडियन रेलवे कहां से कहां तक जाती है, रास्ते में जंक्शन स्टेशन कहां कहां मिलेंगे (४) ये शहर किन लाइनों पर है—तंजौर, वेपुर, प्रोम, रायचोर विलासपुर, भांसी, अजमेर, मुरादाबाद, खलतान, सहारनपुर (५) मथुरा, आगरा और लखनऊ में कौन कौन लाइनें आकर मिलती है (६) मदरास में किन किन नदियों से नहरे निकाली गई हैं (७) ब्रह्मा और लका में कौन कौनसी रेलें हैं और कहां कहां को जाती हैं। जबलपुर से कलकत्ते जानेवाला आदमी कौनसा भीषा रास्ता पसंद करेगा ?

पैदावार ।

उभिद्वज-गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रुई, गन्ना, नील, अफीम, करीब २ हर जगह होते हैं। हिमालय पहाड़, नीलगिरी और बंगाल में चाय। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर कहुवा। मलायार और कारोमंडल के किनारे पर, नर्वदा की घाटी में पीगू और टनासिरम में ढीक (तून) लकड़ी। मद्रास हाते में चंदन की लकड़ी।

खानिज-लोहा और कोयला सब जगह मिलता है। बर्दवान और जवलपुर से ज्यादा आता है। चांदी बंगाल के जंगलों में। सोना टनासिरम, आसाम, पंजाब और मलायार की नदियों में। कीमती पत्थर सम्भलपुर, गोलकुण्डा और मध्यदेश में। नमक सुन्दरवन के खारी पानी से, पंजाब की कानों से, सांभर झील से और बम्बई और मद्रास के किनारे से। संगमरमर जयपुर और जवलपुर से।

पशु ।

हाथी-हिमालय के जंगलों में, मैसूर, कुर्ग, चटगांव, आसाम और लंका में। चीला करीब करीब सब हिन्दोस्तान में मिलता है तथा पंजाब, कमायूं, मैसूर, कुर्ग और सुन्दरवन में बहुतायत से मिलता है। और राजपूताना, सिंध और गुजरात में पाया जाता है हिरन बहुत किस्म के होते हैं और वे पहाड़ों, जंगलों और मैदानों

नकशापैदावार हिन्दुस्तान



में मिलते हैं। ऊंट और जंगली गधे उत्तर और पश्चिम में होते हैं। बाक्री और जानवर जैसे तेंदुआ, रीछ, गैंडा, लोमड़ी, बंदर, गीदड़ वगैरह, मिलते हैं। मगर और घड़ियाल आदि नदियों में पाये जाते हैं। सांप, चिड़ियां और कीड़े मकोड़े कैकड़ों किरूम के जगह जगह मिलते हैं। पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, वगैरह भी हर जगह पाये जाते हैं।

भाषायें ।

हिन्दोस्तान में बहुतसी भाषाएं बोली जाती हैं और वे सब उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां वे बोली जाती हैं। जैसे अंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, नेपाल में नेपाली, कश्मीर में कश्मीरी, सिंध में सिंधी, और उड़ीसा में उड़िया, मद्रास में मरहठी, तामिल, तैलंगू आदि। और उर्दू, हिन्दी अंध्रप्रदेश आगरा व अवध में बिहार में हिन्दी, आसाम में आसामी, बम्बई में पारसी। और हिन्दी के बोलने तथा समझनेवाले प्रायः सब जगहों में पाए जाते हैं।

विद्या ।

हिन्दोस्तान में विद्या का प्रचार हर जगह फैलता जाता है। अंगरेज सरकार की जबसे यहां हुकूमत हुई है, हर एक गांव, कसबा व शहर में सरकारी व इन्डादी व नैंग इन्डादी मदरसे ज़ागी है। बड़े बड़े शहरों में कालिज है। छोटे छोटे शहरों में अंग्रेजी स्कूल हैं, बहुत सी जगहों में ट्रेनिंग स्कूल और कालिज हैं; जहां नियत प्रकार

कराने का ढंग पढ़ाया जाता है। हर एक कसबे में शरिस्ता तालीम का एक एक महकमा है और अलग-अलग सूबे की तालीम का इन्तज़ाम हर एक सूबेके डायरेक्टर साहब बहादुर के अधिकार में है।

हुकूमत ।

क़रीब क़रीब तमाम हिन्दोस्तान सम्राट पंचम जार्ज की हुकूमत में है। उनकी तरफ़ से एक वायसराय यानी गवर्नर जनरल बहादुर रियासत के इन्तज़ाम के वास्ते मुक़रर हैं और उनके मातहत लेफ्टेनेन्ट गवर्नर, चीफ़ कमीश्नर और कलेक्टर वगैरह हैं। खिराज देनेवाली रियासतों की देख भाल एजेंट गवर्नर जनरल और रेज़ीडेण्ट के द्वारा होती है। हिन्दोस्तान में तीन तरह का राज्य है (१) ब्रिटिश इण्डिया यानी हिन्दोस्तान का उतना हिस्सा जो श्रीमान् गवर्नर जनरल साहब के मातहत है (२) खिराज देनेवाली हिन्दोस्तानी रियासतें, जिनमें रेज़ीडेण्ट की मदद से राजा लोग राज करते हैं (३) स्वतन्त्र रियासतें या वे रियासतें जो ग़ैर मुल्क वालों के कब्ज़े में हैं।

प्रश्न—[१] हिन्दोस्तान में आजकल तालीम की क्या सूरत है, किमी सूबे के इस मुहकमे के सबसे बड़े चफ़सर को क्या कहते हैं, [२] हिन्दोस्तान की हुकूमत का बन्दोबस्त किस प्रकार किया गया है, खिराज देनेवाली रियासतों की निगरानी किसके निपुण है [३] हिन्दोस्तान में किस तरह की हुकूमत है [४] हिन्दोस्तान में कहां कहां पर कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं [५] जूट, क़हवा, संदल (चटन) मोना, कीमती पत्थर और नमक कहां कहां में मिलता है [६] कौन कौन जानवर हिन्दोस्तान में कहां कहां पाये जाते हैं

ब्रिटिश इंडिया ।

ब्रिटिश इंडिया—हिन्दोस्तान के उनमें हिस्से को कहते हैं, जो गवर्नमेंट अंगरेज़ी सरकार की हुकूमत में हैं। ब्रिटिश इंडिया तीन

अहातों में बंटी हुई है। पहिले बंगाल हाता, जिसमें बंगाल बिहार व उड़ीसा आसाम, ब्रह्मा, संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध और पंजाव शामिल हैं। बंगाल में गवर्नर, आसाम में चीफकमिश्नर और बाक़ी में एक एक लेफ्टेनेंटगवर्नर या चीफकमिश्नर रहते हैं (२) अहाता बम्बई (३) अहाता मदरास, ये दोनों एक एक गवर्नर के मातहत हैं। छोटे छोटे हिस्सों में चीफकमिश्नर हैं, जैसे मध्यदेश, उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा, अजमेर व कुर्ग। हर एक ज़िले में एक एक कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर हैं और हर एक तहसील में एक एक तहसीलदार हैं। इस प्रकार अगरेज़ी अमलदारी १५ सूबों में बंटी हुई है और वे इस प्रकार से हैं।

नं०	सूबा	सदरमुकाम	बड़ा हाकिम
१	बंगाल	कलकत्ता	गवर्नर
२	आसाम	शिलांग	चीफ कमिश्नर
३	बिहार व उड़ीसा	पटना	लेफ्टेनेंटगवर्नर
४	संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध	इलाहाबाद	"
५	पंजाव	लाहौर	"
६	दहली	दहली	चीफ कमिश्नर
७	उत्तरी व पश्चिमी सरहद्दी ज़िले	पेशावर	चीफकमिश्नर
८	ब्रिटिश विलोचिस्तान	क्वैटा	"
९	अजमेर	अजमेर	"
१०	मध्यदेश व वरार	नागपुर	"
११	बम्बई	बम्बई	गवर्नर
१२	मदरास	मदरास	"
१३	ब्रह्मा	रंगून	लेफ्टेनेंटगवर्नर
१४	कुर्ग	मरकरा	चीफकमिश्नर
१५	अंडमान	पोर्टब्लेयर	"

बंगाल ।

बंगाल प्रेसीडेंसी--हिमालय पहाड़ और बंगाल की खाड़ी के बीच में है और निहायत ही हरीभरी और आवाद है ।

सीमा--उत्तर शिकम और भूटान, पूर्व में आसाम और उत्तरी ब्रह्मा, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में बिहार और उड़ीसा का नया सूबा है ।

भाषाएं--बंगाली, हिन्दी, उर्दू और देसी भाषाएं बोली जाती हैं ।

मजहब--ज्यादातर हिस्से में हिन्दू और खासकर बंगाली रहते हैं । कुछ हिस्से में मुसलमान और दूसरे मजहब के लोग रहते हैं ।

आवहवा--आमतौर पर मरतूब है । समुद्र के किनारे के हिस्सों में और उत्तरी पहाड़ी मुलकों में बहुत मेंह बरसता है ।

इतिहास-- सन् १८५७ ई० के पहले हुगली के आसपास के चालीस गांव अंगरेजों के कब्जे में थे । सन् १७५७ ई० की पलासी की लड़ाई के बाद इनकी बादशाहत की जड़ जम गई । सन् १७६४ ई० में बंगाल विहार और उड़ीसा की ज़मींदारी इनको शाहआलम से मिली इसी तरह और भी हिस्से मिले २ इनकी हुकूमत में शामिल होते गये सन् १८०५ ई० में आसाम पूर्वी बंगाल उससे अलग हुआ लेकिन सन् १८१२ ई० में आसाम फिर अलग कमिश्नरी ठहराया गया और विहार उड़ीसा अलग कर दिये गये । बंगाल में गवर्नर, मुकर्रर हुआ और उड़ीसानिकालकर अलग सूबा बनाया गया और राजधानी कलकत्ता के बजाय देहली बनाई गई ।

५ कमिश्नरी व २७ ज़िले ।

(कमिश्नरी) (ज़िले)

बर्दवान--बर्दवान, बाँकुड़ा, वीरभूमि, मेदिनीपुर; हुगली हावड़ा ।

प्रेसीडेंसी कलकत्ता; चौबीस परगना, नदिया, जैसोर, खुलना
मुर्शिदाबाद ।

राजशाही--राजशाही, पवना, बोगरा, मालदह, दीनाजपुर

रंगपुर, जलपाईगोड़ी, दारजिलंग ।

ढाका--ढाका, मैमनसिंह, फरीदपुर, बाक्रगंज ।

चटगांव--टिपरा, नोआखाली, चटगांव पहाड़ी ज़िले, चटगांव

कैफ़ियत ।

बर्दवान--दामोदर नदी पर हुगली के उत्तर पूरब में है और बर्दवान के राजा के रहने की जगह है। यहां चाकू और छुरी अच्छी बनती हैं। हुगली--हुगली नदी पर खास शहर है। कलकत्ता बसने से पहिले अंगरेजों ने यहां कोठी खोली थी। हावड़ा कलकत्ते के मुकाविल रेल का बहुत बड़ा स्टेशन है। कलकत्ता और इसके बीच हुगली नदी पर पीपों का पुल है। वीरभूमि-उत्तर व पश्चिम में है, यहां वैजनाथ महादेव का मंदिर है। बाँकुड़ा-में लोहे की खान है। विशनपुर-में देसी कपड़ा बहुत बुना जाता है। मेदिनीपुर में तम्बाकू अच्छी होती है और ताबें और पीतल के बर्तन अच्छे बनते हैं।

प्रेसीडेंसी में कलकत्ता हिन्दोस्तान का बड़ा शहर हुगली नदी पर है सन् १६८७ ई० में अंगरेजों ने उसको लिया और फोर्ट विलियम किला बनाया । यहाँ यूनीवर्सिटी, अजायबखाना, टकसालघर, हाईकोर्ट और फोर्टविलियम किले की ईमारतें देखने के योग्य हैं । यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा होता है । जैसोर-नदिया के पूर्व में है । नदिया भागीरथी नदी पर पहिले संस्कृत की पढ़ाई के लिये मशहूर था । पलासी की लड़ाई में सन् १७५७ ई० से बंगाल अंगरेजों के कब्जे में आया । मुर्शिदाबाद भागीरथी पर मुसलमानों की राजधानी था । यहाँ रूई और रेशमी कपड़ा अच्छा होता है । कासिमबाजार रेशम के वास्ते मशहूर है । वरहमपुर सिविल स्टेशन है । खुलना जैसोर के दक्षिण में रेल के द्वारा कलकत्ते से मिला हुआ है । राजशाही के जिले में रेशम का कारखाना है । मालदह-महानन्दा नदी पर शीशा और रेशमी पड़ों के वास्ते मशहूर है । चटगांव सूवे का बंदर है । दारजिलिंग में अंगरेज लोग हवा खाने को जाते हैं । ढाका पुराने समय में मुसलमान सूवेदारों की राजधानी था । यहाँ मलमल अच्छी तैयार होती है । रानीगंज और बानकोड़ा कोयले की खानों के बड़े केन्द्र हैं मिराजगंज और नारायनगंज में और जूट और चावलकाखुब व्यापार होता है । देसी रियासतें-कुचबिहार और टिपरा की स्वतंत्र गियासतें ।

प्रश्न—(१) प्रेसीडेसी बंगाल की सीमा बयान करो । उसमें सबसे बड़ा शहर किस नदी पर है और किस लिये मशहूर है (२) नीचे की जगहें कहां हैं और किस लिये मशहूर हैं । ढाका, नदिया, पलासी, दारजिलग, रानीगंज, मुर्शिदाबाद, कासिमबाजार । (३) प्रेसीडेसी बंगाल की कमिश्नरी और चटगांव के जिले बयान करो (४) ये जगहें किस किस कमिश्नरी में हैं, इनको नक्शों में दिखलाओ । चांकुड़ा, हुगली, मैमनसिंह, जलपाईगोड़ी, बाकरगंज राजशाही और जैसोर (५) अंगरेजों के हवा खाने की जगह, कोयले की खानों के केन्द्र, जूट और चावल के व्यापार के स्थान और रेशम के कारखानों की जगहें बताओ । (६) प्रेसीडेसी बंगाल के ऐतिहासिक हाल बताओ और यह भी बताओ कि किस लड़ाई से अंगरेजों की हुकूमत यहां जम गई (७) बंगाल की नदी और पहाड़ बताओ । बंगाल का डेस्टा किस तरह बना और किस किस नदी ने उसके बनने में मदद दी ।

विहार और उड़ीसा ।

इस नये सूचे में विहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा के हिस्से शामिल हैं । सन् १९१२ ई० में यह टुकड़ा बंगाल हाते से निकाल कर एक अलग लेफ्टेनेण्ट गवर्नर के सुपुर्द हुआ पटना राजधानी बनाया गया । और कचहरियां बांकीपुरमें खोली गई ।

सीमा—उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल प्रेसीडेसी, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और मदरास हाता, पश्चिम में मध्यप्रदेश और मध्यदेश नदियां—गंगा, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, गहानदी, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मनी और वैतरनी । पहाड़ हिमालय का दक्षिणी हिस्सा, छोटा नागपुर की पहाड़ियां । पारसनाथ की पहाड़ी, इजागी बाग के जिले में हैं ॥ खेती—चावल, गेहू, तिलहन, नील, गन्ना, मकई, ज्वार, चना, और तमाखू । खनिज पैदावार—कोयला, लोहा, अवरख, तांबा ।

(कमिश्नरी) (ज़िले)

पटना- पटना, गया, शाहाबाद ।

तिरहुत- मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन ।

भागलपुर- भागलपुर, पुरनियां, संथाल परगना, मुंगेर ।

उड़ीसा- कटक, पुरी, बालासोर, संबलपुर, अंगोल ।


छोटानागपुर-पालामऊ, सिधभूमि, मानभूमि, रांची, हज़ारीबाग

कैफ़ियत ।

पटना-विहार की राजधानी गंगा पर बसा है । यह बहुत पुराना शहर है और किसी समय में मगध राज्यकी राजधानी था । यहां अफ़ीम बहुत तैयार होती है । बांकीपुर सिविल और दीनापुर फौज़ी स्टेशन हैं । भागलपुर गंगा पर है । यहां टमर और रेशमी कपड़ा बुना जाता है । मुंगेर गंगा के किनारे पुराना शहर है । किसीसमय में यहां का किला मशहूर था । इसके पास सीताकुंड का गरम सोता है । मुजफ्फरपुर पटने के उत्तर गंडक पर बड़ा शहर है । गया हिन्दुओं और बौद्ध मज़हब वालों का पवित्र शहर है और पटने से रेल के द्वारा मिला हुआ है । हज़ारीबाग़ बहुत अच्छी जगह है । चारों तरफ़ ऊंची २ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अंग्रेजों के हवा खाने की जगह है । दरभंगा पूर्वी तिरहुत का ख़ाम शहर है । यहां महागजा दरभंगा के महल

हिमालय पर्वत
पै पाल

सिकम
पहाड़िया



बिहार व उड़ीसा

स द र व

(कमिश्नरी) (ज़िले)

पटना- पटना, गया, शाहाबाद ।

तिरहुत- मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन

भागलपुर- भागलपुर, पुरनियां, संथाल परगना, मुंगेर

उड़ीसा- कटक, पुरी, बालासोर, संबलपुर, अंगोल

छोटानागपुर-पालामऊ, सिघभूमि, मानभूमि, रांची, हज़ारीबाग

कैफ़ियत ।

पटना--बिहार की राजधानी गंगा पर बसा है । यह बहुत पुराना शहर है और किसी समय में मगध राज्यकी राजधानी था । यहां अफीम बहुत तैयार होती है । बांकीपुर सिविल और दीनापुर फौज़ी स्टेशन हैं । भागलपुर गंगा पर है । यहां टमर और रेशमी कपड़ा बुना जाता है । मुंगेर गंगा के किनारे पुगना शहर है । किसीसमय में यहां का किला मशहूर था । इसके पास सीताकुंड का गरम सोता है । मुजफ्फ़रपुर पटने के उत्तर गंडक पर बड़ा शहर है । गया हिन्दुओं और बौद्ध मज़हब वालों का पवित्र शहर है और पटने से रेल के द्वारा मिला हुआ है । हज़ारीबाग़ बहुत अच्छी जगह है । चारों तरफ़ ऊंची २ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अंग्रेजों के हवा खाने की जगह है । दरभंगा पूर्वी तिरहुत का ग्वाल शहर है । यहां महाराजा दरभंगा के महल

व तालाब देखने योग्य हैं। रांची में छोटे लाट साहब गरमियों के दिनों में रहते हैं। आरा शाहाबाद के ज़िले में ईस्ट इंडियन रेलवे पर है। बक्सर गंगा पर है। यहां सन् १७६४ ई० में अंगरेजों ने नवाब मुर्शिदाबाद को हराया था। कटक महानदी पर बड़ा शहर है। यहां चांदी का काम अच्छा होता है। पुरी में जगन्नाथ जी का मशहूर मन्दिर है। यहां रथयात्रा का मेला अच्छा होता है। बालाशोर में फूल के वर्तन अच्छे बनते हैं। सम्भलपुर में हीरे मिलते हैं। भुवनेश्वर-पुरी के ज़िले में हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है। यहां महादेवजी का मन्दिर है।

प्रश्न—[१] पटना और छोटानागपुर की कमिश्नरियां बताओ। [२] बिहार व उड़ीसा की सीमा बयान करो। [३] नीचे के स्थान कहां है और किस लिये मशहूर है? बालाशोर, भुवनेश्वर, दरभंगा, हजारीबाग, रांची, कटक, पुरी। [४] हीरे कहां से मिलते हैं? सन् १७६४ ई० में अंगरेजों ने नवाब मुर्शिदाबाद को कहां हराया था? इस लेफटेनेन्टी में हिन्दुओं के तीर्थ स्थान कहां कहां पर है। गंगा के किनारे के शहर लिखो। [५] इस लेफटेनेन्टी में कितनी कमिश्नरियां हैं हर एक के नाम लिखो और उनमें से किसी दो के जिले बयान करो। [६] इस सूचे की राजधानी क्या है और वह कहां है, उसकी भाषन क्या जानते हो?

सूचा आसाम।

सन् १६१२ ई० में यह सूचा बंगाल की लेफटेनेन्टी से निकालकर अलग कर दिया गया और इसमें चीफ कमिश्नरी नियत हुई जिसका सम्बन्ध सीधा गवर्नमेंट हिन्द से है। नदियां—ब्रह्मपुत्र नदी इस सूचे की बड़ी नदी है, देहांग और मुवानसरी इसकी सहायक

सिलचर बारक नदी पर कछार का खास शहर चाय की पैदावार के लिये मशहूर है। माकोम में खानें खोदी जाती हैं।

देसी रियासतें--मनीपुर, पहाड़ी टिपरा और बहुत सी छोटी २ रियासतें हैं।

इतिहास--सन् १८७४ ई० में आसाम में चीफ कमिश्नरी कायम हुई। सन् १९०५ ई० में और जिले मिलाकर उसको एक अलग लेफटेनेन्ट गवर्नर के सिपुर्द किया गया और सन् १९१२ ई० में जब कि पूर्वी बंगाल खास में जामिला उम समय आसाम में फिर चीफ कमिश्नरी कायम हुई।

प्रश्न--[१] यह सूबा कब और क्योंकर बना और बंगाल पर उसका क्या असर हुआ [२] आसाम के जिले बताओ [३] यह स्थान नक्शे में दिखलाओ--चेरापूजी, सिलहट, लखीमपुर, सिदिया, शिवसागर [४] यह स्थान किस लिये मशहूर है मिल्हट, कामरूप, डिब्रूगढ़, सिलचर, माकोम और गोलाघाट। [५] इस हिस्से में कौन कौन सी देसी रियासतें है और कौन कौन पहाड़ी सुल्क हैं [६] कौन नदी इस सूबे में बहती है, इसके थोड़े से पहाड़ों के नाम लो।

संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध।

सीमा--उत्तर में हिमालय पहाड़ और नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में रीवां, बुंदेलखंड और ग्वालियर, और पश्चिम में राज-पूताना और पंजाब।

विस्तार--लम्बाई पूर्व से पश्चिम को ५७७ मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ३०० मील है। आबादी अन्दाज़न चार

नदी हैं। सुरमा और वारक मेगना नदी में गिरते हैं। पहाड़-उत्तर में हिमालय, पश्चिम में पटकोई, और लूशाई की पहाड़ियां और बीच में जयंतिया, खसियां और गारू की पहाड़ियां हैं।

खेती--चावल बहुत होता है, चाय की पैदावार भी बहुत है, लाख रवड़ और बांस भी मिलते हैं बहुत सी जगहों में रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं।

सीमा--उत्तर में हिमालय का पूर्वी हिस्सा, पूर्व में नागा की पहाड़ियां और ब्रह्मा, दक्षिण में चटगांव और टिपरा के पहाड़ी जिले और पश्चिम में बंगाल है।

जिले--सिलहट, कछार, लूशाई के पहाड़ी मुल्क, नागा, खसियां और जयंतिया के पहाड़ी मुल्क सुरमा की घाटी में और ग्वालपाग, कामरूप, दिरंग, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर और गारू के पहाड़ी जिले।

कैफियत ।

आसाम में सिलहट सुरमा नदी पर नागंगी और सीतलपाटी के लिये मशहूर है। ग्वालपाडा, गोहाटी, शिवसागर और गेवरूगढ़ में चाय, लकड़ी और चावल की तिजारत होती है। ब्रह्मपूज्जी में दुनियां भर से ज्यादा पानी बरसता है। कामरूप में कामाक्षा देवी का मन्दिर है। कछार में चाय बहुत ज्यादा होती है। गोलाघाट में चावल का व्यापार बहुत होता है।

सिलचर बारक नदी पर कछार का खास शहर चाय की पैदावार के लिये मशहूर है। माकोम में खानें खोदी जाती हैं।

देसी रियासतें--मनीपुर, पहाड़ी टिपरा और बहुत सी छोटी २ रियासतें हैं।

इतिहास--सन् १८७४ ई० में आसाम में चीफ कमिश्नरी कायम हुई। सन् १९०५ ई० में और जिले मिलाकर उसको एक अलग लेफटेनेन्ट गवर्नर के सिपुर्द किया गया और सन् १९२३ ई० में जब कि पूर्वी बंगाल खास में जामिला उस समय आसाम में फिर चीफ कमिश्नरी कायम हुई।

प्रश्न--[१] यह सूबा कब और क्योंकर बना और बंगाल पर उसका

क्या असर हुआ [२] आसाम के जिले बताओ [३] यह स्थान नक्शे में दिखलाओ--चेरापूजी, सिलहट, लखीमपुर, सिदिया, शिवसागर [४] यह स्थान किस लिये मशहूर है सिलहट, कामरूप, डिब्रुगढ़, सिलचर, माकोम और गोलाघाट। (५) इस हिस्से में कौन कौन सी देसी रियासतें हैं और कौन कौन पहाड़ी मुल्क हैं [६] कौन नदी इस सूबे में बहती है, इसके थोड़े से पहाड़ों के नाम लो।

संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध।

सीमा--उत्तर में हिमालय पहाड़ और नैपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में रीवां, बुदेलखंड और ग्वालियर, और पश्चिम में राज-पूताना और पंजाब।

विस्तार--लम्बाई पूर्व से पश्चिम को ५७७ मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ३०० मील है। आवादी अन्दाज़न चार

करोड़ ८१ लाख की है। क्षेत्रफल एक लाख सात हजार वर्गमील है। आवहवा साल में तीन मौसम होते हैं—जाड़ा, गरमी और बरसात, आमदनी १३ करोड़ रुपयों की है। पहाड़-हिमालय पहाड़ की थोड़ीसी चोटियां जैसे नन्दादेवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिवालक पहाड़, गंगा व जमुना के बीच विंध्याचल मिर्जापुर में। नदी-खास नदी गंगा और जमुना हैं, बाकी सहायक नदी हैं। सोलानी, काली, रामगंगा, गोमती, सारदा, घाघरा, और रावती गंगा में उत्तर से, और टोंस और सोन दक्षिण से आकर मिलती हैं, और चम्बल बेतवा, केन, जमुना में मिलता है,

१० कमिश्नरी और ४८ जिले।

(कमिश्नरी) (जिले)

मेरठ—देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर।

आगरा—अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी।

रुहेलखंड—बरेली, विज्नोर, बदायूं, मुगदाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत।

इलाहाबाद—इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद।

भांसी—भांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर।

बनारस—बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाज़ीपुर बलिया।

गोरखपुर—गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती।

कमायूं—गढ़वाल, अलमोड़ा, नैनीताल।

लखनऊ—लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, मीतापुर, हजदंड, खैरी।

फैजाबाद—फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, परतापगढ़, बाराबंकी ।


कैफियत ।

(१) देहरादून—में चाय बहुत होती है, यहां सिक्खों के गुरु रामराय का गुरुद्वारा और समाधि है । लंधौरा—और मंसूरी अंगरेजों के हवा खाने की जगहें हैं । सहारनपुर—का कम्पनी बागमशहूर है, यहां सफ़ेद लकड़ी पर नक्काशी का काम अच्छा होता है । इसी के पास रुड़की में इंजीनियरिंग कालिज है और सोलानी नदी पर पुल बनाकर ऊपर से गंगा की नहर लेगये हैं । हरिद्वार हिन्दुओं का तीर्थस्थान है, यहां गंगास्नान के लिए हज़ारों यात्रों आया करते हैं । मुजफ्फ़रनगर—के कम्मल अच्छे होते हैं । मेरठ काली नदी पर है, यहां पर नौचन्दी का मेला अच्छा होता है । सन् १८५७ ई० में ग़दर का यहां बड़ा ज़ोर रहा । गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान का मेला होता है । हस्तिनापुर—में कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई थी । बुलंदशहर—में घोड़ों की नुमायश अच्छी होती है । अनूपशहर में देसी कपड़ा अच्छा बनता है ।

(२) आगरा—जमुना के किनारे मुगल बादशाहों की राजधानी था । यहां पच्चीकारी का काम अच्छा होता है, दरि और नैचे भी अच्छे बनते हैं । एतमादउद्दौला, किला, मिकन्दरा और ताजमहल अच्छी इमारतें हैं ।

(४८)


ताजवीवी का रौजा, आगरा ।



आगरा से १५ मील पर फतहपुर सीकरी में फैज़ी और
 वीरबल के मशहूर महल हैं। यहां वावर ने राना सांगा को हराया
 था। बटेण्वर में चौपायों के खरीदने और बेचने का मेला कार्तिक में
 होता है। फ़ीरोज़ाबाद में शहाबुद्दीन ग़ोरी ने जयचंद को हराया
 था। मथुरा हिन्दुओं के तीर्थ की जगह जमुना पर है। यहां श्रीकृष्ण-
 चन्द्रजी प्रगट हुए थे। विश्रांत धाट तथा द्वारिकाधीश का मन्दिर
 देखने योग्य है शहरके बीच में नवी साहबकी ममज़िद है। यहां से
 ६ मील पर वृन्दावन है, जहां हज़ारों बड़े और सुन्दर मन्दिर
 बने हुए हैं। गोविन्ददेवजी और मदन मोहनजी के पुराने मन्दिर
 अब तक मौजूद हैं। गोकुल, महावन, बलदेव, नन्दगांव,
 बरसाना राधाकुराड गोवर्द्धन श्रीकृष्णजी की लीला की
 जगह हैं। मैनपुरी में जैनियों का बड़ा मन्दिर है, सन्दूकचा और
 खड़ाऊँ अच्छी बनती हैं। एटा के ज़िले में सोरों में गंगा स्नान
 का मेला होता है अलीगढ़ में मुसलमानों का बड़ा कालिज है और
 अचल तालाव और लाइब्रेरी भी उम्दा है। हाथरस निज़ारत
 की मराठी है, यहां के चाकू अच्छे होते हैं।
 (३) बरेली—में मेज़ कुर्सी अच्छी बनती हैं। विजनौर
 में शकुन्तला पैदा हुई थी। नगीना आवनूस की लकड़ी के
 नक्शदार काम के लिये मशहूर है। नज़ीवाबाद के फूल के बरतन
 अच्छे होते हैं सुरादाबाद के कलई के बरतन मशहूर हैं।

ठाकुरद्वारा की छींट और अमरोहा के मिट्टी के बरतन अच्छे होते हैं। शाहजहांपुर में चाकू और सरौते अच्छे तैयार होते हैं यहां रोज़ाशराव का कारखाना भी है। पीलीभीत के चावल और अन्ननास मशहूर हैं। बदायूं में मैयद अलाउद्दीन अपनी वादशाहत छाड़कर रहे थे।

प्रयाग वा इलाहाबाद का म्योर सेन्ट्रल कालेज।




(४) इलाहाबाद—में गंगा और जमुना मिलती हैं । इनके संगम पर अकबर बादशाह का बनवाया हुआ किला मौजूद है । इस किले में अशोक के समय का एक पत्थर का खंभा है, जिस पर कुछ इबारत उस समय की लिखी हुई है । यहाँ कुंभ का मेला बहुत भारी होता है । इमारतों में यूनिवर्सिटी, म्योर सेन्ट्रल कालेज, गवर्नमेंट हाउस, अजायब खाना और हाईकोर्ट उम्दा है । यह शहर संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध की राजधानी है । कानपुर गंगा के किनारे तिज्जारती शहर है यहाँ कलों के जरिये कपड़ा बनाया जाता है । चमड़े की चीजें जैसे घाड़ों के साज, बक्का, बूट वगैरह अच्छे बनते हैं । गढ़र में नाना साहब ने यहाँ अंगरेजों पर बड़ा जुल्म किया था । बिठूर में नाना साहब रहते थे । यहाँ कार्तिक में गंगा स्नान का मेला होता है । फतेहपुर के जिले खजुआ में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को हराया था इटावे की आवहवा अच्छी है, हमहई स्कूल अच्छा बना है । फर्रुखाबाद में पीतल के बरतन और खेमे अच्छे बनते हैं । फतेहगढ़ में जिले की कचहरियां हैं । कन्नौज गंगा और काली नदी के संगम पर अतर व तेल के लिये मशहूर है ।

(५) भांसी—सन् १८५३ ई० में अंग्रेजी अमलदारी में शरीक हुआ । यहाँ के ऊनी कालीन अच्छे होते हैं । तालबिहट के मर्गेते अच्छे होते हैं । बांदा में चित्रकोट हिन्दुओं के दीर्घ की जगह है । कालिंजर का किला बहुत मंजूरत बना है । इमीरपुर के जिले में

महोबा के पान अच्छे होते हैं। ज़िला जालौन में कालपी का कागज़ और मिथी मशहूर है।

(६) बनारस—गंगा के किनारे हिन्दुओं के तीर्थ की जगह और संस्कृत का घर है। यहां बहुत से मंदिर और अच्छे अच्छे घाट हैं। पीतल के नक्शदार वरतन अच्छे होते हैं। रामलीला और बुढ़वामंगल का मेला देखने के लायक होता है।

काशी वा बनारस के घाट ।



मिर्जापुर में पीतल के वरतन और कार्तीयक अच्छे बनते हैं, यहां से थोड़ी दूर पर विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर है। चुनार में मिट्टी के


वरतन अच्छे बनते हैं, यहां का किला बहुत मज़बूत बना है ।
जौनपुर गोमती नदी पर खुशबूदार तेल के लिये मशहूर है ।
 गोमती पर बादशाही वक्त का मज़बूत पुल है, जिसके दोनों ओर
 दूकानें बनी हुई हैं । **गज़ीपुर** गंगा किनारे गुलाब की पैदावार
 के लिये मशहूर है । लार्ड कार्नवालिस यहां गाढ़े गए थे और उन की
 यादगार में एक मीनार बना है ।

(७) **गोरखपुर**--राप्ती नदी पर है, यहां गुरुगोरखनाथ का
 मन्दिर है । बस्ती की आवोहवा खराब है । बांसी का चावल
 अच्छा होता है । आजमगढ़ के ज़िले में टसरी और रेशमी कपड़ा
 अच्छा बना जाता है ।

(८) **कमायूं**--में गढ़वाल कम आबाद ज़िला है, इस में
 नन्दादेवी सबसे ऊंची चोटी है । बद्रीनाथ और केदारनाथ
 के पहाड़ हिन्दुओं के पवित्र स्थान हैं, यहां हिन्दू लोग यात्रा के
 वास्ते आते हैं । अल्मोड़े की आवठवा अच्छी है । रानीखेत
 की नारंगियां अच्छी होती हैं । नैनीताल में गर्मियों के दिनों
 में हाकिम लोग रहने को जाते हैं, यहां बहुत बड़ा ताल है । काशीपुर,
 रामनगर और हलहानी बड़े कस्बे हैं ।

(९) **लखनऊ**--गोमतीपर अवध की राजधानी है । सन् १८५६
 ई० में यह सूबा संयुक्त प्रदेश आंगराव अवध में मिला लिया गया ।
 यहां हुसेनाबाद, आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा, छतरमंजिल, गीश-
 महल, कौसरबाग, कौनेग कालिज और पारटीन साहब की कौठी, ये
 अच्छी इमारतें । चिकन, खरबूजे और के खिलौने अच्छे होते हैं ।

लखनऊ का इमामबाड़ा ।



मलीहाबाद के आम मशहर, हैं। हरदोई के ज़िले में नीमसार हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है। विसवां का तम्बाकू अच्छा होता है गोले में गोकर्णनाथ महादेव का मन्दिर है।

(१०) फैजाबाद--घाघरा नदी पर पहिले अवध के नज्वाबों की राजधानी था। यहां लकड़ी और हाथीदांत का काम अच्छा बनता है। अयोध्या घाघरा नदी पर श्रीरामचन्द्रजी के प्रगट होने की जगह है, इसमें बहुत मन्दिर हैं और रामनौमी को बड़ा भारी मेला होता है। तुलसीपुर के पास देवीपाटन का अच्छा मेला होता है,

बहराइच में मसऊदगाज़ी की दरगाह है, यहां के नमदे और लोहे के बरतन अच्छे बनते हैं, बाराबंकी में कालीन अच्छे बनते हैं।

मिसिरिख ज़िला सीतापुर में हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है। अंगरेजों के हवा खाने की जगहें—मंमूरी, नैनीताल, तनीखेत, लंधौरा और चकरोता हैं।

देसीरियासतें—(१) रामपुर रहेलखंड में (२) टेहरी गढ़वाल में (३) बनारस गंगा पर।

इतिहास—सन् १८३६ ई० में यह सूबा बंगाल से अलग किया गया और एक लेफटेनेण्ट के सिपुर्द हुआ। सन् १८५६ ई० में अवध भी इसमें मिला दिया गया। सन् १६०१ ई० में जब कि सरहद्दी ज़िलों का एक नया सूबा पश्चिमोत्तर देश के नाम से बनाया गया, तब इसका नाम संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध हुआ।

प्रश्न—[१] ये जगहें किम लिये प्रसिद्ध हैं—मिसिरिख, हाथरस,

शाहजहांपुर, मलीहाबाद, पीलीभीत और बरेली [२] संयुक्तप्रदेश

आगरा व अवध में हिन्दुओं के पवित्र स्थान बताओ और इनकी जगहें बताओ।

[३] ये जगहें नक्शे में बताओ—कालपी, हलद्वानी, फतहपुरसीकरी, हरदोई,

बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, आजमगढ़, बांसी [४] मेरठ कमिश्नरी के ज़िले

बताओ [५] देसी रियासतें, और अंगरेजों के हवा खाने की जगहें बताओ [६]

संयुक्तप्रदेश की कमिश्नरियां और लखनऊ कमिश्नरी के ज़िले बताओ [७] ये

जगहें किस लिये मशहूर हैं—सहारनपुर, रुड़की, अलीगढ़, नजीबाबाद, कालपी,

गाज़ीपुर, बांसी, बहराइच [८] संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध का एक नक्शा


बनाओ और उसमें उसकी नदी और पहाड़ दिखलाओ [६] बड़े बड़े रेलवे जंक्शन स्टेशन बसान करो [१०] ये चीज़ें कहां अच्छी होती हैं—काशीन, तम्बाकू, खड़ाक, आम, नागंगी, टतरी कपड़ा, पीतल के बरतन, रोज़ागान, दरी (११) गंगा और जमुना की सहायक नदी बतवाओ (१२) ये शहर किन नदियों पर बसे हैं—मेरठ, अयोध्या, जौनपुर, इटावा, हरद्वार, बनारस, मुरादाबाद [१३] क़िले और पुराने समय के मकानोंत कहां कहां है !

पंजाब ।

सीमा विस्तार—उत्तर में हिमालय वं कश्मीर, दक्षिण में बहावलपुर, राजपूताना व सिन्ध, पूर्व में तिब्बत व संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध, पश्चिम में विलोचिस्तान व उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा। लम्बाई ५६० मील और चौड़ाई ५३० मील है। क्षेत्रफल ६८ हजार वर्ग मील है। मालगुजारी ७ करोड़ रुपये सालाना है। आबादी सन् १६११ ई० में करीब २ करोड़ आदमियों की थी ।

स्वभाविक भाग—पंजाब तीन स्वाभाविक हिस्सों में बंटा हुआ है। (१) हिमालय के बहाड़ी ज़िले (२) पंजाब खास यानी वह मुल्क, जो सिंध नदी और सतलज के बीच में है (३) सतलज के दूसरी तरफ़ के ज़िले जो सतलज और जमुना के बीच में हैं, अर्थात् जो पहले संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध का हिस्सा था।

नदी—इस सूबे को पांच नदी सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और भेलम सींचती हैं, इसलिये इसका नाम पंजाब हुआ। सबसे बड़ी नदी सिंध है और इसी में ये पांचों नदियां पंचनद के नाम से गिरती हैं। सतलज के पूर्व में सरस्वती है, ज़िम्मेके किनारे आर्य



ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੱਛਿਮ ਚਮੌਲੀ ਦੇਸ਼

लोग आकर बसे थे, लेकिन अब वह राजपूताने के रेगिस्तान में लोप हो गई है ।

पहाड़--उत्तर व उत्तर-पूर्व में हिमालय पहाड़ की चोटियां हैं । भेलम और शाहपुर के बीच नमक की पहाड़ी है । हिमालय का वह हिस्सा जो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच में है, पीर पंचाल के नाम से मशहूर है और कांगड़े की घाटी का उत्तरी हिस्सा धौला धर कहलाता है । *

५ कमिश्नरी और २६ जिले ।

(कमिश्नरी) (जिले)

देहली--गुड़गांव, देहली, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाला शिमला ।

जालंधर--कांगड़ा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फ़ीरोज़पुर

लाहौर--लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, मांटगोमरी, स्यालकोट.

गुजरांवाला ।

रावलपिंडी--रावलपिंडी, गुजरात. शाहपुर, भेलम अटक ।

*नोट--दो नदियों के बीच की ज़मीन को दोआब कहते हैं । इस तरह के दोआबे यहां कई हैं (१) सिंध और भेलम के बीच सिंध सागर दोआब (२) भेलम और चिनाव के बीच जच्छी दोआब (३) चिनाव और रावी के बीच रचना दोआब (४) रावी और व्यास के बीच वारी दोआब (५) व्यास और सतलज के बीच जालंधर दोआब (६) मेंह कम बरसने की वजह से पैदावार कम होती है । गेंडू और बाजरा जाड़े के दिनों में होता है और चाय कांगड़े की घाटी में होती है (७) मंगरेजों के इलाक़ाने की जगह मरी और शिमला हैं ।

मुलतान--मुलतान, मियाँवाली, डेरागाज़ीख़ां, मुजफ़्फ़रगं
भंग, लायलपुर।

कैफ़ियत ।

देहली--जमुना पर अफ़ग़ान और मुग़ल बादशाहों की राजधानी थी । यहां व्यापार बहुत होता है । जामामसज़िद, क़िल और उसके भीतर शाहजहां का बनवाया हुआ संगमरमर का महल और चंद्र मील की दूरी पर कुतुब साहब की मीनार देखने के लायक मकान हैं ।

सन् १८७५ व १९०३ व १९११ में बड़े-बड़े दरवार यहां हुए यह शहर कई रेलों का केन्द्र है । पानीपत में बाबर और राना सांगा के बीच लड़ाई हुई थी । यहां दो दफे और लड़ाइयां हुई थीं । फ़रनाला में नादिरशाह ने मुहम्मदशाह को हराया था ।

ग्रन्नाला में थानेश्वर के मुक़ाम पर शहाबुद्दीन ने पृथिवीराज को हराया था । कुरुक्षेत्र हिन्दुओं का तीर्थस्थान है, यहां कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई थी । गुडगांव में देवीजी की पूजा को लोग जाते हैं । रेवाड़ी में अनाज का व्यापार होता है और पीतल के रतन अच्छे बनते हैं । शिमला अंग्रेजों के हवा खाने की जगह है ।

फ़ांगडे में महामायाका मन्दिर है, यहां की पहाड़ी में से आग निकलती है । लुधियाने में सूती और रेशमी कपड़े अच्छे तैयार होते हैं ।

लाहौर--गवी नदी पर पंजाब की राजधानी है, यहां जहांगीर

और नूरजहां का मकबरा है। मेडीकल कालेज और यूनिवर्सिटी की इमारतें अच्छी बनी हैं। सीरावन और अलीवाल में अंग्रेजों और सिक्खों में लड़ाई हुई थी। मियांमीर में छावनी है। अमृतसर में रेशम और पशमीने का काम अच्छा बनता है। यहां गुरु नानक का मन्दिर तालाब के बीच में है। स्यालकोट में धातु के बरतन अच्छे होते हैं। रावलपिंडी, भेलम और इंडस के बीच फौजी जगह है। गुजरात और चिलियानवाले में अंग्रेजों और सिक्खों में लड़ाई हुई थी। भेलम पर सिकन्दर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। पिंडदादनखां में सैये नमक की खान है।

अटक में अकबर का बनवाया हुआ किला है

मुलतान—चिनाव के पास फौजी और व्यापार का शहर है।

डैरागाजीखां--सरहद पर तिजारती जगह है।

लड़ाइयों की जागहें—कांगड़ा या नगरकोट, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, मुदकी, फीरोज़शहर, अलीवाल, सुवरांव, चिलियानवाला, गुजरात।

देसी रियासतें—पटियाला, नाभा, झींद, फ़रोदकोट, कपूरथला, मण्डी, बहावलपुर, बृशहर और चम्पा।

इतिहास—सन् १८५६ ई० में यह सूबा रंजीतसिंह से फतह किया गया। सन् १८५७ ई० के बाद देहली संयुक्तप्रदेश से निकाल-

कर इसमें शामिल की गई और सन् १६०१ ई० में कुछ इलाके इसमें से निकालकर पश्चिमोत्तर देश में मिलाए गए। सन् १६११ ई० में देहली हिन्दोस्तान की राजधानी बनाई गई।

प्रश्न—(१) ये नाम नक्शों में दिखाओ—जालंधर, डेराइस्माईलखां, मुलतान, मुजफ्फरगढ़, भंग, रावलपिंडी, गुजरांवाला, अमृतसर, कांगडा अम्बाला, करना अटक (२) बारी दोआबमें दो बड़े शहरों के नाम बताओ। (३) लुधियाना किस नदी के पास है, मुल्तान और लाहौर के पास कौनसी नदी है. इस और पचनद के संगम पर कौनसा शहर है (४) पंजाब की देसी रियासतें, लड़ाइयों की जगहें और नदियों के नाम बताओ (५) यह चीजें कहां होती हैं, मृत्ती और रेशमी कपडा और सेधा नमक (६) एक आदमी मुल्तान से दक्षिण की तरफ ६ मील के फासले पर खड़ा है तो बताओ वह किस दोआबे में है (७) पंजाब की कमिश्नरियां और लाहौर के जिले बयान करो [८] बताओ ये जिले किस कमिश्नरी में है—लायलपुर, गुरुदासपुर, गुजरांवाला, अम्बाला, रोहतक, मियांवाली, अमृतसर, अटक, शिमला और भंग।

पश्चिमोत्तरदेश।

यह सूबा सन् १६०१ ई० में एक अलग सूबा बनाकर एक चीफ कमिश्नर की निगरानी में रखा गया जैसा कि नाम से मालूम होता है। इस सूबे में वे जिले शामिल हैं जो हिन्दोस्तान की उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर हैं और जिन्हे अफ़ग़ानिस्तान से मुल्तान और सफ़ेद पहाड़ अलग करता है। इसलिये हज़ारा, पेशावर, कोहाट, वन्नू और डेराइस्माईलखां को पंजाब से अलग किया और उनमें सवात, चित्राल, कुर्रम, मालाकन्द, कन्हैयार, टोजी, तरनाल और शीरानी की एजेंसियां भी शामिल करदी गईं। इसकी राजधानी पेशावर है। आबादी सन् १६०१ ई० में सवा इक्कीस लाख थी।

नदी—सवात, काशुल और कुर्रम हैं।

रेल-नार्थ वेस्टर्न रेलवे लाहौर से पेशावर तक जाती है ॥

भाग-इस सूबे में दो कमिश्नरी और ६ ज़िले हैं ।

(कमिश्नरी) (ज़िले)

पेशावर-- पेशावर, हज़ारा, कोहाट ।

देहराजात-- कुर्रम, वन्नू, डेराइस्माईलखां ।

कैफ़ियत ।

पेशावर-सरहद्दी सूबे की राजधानी है । आवादी ज्यादातर मुसलमानों की है । हिंदुओं की गिनती बहुत कम है । सीमा के बंदोबस्त के वास्ते बहुतसी फ़ौज रहती है । यहां गुरूगोरखनाथ का मन्दिर है । किला, दालाहिसार, अलीमरदानखां का बाग़ और जामामसजिद देखने योग्य है । शहर में मेवा बहुत विकती है । कोहाट लाहौर से २१५ मील पर है, यहां पर एक क़िला बना हुआ है । यहां के सोतों में गरमियों में ठंडा और जाड़े में गरम पानी मिलता है । हज़ारा इस ज़िले का सदर मुक़ाम ऐवतावाद में है और यहां ही कचहरियां और छावनी भी हैं । चित्राल सूबे की उत्तरी सीमा पर बसा है और फ़ौजी स्थान है ।

डेराजात-में वन्नू का सदर मुक़ाम एडवर्डसूत्रावाद है, यहां फ़ौज रहती है । कालाबाग़ में फिटकिरी होती है । डेराइस्माईलखां सिंध नदी पर व्यापारिक नगर है । नाज उन, शक्कर इत्यादि दूसरे मुल्कों को जाती हैं । यह मुल्क रेतीला है, इस कारण से पानी का दुःख है ।

ब्रिटिश बिलोचिस्तान ।

इस सूबे में पेशान, क्वैटा और सीवी के जिले शामिल हैं, जिनमें से सीवी मैदान में बसी है और क्वैटा तथा पेशान एक प्लेटो पर बसे हुए हैं क्वैटा राजधानी है, यहाँ एक क़िला है और सरकारी रोज सीमा की डिफाज़त के लिए रहती है । हिन्दोस्तान और अन्दहार के बीच दर्रा बोलान और दर्रा खोजक हैं ।

रेल की दो लाइनें एक क्वैटा और दर्रा बोलान में होकर, और दूसरी दर्रा नारी में होकर सीवी के पास मिल गई हैं और फिर यह लाइन पेशान तक चली गई है ।

आबादी सन् १९०१ ई० में तीन लाख के करीब थी। यह यहाँ एक चीफ कमिश्नर की निगरानी में है ।

अजमेर व मेरवाड़ा ।

यह हिस्सा दो जिलों अजमेर और मेरवाड़ा से मिलकर बना है और एजेंट गवर्नर जनरल की निगरानी में है, जो अबू पहाड़ पर रहा करते हैं । अजमेर सदर मुकाम है । यहाँ मेओकालिज

जपूताने के राजकुमारों के पढ़ने के लिये बना है । यहाँ पर राजताना मालवा रेलवे का बड़ा दफ्तर है और रेलवे का पुतलीघर भी । खवाज़ा ग़रीबनिवाज़ की दरगाह शहर के बीच में है जहाँ मुलाई के महीने में नौ राज तक मेला होता है । शहर से नौ मील की दूरी पर पुष्कर हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है, यहाँ एक बहुत बड़ा मालाष है और बहुत से जलचर इसमें रहते हैं । नसीराबाद



मध्यदेश बरार हेदाबाद

में छावनी है यहां सरकारी फ़ौज रहती है । ब्यावर मेरवाड़ा में मशहूर जगह है जहां देसी कपड़ा कलों से बनाया जाता है ।

प्रश्न—(१) सीमान्तप्रदेश उत्तरी व पश्चिमी फव और कैसे बना, इस सवे की राजधानी क्या है और वहां कैसे जाते हैं (२) इस सवे के ज़िले बताओ, यहां कौन कौनसी नदी बहती है (३) इनकी वाचत क्या जानते हो—फोहाट, कालावाग, डेराइस्माईलवां, फवैटा, पुष्कर, ब्यावर सीवी (४) अजमेर की क्या चीजें मशहूर हैं, इसके पास हिन्दुओं का कौनसा तीर्थ स्थान है, हिन्दोस्तान और क्या कन्दहार के बीच में कौनसी नदी है ।

मध्यदेश व बरार ।

यह सूत्रा निज़ाम की रियासत और छोटा नागपुर के बीच में है और चारों तरफ से देसी रियासतों से घिरा हुआ है सन् १९०३ ई० से बरार भी इसमें मिला लिया गया है ।

सीमा—उत्तर में भूपाल और संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में हैदराबाद और पश्चिम में सेन्दूल इंडिया एजेन्सी व बम्बई का सूबा है ।

क्षेत्रफल—एक लाख बर्गमील, आबादी लगभग डेढ़ करोड़ ।
 आबहवा—उंचाई के कारण मामूली है (न सर्द है और न गरम)
 पैदावार—जंगल बहुत हैं, केवल एक तिहाई मुल्क में खेती होती है ।
 कपास की पैदावार ज्यादा है । चावल, ज्यार और गेहूं भी पैदा होता है ।
 भाषाएं—उत्तर में हिन्दी, दक्षिण में मरहठी और पूर्व में उड़िया ।
 रेल—ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे भुमावल से नागपुर

को और बंगाल नागपुर रेलवे नागपुर से कलकत्ते को खाने-पानी और बेरोरा में लोहे की खाने हैं। पहाड़-महादेव पहाड़ और पचमढी पहाड़ नर्वदा के दक्षिण को चले गये हैं, विन्ध्याचल, सतपुड़ा और कैम्पूर की पहाड़ी नदी-नर्वदा, ताप्ती, वारधा, सोन, महानदी, वेनगंगा, इन्द्रावती पूरना, केन और सोन के कुछ-कुछ हिस्से इसमें आगये हैं, इस तरह पर यह हिस्सा बहुतसी नदियों का निकास है।

५ कमिश्नरी और २४ जिले ।

(कमिश्नरी) (जिले)

नागपुर-नागपुर, भडारा, चांदा, वारधा, बालाघाट ।

जबलपुर-जबलपुर, दमोह, सागर, स्थोनी, मंडला ।

नर्वदा-बेतूल, छिदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद ।

छत्तीसगढ़-रायपुर, विलासपुर, सम्भलपुर ।

बरार-अमरावती, अकोला, एलिचपुर, बुलढाणा, वासम, और कैफियत ।

नागपुर-मध्य भारत की खास जगह नाग नदी पर बसा है

किसी समय में मरहटे राजाओं की राजधानी था। सीतावल्ली

पहाड़ी पर किला है और छावनी कामटी में नौ मील पर है।

हेगनघाट दक्षिण में रूई की मंडी है। दरौरा में कोयले की

(६५)

ज्ञान है। जब्बलपुर में ईस्ट इंडियन और ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे का मिलाप होता है। यहां भी कोयला मिलता है। सागर फौज के रहने की जगह एक भील के किनारे पर है।

रायपुर—में अनाज का व्यापार होता है। सीतावल्दी में अंगरेजों और आपा साहब के बीच लड़ाई हुई थी। होशंगाबाद को होशंगशाह ने बसाया था। पचमढी में अंगरेज आवहवा बदलने को जाते हैं।

वरार में अमरावती सदर मुकाम है और रूई की मंडी है एलिचपुर में फौज रहती है। पहले समय में यह एमादशाही बादशाहों की राजधानी था।

देसी रियासतें—बहुत सी हैं, परन्तु सब जंगलों से भरी हैं और जंगली लोग रहते हैं। बड़ी रियासत वस्तर की है, जिसकी राजधानी जगदालपुर इन्द्रावती पर है।

इतिहास—सन् १८१८ ई० में पिंडारियों की लड़ाई के बाद-

यह मुल्क अंगरेजों के हाथ लगा। सन् १८५३ ई० में राजा नागपुर के वे औलाद मरने पर वह भी इसमें मिला लिया गया। सन् १९०३ ई० में वरार भी आभिला और सन् १९०५ ई० में कुछ हिस्सा छोटा नागपुर का इसमें मिला लिया गया।

प्रश्न—[१] नूजा वरार और मध्यदेश की रुमिरनती और जब्बलपुर और नागपुर के जिले लिजो [२] नीचे के नामों को नरने में दिग्गयो—दमोद. चित्तानपुर, बुलढाना, इंगनघाट, बेनगंगा, महादेव पद्दाइ [३] मध्य दिशेन्तान

के पास कौनसा मुल्क है और उसका खास शहर कौन है [४] बरार की पूर्वी और दक्षिणी हद्द पर कौन नदी बहती है [५] इस हिस्से में लोहों की खानें कहां कहां हैं और यहां कौन भाषाएँ बोली जाती हैं [६] मध्य देश कहां पर बसा है और उसकी सीमा क्या है [७] इस सूत्रे में फौज कहां कहां रहती है और दंगी रियासतों की क्या कैफ़ियत है [८] यहां की कुछ ऐतिहासिक बातें बताओ [९] यह क्या है और कहां है और क्यों मशहूर हैं। एलिचपुर, पचमही, सीतावल्दी, जन्बलपुर, मुंद पानी, कामती, सागर, अमरावती, हेगनघाट ।

बम्बई हाता -।

सीमा—बम्बई हाते के उत्तर में, वहावलपुर व पंजाब, पूर्व में मद्रास, रियासत हैदराबाद व राजपूताना, दक्षिण में मैसूर और मद्रास हाता और पश्चिम में अरबसागर व विलोचिस्तान ।

विस्तार व भाग—इस हाते में वह सब टुकड़ा मुल्क का जो हिन्दोस्तान के पश्चिमी किनारे पर पंजाब से मद्रास हाते तक चला गया है शामिल है । इस हिस्से के उस टुकड़े को जो पश्चिमीघाट और किनारे के बीच में है कोनकन कहते हैं। वह हिस्सा जो पश्चिमीघाट के दूसरी तरफ़ है, दक्खिन या महा राष्ट्र कहलाता है । घाट के उत्तर के मुल्क को गुजरात कहते हैं और सिन्ध नदी का लोअर बेसिन सिन्ध कहलाता है ।

लम्बाई—उत्तर से दक्षिण तक १ हज़ार मील है और चौड़ाई ३ सौ मील । क्षेत्रफल एक लाख २३ हज़ार बर्गमील है । आवादी करीब २ $\frac{1}{2}$ करोड़ है, जिसमें ज्यादातर हिन्दु हैं,

पांचवे हिस्से में मुसलमान हैं और कुछ जैनी, ईसाई और पारसी हैं आमदनी मुल्क की ११ करोड़ है ।

भाषाएं—मरहठी, कनारी, गुजराती, हिन्दी और पारसी भी बोली जाती हैं ।

आबहवा—सिन्ध में मेह कम बरसता है, उससे यह हिस्सा गर्म व खुश्क है । घाट और किनारे के बीच पानी खूब बरसता है और इस लिये सर्द रहता है ।

पहाड़—पश्चिमी घाट किनारे के समानान्तर उत्तर से दक्षिण को चला गया है विंध्याचल व सतपड़ा खम्भात की खाड़ी से पूर्व को जाते हैं । गिरनार गुजरात में है । करथर पर्वत सिंध की पश्चिमी हद्द पर है । महाबलेश्वर सबसे ऊंची चोटी है और अंगरेजों के हवा खाने की जगह है ।

नदी—इंडस नदी सिंध में बहकर अरब सागर में गिरती है, लूनी और बन्नास रनकच्छ में, सुवरमती, माही, नर्वदा, और ताप्ती खम्भात की खाड़ी में गिरती हैं । गोदावरी और भीमा का उत्तरी हिस्सा इसको सींचता है ।

पैदावार—गेहूं, बाजरा और रुई खास पैदावार हैं, चावल किनारे पर होता है । कोको के पेड़ पश्चिमी घाट पर मिलते हैं: घाट के जंगलों से लकड़ी मिलती है ।

(६८)

५ .कमिश्नरी और २३ जिले ।

(कमिश्नरी) (जिले)

गुजरात उत्तरी किस्मत—अहमदाबाद, भंडोच खेड़
पंचमुहाल, सूरत ।

दक्खिन मध्य किस्मत—अहमदनगर, खानदेश, नासिक
पूना, सितारा, शोलापुर ।

करनाटक—बेलगांव, धारवार, बीजापुर ।

कोलकन—थाना, कोलापुर, रतनागरी, उत्तरी किनारा ।

सिंध—हैदराबाद, करांची, शिकारपुर, थरपरखर सिंध के
ऊपरी हिस्से की सरहद्द हैं ।

कैफ़ियत ।

बम्बई पहले दरजे का व्यापारिक नगर व बन्दर हिन्दोस्तान
के पश्चिमी किनारे पर बसा है यहां की इमारतें बहुत बड़ी और
खूबसूरत हैं। उसके पास एलीफेन्टा में बुद्ध मजहब वालों के मंदिर
और गुफाएं हैं । वस्सीन में बाजीराव और अंग्रेजों के बीच सुलह
नामा हुआ था । अहमदाबाद सावरमती के किनारे वादशाही

* लोट--नोट--कुल आवाता एक गवर्नर की दृष्टमत में है । राजधानी

बम्बई है ।



बम्बई

समय में गुजरात की राजधानी था। भड़ौँच नर्वदा पर रुई की तिजारत के लिये मशहूर है। सूरत ताप्ती नदी पर है और यहां पहले पहल सन् १६०२ ई० में अंग्रेजों की कोठी खुली थी।

अहमदनगर—में औरंगज़ेब का शरीर छूटा था। यहां की दस्तकारी मशहूर है। दरियां भी अच्छी बनती हैं। खानदेश में धूलिया अच्छी जगह है। गोदावरी के निकास के पास नासिक हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, यहां पर श्रीरामचन्द्रजी वनवास के समय में कुछ दिन रहे थे। पूना पेशवा की और सितारा मरहठों की

राजधानी था शोलापुर में तिजारत अच्छी होती है महाबलेश्वर सितारे के उत्तर व पश्चिम में अंग्रेजों के हवा खाने की जगह है।

बेलगांव अंग्रेजी छावनी और व्यापारिक नगर है। धारवाड़ और हुवली में रुई की तिजारत बहुत होती है। बीजापुर पुराने समय में आदिलशाही बादशाहों की राजधानी था।

कोलापुर—बम्बई के दक्षिण में एक छोटासा ज़िला है। यहां की कचहरियां अलीबाग में हैं। उत्तरी किनारे में जंगल बहुत हैं।

हैदराबाद—सिंध नदी पर सन् १८४४ ई० तक सिंध की राजधानी रहा। करांची बहुत अच्छा बन्दर है। म्यानी में अंगरेजों और अमीरों से लड़ाई हुई थी। ठट्टा में मुहम्मद तुगलक मरा था। शिकारपुर व्यापारिक नगर है। द्वारका गुजरात में हिन्दुओं

का पवित्र और तीर्थ का स्थान है। अमरकोट में अकबर पैदा हुआ था।

देसी रियासतें—खैरपुर, कच्छ जिसकी राजधानी भुज है और मंडी बन्दर है। बड़ौदा, काठियावाड़, कोल्हापुर, सावन्तवाड़ी। काठियावाड़ के दक्षिणा किनारे पर सोमनाथ महादेव का मन्दिर है, जिसको महमूद गज़नवीने लूटा था। राजकोट और भावनगर मध्य और पोरबन्दर दक्षिणा में बन्दर है।

इतिहास—यह हाता इस प्रकार बना (१) सूरत में कोठी खुली (२) बम्बई को चार्ल्स टोयम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया (३) सालमट और एर्लाफेन्टा सन् १७८२ ई० में सालवाई के सुलहनामें से मिले। सूरत, भड़ौच, और खेड़ा सन् १८०२ ई० में वर्सीन के सुलहनामें से आये। कौनकन दक्खिन ओर करना टक मरहटों की तीसरी लड़ाई के बाद शामिल हुए और सिंध १८४३ ई० में मिलाया गया।

प्रश्न—(१) नीचे के नामों को नक्शे में दिखलाओ। कौनकन, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, काठियावाड़, कच्छ गिरनार, नवंदा, भड़ौच, सूरत, लुनी, पूना, अहमदाबाद (२) उन दो पहाड़ों के नाम बताओ जो पश्चिम में पूरब की ओर हैं (३) स्वभात की खाड़ी में कौनसी चार नदियां गिरती हैं (४) अहमदाबाद, भड़ौच, सूरत, नासिक और अहमदनगर किन नदियों पर बसे हैं (५) सतपुड़ा पहाड़ कौनसी दो नदियों के बीच में वाटरशेड बनाता है (६) पूर्व की तरफ कौन कौन सी नदी बहती है (७) बम्बई हाते में कौन कौन से हिस्से शामिल है बम्बई हाते में बताओ। (अ) हिन्दुओं के पवित्र स्थान [ब] डेमीगियामते [प] पश्चिमी किनारे के मराठ्टर शहर [त] गेल के जंकशन स्टेगन [ट] गरमी के मौसम में अगरेजों के हवा गाने की जगह [६] अगरेजों के किनारे चलने वाली

(७१) .

नाम कुरांची से बम्बई जावे तो बताओ उस को किन खाड़ियों मे होकर जाना
होगा और कौन कौन सी नदियों के मुहाने दिखलाई देंगे और कौन कौन से
शहर और बन्दर रास्ते मे पढ़ेंगे (१०) बम्बई हाते मे कौन कौन सी भाषाए
बोली जाती है, मरहटों की राजधानी क्या थी (११) बताओ ताप्ती पर बड़
शहर, सिंध का बन्दर, ब खास शहर, गुजरात मुसलमानों की राजधानी, नर्वद
पर रुई की तिजागत की जगह [१२] बम्बई हाते का एक नक्शा बनाओ और
उसमें पहाड नदी बनाओ और उन शहरों के नाम भी लिखो जहां व्यापार
होता है ।

मद्रास हाता ।

मद्रास हाता दक्षिण भारत में दोनों तरफ समुद्र के किनारे
१४ $\frac{1}{2}$ दर्जे अक्षांश तक फैला हुआ है और पूर्वकी तरफ उड़ीसा
क चला गया है । जो जिले समुद्र के किनारे गोदावरी और उड़ीसा
के बीच में हैं, उनको उत्तरी सरकार कहते हैं । यह हिस्सा
विस्तार के खयाल से बंगाल से छोटा है और संयुक्त प्रदेश आगरा
व अवध की तरह आबाद नहीं है ।

सीमा--उत्तर में उड़ीसा, मध्यदेश, हैदराबद, मैसूर, व बम्बई
दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम
में अरबसागर है ।

आबादी--चार करोड़ चौदह लाख आदमियों की है ।

क्षेत्रफल--१४१००० वर्गमील हैं ।

आमदनी--११ करोड़ रुपए सालाना है ।

आवहवा ज्यादा गरम है। पश्चिमी किनारे पर ज्यादा पानी बरसता है। पहाड़ियों की आवहवा अच्छी है और हाकिमतोग गरमियों के दिनों में वहां रहते हैं।

नदी-गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उत्तरी व दक्षिणी पेनार और वीगा है।

पहाड़ पूर्वी व पश्चिमीघाट, नीलगिरी, अनामली, पिलनी और शिवराय हैं।

भील-कोलार, चिल्का और पालीकट।

भाषाएं-तैलगू, तामिल, मलायम और कनारी।

जरूरी बातें-(१) पानी कम बरसने के कारण जगह जगह पर नहरें जारी हैं और इन्हीं के द्वारा आवपाशी होती है (२) पूर्वी और पश्चिमी घाट मैसूर के दक्षिण में मिलते हैं। यहां वे नीलगिरी कहलाते हैं (३) दादाबेटा सबसे ऊंची चोटी है (४) उटकमंड अंग्रेजों के हवाखाने की जगह है (५) वन्दर यद्यपि गिनती में अधिक हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं (६) ज्यादातर लोग हिन्दू हैं, सोलहवां हिस्सा मुसलमानों का है, ईसाई और जगहों से यहां ज्यादा पाए जाते हैं।

वन्दर-गोपालपुर, वजीगापट्टम, मसलीपट्टम कोकोनडा, नागापट्टम, तूतीकोरन, नेपुर, कानूर, मंगलोर और कालीकट।

(१) पूर्वी किनारे के जिले-गंजाम, वजीगापट्टम, गोदावरी, कृष्णा, नेलोर गंतूर, मदरास, चिगलपट्ट, दक्षिणी अर्काट,

- (२) पश्चिमी किनारे के जिले—मलावार, दक्षिणी किनारा
 (३) अन्दरूनी जिले—कड़ापा, करनूल, विलारी, अनंतपुर
 उत्तरी अरकाट, त्रिचनापली, सेलम कोयम्बदूर, नीलगिरी ।
 कैफियत ।

मदरास—पूर्वीकिनारे पर सन् १६३८ ई० में अंग्रेजों का अधि-
 कार हुआ। यहां यूनीवर्सिटी और हाई कोर्ट हैं। जहाजी तिजारत
 अच्छी होती है। कांजीवरम में पुराने समय के बहुत मंदिर हैं।
 नीलोर—उत्तरी पीनार पर है यहां के बैल और कालीन अच्छे होते हैं।
 गंतूर में हीरे की खान है मछलीपट्टम में सन् १६०६ ई० में
 अंग्रेज आकर बसे थे। यहां की छींट अच्छी होती है। वेजावा
 दह रेल का जंक्शन है। एलोर कोलिर भील के पास टरी के वास्ते
 मशहूर है। राजमहेन्द्री में गोदावरी पर दो मील लम्बा रेल का
 पुल है। वजीगापट्टम पहाड़ी जिला है, यहां सींग के संदूकचे
 अच्छे बनते हैं। हाथीदांत, चन्दन की लकड़ी और चांदी का काम
 भी अच्छा बनता है। गंजाम सबसे उत्तरी जिला है, इसमें छतरपुर
 फौजी मुकाम है। कलिंगापट्टम और गोपालपुर बन्दर हैं।
 विलारी में एक पहाड़ी पर किला बना है जहां सरकारी फौज
 रहता है। उत्तरी अरकाट पहले करनाटक के नव्वाबों का
 राजधाना था। दक्षिणी अरकाट में जंजी का पहाड़ी किला है।

तंजौर कावेरी के डेल्टा में बसा है। मडयौरा में बड़े बड़े मन्दिर पुराने समय के हैं। रामेश्वरम में महादेवजी का मन्दिर है, जहां हजारों यात्री जाते हैं। त्रिचनापली फौजी मुकाम है, इसीके पास श्रीरंगम में रंगजी का बहुत बड़ा मंदिर है। सलेम का सूतों व रेशमी कपड़ा अच्छा होता है। कालीकट मलावार का सदर मुकाम है। मंगलोर दक्षिणी किनारे का खास शहर है।

देसी रियासतें (१) ट्रावनकोर जिसकी राजधानी ट्रेड्डम है और ऐलपी और कोयलन बन्दर हैं (२) कोचीन ट्रावनकोर के उत्तर में है, इसकी राजधानी अरनाक्कुलम है (३) पड्डुकोटा।

इतिहास-सन् १६३६ ई० में फोर्ट सेण्ट जार्ज के वास्ते ज़मीन मोल ली गई और उसके चारों ओर आबादी की गई। सन् १७६३ ई० में चिंगलपट नवाब कर्नाटक से मिला। सन् १७६५ ई० में उत्तरी सरकार शाहआलमसे मिला सन् १७६२ ई० में मलावार सलेम और मडुरा मैसूर की दूसरी लड़ाई के बाद हाथ आये। इसी तरह और शहर धीरे २ हाथ आते गये। यहां तककि सन् १८०१ ई० में एक हाता बन गया और एक गवर्नर के सुपुर्द हुआ।

प्रश्न—[१] मदरास हाते की सीमा बताओ [२] दक्षिण में कौनसा अन्तरीप है, सिवाय इसके और कौनसा अन्तरीप है [३] लंका और हिन्दोस्तान के बीच कौनसी खाड़ी और सुदाने है [४] हिन्दोस्तान के पूर्वी और पश्चिमी किनारे किन किन नामों से पुकारे जाते हैं [५] ये जगह नक्शे में दिखलाओ—कोनम्बटूर, कन्नल, गजाम्, पन्नोर, मडुरा, नजीगापट्टम, नीगापट्टम, रामेश्वरम्

वेपुर [६] नीचे के क्या है और कहां है—कावेरी, वेपुर, गिदराय राजमहेन्द्री, एलोर कोलेरुन, चिंगलपट्ट, उटुकमंड कोलिर, मगलोर [७] अंग्रेजों के इलाखाने के मुकाम, हिन्दुओं के पवित्र स्थान पडाडी किले वताओ [८] मदराम हाते मे कौन कौनसी हिन्दोस्तानी रिगसते है, उनके खास शहर वताओ [९] मदराम हाते का नक्शा खींचो और यह नाम लिखो—एलोर, रामनर, तनावली, उत्तरी पीनार, रामेश्वरम कुमारी अन्तरीप, वेवेडम मरकरा अनामली [१०] इस हाते मे रेल के जंक्शन स्टेशन वताओ यह भी लिखो कि वहां कौन कौनसी रेलें जाकर चलती है (११) मदरस हाते के अन्दरों के नाम बताओ । इस हाते मे कौन कौनसी भाषाएं बोली जाती है (१२) इस हाते मे कौन कौनसी जगह ऐतिहासिक वृतान्त के लिये मशहूर है ।

ब्रह्मा (बरमा)

सीमा--उत्तर में चीन, पूर्व में श्याम, दक्षिण में का डमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी व पूर्वी बंगाल ।

भाग—यह मुल्क दो भागों में बंटा हुआ है यानी अपर बरमा और लोअर बरमा। बहुत दिनों से लोअर बरमा अंगरेजों के पया और एक चीफ कमिश्नर यहां हुकूमत करता था सन् १८८० ई० में अपर बरमा भी शामिल होगया और सन् १८८८ ई० वजाय चीफ कमिश्नर के एक लेफटेनेन्ट गवर्नर के मातहत हो जिनका सम्बन्ध गवर्नमेंट आफ इंडिया से है ।

आबादी—एक करोड़ पांच लाख के करीब है और ज २ १/२ लाख बर्मील के करीब है ।

आबहवा--गरम व. मरतूव है मगर समुद्र के किनारे श्री
आबहवा ज़रूर अच्छी है ।

पहाड़--अराकान, यूना, शान पीगू, यूमा व टनासिरम यूमा ।

नदियां ऐरावती, साल्विन और सितांग दक्षिण को बहकर
मर्तवान की खाड़ी में गिरती हैं ।

मजहव--अधिकतर बौद्ध धर्म फैला हुआ है ।

पैदावार--पानी खूब बरसता है इसलिये चावल खूब पैदा
होता है, लकड़ी भी अधिकता से मिलती है क्यों कि जंगल
बहुत है ।

आठ कमिश्नरी व ३६ ज़िले ।

(कमिश्नरी) (ज़िले)

अराकान	} लाओ नरम	अकयाव, सेडवी, अराकान, क्यूक, पीह ।
पीगू		रंगून, हान्तावादी, प्रोम, ठारावादी, पांगू ।
ऐरावेती		टोंगोवा, वर्सीन, हनजादह, येगपियापन ।
टनासिरम		टोंगो, साल्विन, थाटोन, अमहर्स्ट, टेवाय, मरगु ।
मंत्रू		थटमटगु, पकाको, मंत्रू मंगोई ।

मंडाले	} लाओ नरम	मंडाले, भामुमट, कयारकाथा, कानयाकृत ।
सीगेंग		शाओ, सीगेंग, चंडोन दक्षिणी, चंडोन उत्तरी ।
मेकटीला		वपुकसी, मेकटीला, यर्माथन, मंगयान ।

वैश्विक्यत ।

रंगून--पीगू में ऐरावती पर राजधानी और बन्दरगाह है । यह शहर बहुत अच्छी तरह से बसा है और विलकुल विलायती शहर मालूम होता है बौद्धमत की बहुत सी इमारतें यहां हैं । यहां से चावल, लकड़ी और मसाला बाहर का जाता है । वस्सीन ऐरावती के डेल्टा में बन्दर है । **प्रोम्**--ऐरावती के बांये किनारे पर पहले समय से राजधानी था । **टोंगो**-- फौजी मुकाम है । **मोलमिन**--सालवीन नदी के दहाने पर अच्छा बन्दर है, यहां से बाहर को लकड़ी बहुत जाती है । **टेवाय**--और **मरग्यू**--टनासिरम के किनारे पर छोटे बन्दर हैं ।

मंडाले--अपर बग्मा ऐरावती के किनारे पिछले महाराजा ब्रह्मा की राजधानी था । आवा और अमरापुर पहले समय में राजधानी रहे लेकिन अब उजड़े हुए हैं । अकयाव से चावल बाहर को जाता है । **व्यूक्यू**--रामरी द्वीप पर अच्छा बन्दर है ।

इतिहास--सन् १८२४ ई० में ब्रह्मा की पहिली लड़ाई के बाद अराकान और टनासिरम अंग्रेजों के कब्जे में आये । पीगू और ऐरावती का डेल्टा ब्रह्मा की दूसरी लड़ाई में । अपर ब्रह्मा

ब्रह्मा की तीसरी लड़ाई के बाद । सन् १८६७ ई० में यह कुल मुल्क एक अलग लेफ्टेनेन्ट गवर्नर के सिपुर्द होगया । *

प्रश्न—(१) ब्रह्मा को किन दो हिस्सों में बांटा है । हर एक हिस्से के जिले बयान करो (२) कौनसा हिस्सा ब्रह्मा का पहले से अंगरजों के पास था । फिर दूसरा हिस्सा कब और कैसे उसमें शामिल (३) ब्रह्मा की नदी और पहाड़ बयान करो । यह नदियां कहां जाकर गिरती है [४] लोअर बर्मा किन तीन हिस्सों में बंटा है । बीच के हिस्से को क्या कहते है (५) आजकल ब्रह्मा की राजधानी क्या है, इसके पहले कौन-से शहर राजधानी गद्दुके है (६) नीचे के नामों को नक्शे में दिखलाओ, टंवाय, मंडाले, नीगरंस, अक्याव, सालविन अराकान गुमा एडमान मरत्तमान (७) नीचे के स्थान किस किस कभिग्नी में है, इनजादह थारागदी, दक्षिणी चडोन मेकटीला सेंडवी काथा थेटम्यू (८) लोअर बर्मा के पश्चिमी किनारे पर कौन द्वीप समूह है ब्रह्मा का दक्षिणी हिस्सा किस उमरुमध्य पर जाकर खतम होता है ।

दूसरे हिस्से ।

कुर्ग—यह पहाड़ी जिला रियासत मैसूर व मलावार के बीच में बसा है और मैसूर के रेजिडेंट की निगरानी में है । यहां कहवा और छोटी इलायची बहुत पैदा होती है । मरकरा सबर मुकाम है । एडमान व नीकोवार द्वीप समूह बंगाले की खाड़ी में हैं । पोर्ट ब्लेयर मद्र मुकाम है जहां हिन्दोस्तान के जन्मभियादी कैदी भेजे जाते हैं सन् १८७२ ई० में जेअलीखां कर्दी ने लार्ड

* नोट—बृटिश बर्मा में गियासत गान जिनमें एडम भी कहते हैं शामिल है । इसमें बहुत सी छोटी गियासतें हैं, जो पहले स्वतंत्र थीं लेकिन अब

मिंटो गवर्नर जनरल हिन्द को गोलियों से मार दिया था। नीकोवार में केला और नारियल बहुत होता है यह द्वीप एक चीफ कमिश्नर की निगरानीमें है। लंका या सरनद्वीप यह द्वीप हिन्दोस्तान के दक्षिण व पूर्व में है। सन् १८१५ई० में यह अंग्रेजों के हाथ लगा। हिन्दोस्तान से मनार की खाड़ी और पाक के मुहाने इसको अलग करते हैं। लंका और हिन्दोस्तान के बीच दो द्वीप हैं, हिन्दोस्तान की तरफ वाले को रामेश्वरम कहते हैं और लंका की तरफ वाले को मनार कहते हैं। इन दोनों द्वीपों के बीच एक पहाड़ी है जिसको आदम का पुल कहते हैं, जिसको रामचन्द्रजी ने लंका पर चढ़ाई करने के समय बनवाया था। पीडरोतला गला और आदम की पहाड़ी मध्य में ऊंची चोटियां हैं।

महाबली गंगा--उत्तर व पूर्व को बहकर त्रिकोमाली के पास समुद्र में मिली है। कोलम्बोपश्चिमी किनारे पर राजधानी है। कांडी मध्य में पुरानी राजधानी है। गाली दक्षिण में बन्दर है। मोती और जवाहरात द्वीप में पाये जाते हैं।

खिराज देनेवाले राज्य ।


(१) कश्मीर--बहुत शोभायमान देश पंजाब के उत्तर में है। कश्मीर खास, छोट्टा तिब्बत, लद्दाख और जम्बू उसके खास हिस्से हैं। जिनफल का ध्यान यदि न किया जाय तो यह दूसरे दरजे का राज्य

है, लेकिन पहाड़ी होने के कारण आबादी बहुत कम है। श्रीनगर भेलम पर राजधानी है, यहां के शालदुशाले मशहूर हैं। आवहवा बहुत उम्दा है। जम्बू महाराजा साहव के रहने की जगह है। लियां लदाख में खास शहर है। इस्कारडो में दुशालों की दस्तकारी अच्छी होती है। गलगट सरहदी मुकाम है।

(२) निज़ाम हैदराबाद--यह सबसे बड़ी मुसलमानी रियासत मध्यदेश के दक्षिण में है। वहां के हुकूमत करने वाले निज़ाम कहलाते हैं। राजधानी हैदराबाद कृष्णा की एक सहायक नदीपर बसा है। सिकंदराबाद और बलारम में अंग्रेज़ फौज रहती है। सिकन्दराबाद रेजीडेंट के रहने की जगह है। औरंगाबाद और दौलताबाद पुरानी राजधानी थीं। वारंगल, बिदर और गुलवर्गा ऐतिहासिक जगह हैं। असाई में अंगरेज़ों और मरहटों में लड़ाई हुई थी।

(३) मैसूर--मदरास हाते से घिरा हुआ है और एक हिन्दू राजा की हुकूमत में है। मैसूर में शृंगापट्टम का मशहूर क़िला है। बंगलोर में सरकारी फौज रहती है। मैसूर राजधानी है और महाराजा साहव के रहने की जगह है। कोलार में गौने की खान है।

(४) चाड़ौदा--यानी रियासत गायकवाड़ बहुत उपजाऊ



राजपूताना

और हराभरा हिस्सा गुजरात में है . दक्षिणी किनारे पर सोमनाथ महादेव का मन्दिर है, जिसको महमूद गज़नवी ने लूटा था. द्वारका हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है । यह रियासत आजकल बहुत उन्नति कर रही है ।

(५) राजपूताना—इस एजेंसी में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की बड़ी रियासतें और अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा सिरोही, किशनगढ़, डूंगरपुर, भरतपुर, परतापगढ़, टोंक, वांमवाडा और करौली की छोटी २ रियासतें शामिल हैं । हर एक इनमें से एक एक पोलिटिकल एजेंट की निगरानी में है और ये सब एजेंट गवर्नर जनरल के आधीन हैं, जो आवृ पहाड़ पर रहते हैं . जोधपुर सबसे बड़ी रियासत है. यहां संगमरमर की खान है । जयपुर निहायत आवाद और सुगनुया रियासत है इसमें रामनिवास वाग, अजायब घर और आमेर का किला देखने योग्य इमारतें हैं . रनथंभोर का पुराना किला इसी राज्य में है । रियासत उदयपुर में चित्तौर का किला मशहूर है . भरतपुर का किला बहुत मजबूत है । इसी रियासत में डीग में भवन अच्छे बने हैं . करौली की कली अच्छी होती है . आवृपहाड़ पर जैनियों का मशहूर मन्दिर है, इसमें संगमरमर पर नकाशी का काम अच्छा बना है .

(६) सेंट्रल इंडिया एजेंसी—इस एजेंसी में ७१ गियान्त

है और सब एक एजेंट गवर्नर जनरल के आधीन है, जो इन्दौर में रहते हैं। बड़ी रियासतों में ग्वालियर या सेंधिया का मुल्क उत्तर में, रीवां और बुंदेलखंड पूर्व में, भूपाल और होल्कर की रियासत इंदौर दक्षिण में है। छोटे राज्यों में दतिया, औरछा चरखारी, समथर, पन्ना और विजावर इत्यादि हैं। ग्वालियर बड़ी रियासत है, किला एक पहाड़ी पर बना है। इसी राज्य में उज्जैन पुराने समय में मशहूर और आवाद शहर था। भिलसा बेतवा के किनारे पर तमाखू की खेती के वास्ते मशहूर है। मऊ में छावनी है। पन्ना में हीरे की खान है। भूपाल में वेगम साहवा का राज है, यहां बहुत बड़ा ताल है। सीहोर में पोलिटि कल एजेंट रहते हैं। औरछा का राजा बुंदेलों का सरदार गिना जाता है। नीमच में छावनी है, यह रियासत ग्वालियर में है। रीवां राज्य के आमारवा स्थान में कोयले की खान हैं। धार एक छोटीसी रियासत है।

(७) बम्बई हाते की रियासतें—जूनागढ़, कच्छ, काठियावाड़, कोल्हापुर, खैरपुर, सावन्तवाड़ी और भावनगर इत्यादि हैं। जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ पर जैनियों के मन्दिर हैं। भावनगर रुई की मंडी है।

(८) मद्रास हाते के राज्य—द्रावनकोर, कोचीन, पदर कोटा। द्रावनकोर की राजधानी ट्रेवेंडूर समुद्र के किनारे है। ट्रेजर कोचीन की राजधानी है।

(६) बंगाल हाते के राज्य--कूचबिहार व शिकम। शिकम में तिमलांग मशहूर शहर है। मनीपुर आसाम में देसी रियासत है।

(१०) संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध के राज्य--रामपुर रूहेलखंड में, गढ़वाल कमायूं में हैं।

(११) पंजाब हाते के राज्य--पंजाब में ३४ देसीराज्य हैं।

जिनमें से पटियाला, नाभा, झीद, फरीदकोट, बहावलपुर, कपूरथला, चम्पा, मंडी और सिरमौर मशहूर हैं। बहावलपुर मुसलमानी रियासत है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है।

(१२) मध्यदेश का राज्य--वस्तर है।

स्वतंत्र राज्य ।

हिन्दोस्तान में स्वतंत्र राज्य दो हैं। एक नैपाल जो हिमालय पहाड की तरहटी में बसा हुआ है और काली नदी उसकी पश्चिमी सीमा है। कोसी, गंडक और घाघरा यहां के पहाडों से निकलकर दक्षिण को बहती हैं। पानी बहुत बरसता है। साल और गीशम के पेड़ नीची जगहों में पाये जाते हैं। काठमांडू राजधानी है। गोरखा और ललतापट्टम मशहूर शहर हैं। दुमरा भूटान जिसकी राजधानी पेनाखा है। तासीलोदन भी अच्छी जगह है, यह पहले भूटान की राजधानी थी।

यूरोप की दूसरी जातियों के राज्य ।

(१) पुर्तगीजों—के आर्धान गोवा, डामन और ड्य

वम्बई हाते में हिन्दोस्तान के पश्चिमी किनारे पर हैं। हाकिम गोवा में रहता है।

(२) फरासीसियों--के पास चन्द्रनगर ज़िला हुगलीमें, पांडिचेरी ज़िला अरकाट में, कारीकल ज़िला लंजौर में; मनाव जिला गोदावरी में और माही जिला मालावार में हैं इन सब का गवर्नर पांडिचेरी में रहता है।

प्रश्न—[१] कुर्ग और पंडमान में खास शहर कौन से हैं. हिन्दोस्तान के जन्ममियादी कैदी कहां भेजे जाते हैं, नीकोवार में कौनसी चीज ज्यादा मिलती है. [२] इन्हीं नामों को नक्षत्रों में दिखलाओ—कांडी, लिया, गलगट, कोलार, रनधम्भौर, मऊ भृपाल, तिमलांग मारदा और मंडी [३] हैदराबाद की सीमा बताओ, -आसाई कहां पर है, एलिचपुर और गावलगट कहा है, चम्पल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताओ, आठ पहाड़ कौनसी रियासत में है, धौलपुर, कोटा और टोंक कौनसी नदी पर है [४] नीचे लिखी हुई जगहें किस लिये मशहूर हैं—उज्जैन, पन्ना, रीवां, इन्फारटो. उदयपुर, जयपुर बंगलोर, सोमनाथ और द्वारका [५] लंका कब अंगरेजों के हाथ आया, इसकी राजधानी क्या है, आरम के पुल के सम्बन्ध में क्या जानते हो. यह पुल किन दो द्वीपों के बीच में है. लंका हिन्दोस्तान से कैसे अलग है यानी इस के बीच में क्या है।

आवश्यक बातें ।

(१) समुद्र के किनारे के मशहूर शहर—चटगांव, कलकत्ता, पुरी या जगन्नाथ, चकाकोल, वज़ीगापट्टम, ममलीपट्टम, नीलोर, मदरास, पांडिचेरी, कारीकल, नीगापट्टम, नूर्त्ताकोरन पूर्वी किनारे पर, और त्रवेन्द्रम, कोचीन, कार्लाकट मंगलोर, रनना,

गिरी, वम्बई, मूरत, भडौंच, खम्भात, पोरवंदर, करांची पश्चिमी किनारे पर हैं।

(२) अगरेजों के हवाखाने के स्थान—शिलांग, डार जिलंग, हजारीबाग, नैनीताल, शिमला, मंसूरी, लधौरा, मरी, आबू, महावलेश्वर, पचमही, उटकमंड।

(३) हिन्दुओं के तीर्थ स्थान—कांगड़ा या नगरकोट, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषीकेश, नीमसार, पुश्कर, चित्रकोट, मथुरा, वृन्दावन, सारों, राजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, विहूर, प्रयाग या इलाहाबाद, काशी या बनारस, अयोध्या, जगन्नाथ, नासिक, द्वारिका और रामेश्वरम्।

(४) मुसलमानों की पाक जगहें—(१) अजमेर में ख्वाजा गरीबनिवाज़ की दरगाह (२) मकनपुर में शाहमदार।

(३) बहराइच में शाह मसऊद गाज़ी।

(५) जैनियों के पवित्र स्थान—(१) छोटा नागपुर में गारसनाथ (२) आबू पहाड़ का मन्दिर राजपूताना में (३) गिरनार गुजरात में हैं।

(६) कपड़े की कलों के कारखाने—कलकत्ता, मदराम वम्बई, भडौंच, अहमदाबाद, इन्दौर, नागपुर, जब्बलपुर, कानपुर आगरा, दिल्ली।

(७) देसी कपड़े बुनने के स्थान—लुधियाना, श्यावर

(८) यूनीवर्सिटी के स्थान—कलकत्ता, लाहौर, वम्बई, मदराम, इलाहाबाद।

(६) रेलवे के मशहूर लोहे के पुल—(१) गंगापर-
वनारस, इलाहाबाद, कानपुर में दो, राजघाट, कचलाघाट,
गङ्गमुक्तेश्वर (२) जमुना पर—इलाहाबाद, काल्पी, आगरा, मथुरा
दिल्ली, जगाधरी (३) घाघरा पर—बहरामघाट, तरतीपुर । और
छपरा के पास एक पुल है (४) गोमतीपर—लखनऊ, गुलतानपुर
जौनपुर (५) सोनपर देहरी और कोइलवर ।

(१०) रेलवे के मशहूर जंकशन स्टेशन—मांकामा,
वांकीपुर गया, मुगलसराय, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, टुंडला
गाजीआबाद, दिल्ली, भटिंडा, फीरोज़पुर रेवाड़ी फुलेरा, अजमेर,
वांड़ीकुई, भांसी, कटनी, जव्वलपुर, खंडवा, भुसावल, मनमाद,
इयारसी, धोंद, मंगलोर, जलारपट, एरुद और उत्तर में लखनऊ,
फैजाबाद, बाराबंकी, लुधियाना, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस,
कासगंज, बरेली, गोंडा और भटनी ।

(११) हिन्दोस्तान में बाहर से आने वाली चीजें—
मूती और ऊनी कपड़े, धातु व धातु की चीजें, तेल, शक्कर, रेशम
तथा रेशमी कपड़े, कायला, रंग, शीशा व शीशे का असबाब ।

(१२) हिन्दोस्तान से बाहर जाने वाली चीजें—
रुई, ऊन, चावल, जूट, चाय, अफीम, बीज, चमड़ा, तेल,
कहवा, लाख, गेहूँ, रेशम, मागौन ।

(१३) सन् १९०१ ई० की आबादी का मुक़ाविला—

दस लाख=कलकत्ता, चार लाख=बम्बई, मद्रास, हैदरा
बाद दक्षिण, दो लाख=लखनऊ, बनारस, दिल्ली, लाहौर,
डेह लाख=कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर,

जयपुर, मंगलोर, पूना, एक लाख:पटना, वरेली, नागपुर, शीनगर, सूरत, मेरठ, करांची, मडुरा, त्रिचनापली, बड़ौदा ।

(१४) मशहूर होने के कारण—हिन्दोस्तान में इन कारणों से किसी शहर की प्रसिद्धि होती है (१) वे शहर जो राजधानी रहे हों (२) वे जो तीर्थस्थान हों या किसी धर्म में पवित्र समझे गये हों (३) वे जो किसी नदी पर बसे हों जिसके कारण व्यापार के केन्द्र हों (४) समुद्र के किनारे हों, और उनमें उम्दा बन्दरगाह हों ।

प्रश्न ।

(१) हिन्दोस्तान की सीमा बताओ. इसकी क्या शकल है, इसके विस्तार के सम्बन्ध में क्या जानते हो ।

(२) बताओ (अ) हिन्दोस्तान का दक्षिणी अन्तरीप (ब) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी (ज) हिमालय पहाड़ की मशहूर चोटियां ।

(३) मदरास हाते और संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध में हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान बताओ ।

(४) किसी आदमी को नीचे लिखे अनुसार सफर करने के लिये किन किन रेलों में सवार होना पड़ेगा—

(१) कलकत्ते से बम्बई को (२) बम्बई से मद्रान को (३) कलकत्ते से वरेली को (४) देहली से पेशावर को ।

(५) हिन्दोस्तान के सुल्की विभाग किस प्रकार किये गये हैं, हर एक भाग की राजधानी बताओ ।

(६) बताओ लंका के दक्षिण में बन्दर, मदरास हाते की मद्रुनगुमारी, कच्छ सिंग. भूटान और मालवे की राजधानी, गोदावरी के दहाने पर बन्दर. कृष्णा पर दो शहर. हिन्दोस्तान में मीठे पानी की भील, बम्बई हाते में दुम्बर सुन्नक बाने की अमलदारी, राजपूताने की खास खास पैदावार, सिंध और महानदी के दहाने के शहर ।

(७) हिन्दोस्तान की पांच बड़ी नदी और दस बड़े शहर लिखो ।

(८) बयान करो (१) गंगा की शाखें (२) वे स्थान जहां अफ्रीम और चाय होती है (३) मदरास हाते के वे जिले जो समुद्र से हटे हुए हैं (४) हैदराबाद में दो फौजी सुकाम । (५) जिले गोदावरी में फारासीसियों का शहर [६] मदरास हाते में दो पहाडियां, जहां कहवा पैदा होता है [७] सबसे घना आनाद शहर [८] छोटा नागपुर के जिले [९] इन नामों के सम्बन्ध में एक एक बात-टाका, पलासी, दार्जिलिंग, रानीगंज, गया, गोहाटी, बरेली, अम्बाला, आब और अमृतसर ।

[९] प्रायः देखने में आया होगा कि दक्षिण के आदमी काले होते हैं। यद्यपि वहां पहाड़ भी हैं नदी भी हैं और दोनो ओर समुद्र भी है, फिर इसका क्या कारण है। उस हिस्से को क्या कहते हैं जो पश्चिमी घाट और पश्चिमी किनारे के बीच में है।

[१०] बताओ [१] लंका की राजधानी [२] पहाड़ और पहाड़ी में अन्तर [३] सबसे दक्षिणी देसी रियामत [४] नखलिस्तान और रेगिस्तान में अन्तर [५] भील की किस्में [६] पूर्वी किनारे के अलग अलग नाम (७) लंका और हिन्दोस्तान के बीच का सुहाना (८) अरब सागर के द्वीप (९) विन्ध्याचल और सतपुड़ा की चोटियां (१०) राजपूताने का पहाड़ (११) नर्मदा और ताप्ती के बीच का वाटरशेड (१२) जमुनाकी सहायक नदी (१३) गोदावरी और कृष्णा के दहानों के बीच की भील (१४) आमाम और ब्रह्मा के पहाड़ (१५) वह दर्रा जिसमें होकर क्वैटा को रेल जाती है (१६) अरबसागर में गिरने वाली नदी (१७) गंगा के किनारे के शहर (१८) गोदावरी की सहायक नदी [१९] पश्चिमी किनारे के बन्दरगाह [२०] हिमालय पहाड़ की भीलें [२१] सुगलमगव और देहली के बीच के जंरुगन स्टेशन [२२] भागलपुर कमिश्नरी के जिले [२३] बंगाल में अंगरेजों के हवाखाने के स्थान [२४] टसरी कपड़े और मलमल बनाने की जगहें [२५] गंगा और गंडक के संगम पर शहर ।

इतिश्री

हिन्दी-व्याकरण ।

(वर्तमान अङ्गरेजी-व्याकरण के ढँग पर)

जिसे

बाबू गङ्गाप्रसाद एम. ए.

थर्ड मास्टर जिला स्कूल बिजनौर

ने बनाया ।

Indian Press Series

HINDI-VYAKARANA

OR

En/ HINDI GRAMMATICAL PRIMER

(On the lines of Modern English Grammar)

BY

GANGA PRASAD, M.A.,

3rd Master, District School, Bijnor

Allahabad

THE INDIAN PRESS


1914

Printed and Published by Apurva Krishna Bose, at the
Indian Press, Allahabad

This little book is intended to be used in our Vernacular and Anglo-Vernacular schools. It differs, however, in several respects from the text-books on the subject at present in use

My object in writing this book has been to deal with the subject, as far as possible, from the English point of view and to establish a sort of relation between English and Hindi Grammars. The writers of existing Grammars have one and all treated the subject from the Sanskrit point of view and have introduced so many Sanskrit elements that it has been almost impossible for the student to understand it thoroughly. Besides, Sanskrit terms named after suffixes, &c, not used in Hindi language (*i.e.*, *taratamya* तारतम्य), sound not only awkward, but at the same time meaningless to an intelligent reader. The styles of writers of English and Hindi Grammars have moreover, been so different that neither of these can afford any help to the student in the study of the other.

In the present work I have attempted to bring harmony between English and Hindi Grammars.



हिन्दी-व्याकरण

पाठ १

अपने विचारों को दूसरों से प्रकट करने की दो ही विधि हैं एक बोलना और दूसरी लिखना। जब हमको प्यास लगती है तब हम मुख द्वारा दूसरों से कहते हैं कि हमको प्यास लगी है, पानी दे दो यह है बोलना। जब हम घर से बाहर किसी शहर में हों और घर की खबर न मिली हो तब पत्र द्वारा घर से कुशल मँगाते हैं यह है लिखना। बोल कर या लिख कर विचार प्रकट करने को भाषा या बोली कहते हैं।

भाषा शब्दों से मिल कर बनती है।

शब्द दो प्रकार के होते हैं एक निरर्थक (Inarticulate) जैसे कुत्ते का भोंकना, घोड़े का हिनहिनाना। दूसरे सार्थक (Articulate) जैसे राम, घोड़ा आदि। सार्थक शब्दों का व्यवहार मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं; इसलिए व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का वर्णन होता है।

शब्द अक्षरों से मिल कर बनते हैं।

दो या अधिक शब्दों को यदि इस प्रकार जोड़ दिया जाय कि पूरा पूरा आशय समझ में आ जाय तो इसको वाक्य (Sentence) कहते हैं।

व्याकरण उस विद्या का नाम है जिससे किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना पढ़ना आजाय ।

हिन्दी-व्याकरण से हिन्दी भाषा का ठीक ठीक बोलना और लिखना आता है ।

हिन्दी-व्याकरण के चार विभाग हो सकते हैं । एक वर्णविभाग (Orthography) जिसमें अक्षरों के आकार और उच्चारण आदि का वर्णन है ।

दूसरा शब्दविभाग (Etymology) जिसमें शब्दों (Words) के भेद, रूप आदि का वर्णन है ।

तीसरा वाक्यविभाग (Syntax) जिसमें वाक्यों के बनाने का विधान है ।

चौथा काव्यविभाग (Prosody) जिसमें दोहा, चौपाई आदि छन्द बनाने की रीतियों का वर्णन है ।

इस पुस्तक में विशेष कर केवल वर्णविभाग, शब्दविभाग और वाक्यविभाग का वर्णन होगा । साधारण विद्यार्थियों के लिए काव्यविभाग की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसका भी अन्त में थोड़ा सा विधान कर दिया गया है ।

प्रश्न

१ भाषा किसे कहते हैं ? २ शब्द कौन प्रकार के होते हैं ? ३ व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार होता है ? ४ यान्य किम् कहते हैं ? ५ व्याकरण किसे कहते हैं ? ६ हिन्दी-व्याकरण के कितने विभाग हैं और उनमें किम् किम् का वर्णन है ?

वर्णविभाग (ORTHOGRAPHY)

वर्णविभाग (Orthography) में अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनसे नियमानुसार शब्द बनाने का वर्णन है।

वर्ण या अक्षर (Letter) उस छोटी से छोटी आवाज़ को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें। जैसे अ, इ, क, इत्यादि।

लिखने की भाषा में अक्षर उन सङ्केतों को कहते हैं जो बुद्धिमानों ने उपयुक्त वर्णों के लिए नियत कर लिये हैं।

वर्णों के समुदाय को वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं। हिन्दी भाषा की वर्णमाला में ५३ मुख्य अक्षर हैं। इनके दो भेद हैं। स्वर (Vowel) और व्यञ्जन (Consonants)। स्वर (Vowel) वह अक्षर है जिसका उच्चारण बिना अन्य अक्षर की सहायता के हो सके जैसे अ, आ, इ, ऊ। व्यञ्जन (Consonants) उन अक्षरों का नाम है जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, जैसे क्, ख्, इत्यादि।

स्वर १३ हैं।

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ऋ ।*

इनके दो भेद हैं।

(१) ह्रस्व (Short) जिनके उच्चारण में सबसे कम काल लगता है। ये चार हैं अ, इ, उ, ऋ।

*हिन्दी भाषा में 'ऋ' वर्ण केवल ऋषि, ऋतु, ऋग्य आदि संस्कृत शब्दों में आता है। अन्य स्थलों पर इसका प्रयोग नहीं होता।

† संस्कृत-व्याकरण के शास्त्रियों ने तीन भेद किये हैं। तीसरा भेद प्लुत है जिसका प्रयोग हिन्दी-भाषा में नहीं मिलता; इस लिए यह छोड़ दिया गया।

(२) दीर्घ (Long) जिनके उच्चारण में ह्रस्वों की अपेक्षा दुगुना समय लगे। ये सात हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, औ औ।

अ (अनुस्वार) और अः (विसर्ग) ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के पश्चात् बोले जाते हैं, ये अकेले प्रयोग में नहीं आते। जैसे—कं, कां गः, गाः।

स्वर जब व्यञ्जनों से मिलते हैं तब उनका रूप पलट जाता है। इनको हिन्दी में मात्रा कहते हैं।

प्रत्येक स्वर के नीचे उसकी मात्रा लिखी जाती है।

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ औ औ अ अः ऋ
 ऌ ऩ ण ॠ ॡ ॢ ॣ ;

‘अ’ की कोई मात्रा नहीं है जिस व्यञ्जन में कोई मात्रा न हो उसमें ‘अ’ की मात्रा समझनी चाहिए जैसे क, ख। जब व्यञ्जनों को बिना स्वर के दिखलाना हो तो उसके नीचे का चिह्न लगा देते हैं जैसे क्, ज् इत्यादि।

‘इ’ की मात्रा व्यञ्जन के पहले लगाते हैं जैसे कि

आ, ई, औ, औ, अः की मात्राएँ ,, पीछे ,, , का, की, को, कौ, कः

उ, ऊः ऋ ,, ,, ,, नीचे ,, ,, कु, कू, ऊ

ए, ऐ, अं ,, ,, ,, ऊपर ,, ,, के, कौ, कं

* मुख्य व्यञ्जन ४० हैं।

* इनके अतिरिक्त तीन और व्यञ्जन वर्णमाला में गिने जाते हैं च, च्, च्च परन्तु च, क् और प् से; च, त् और र् से; ज, ज् और ञ् से मिल कर बनता है। ज का उच्चारण कोई गकार के साथ और कोई ङकार के साथ करते हैं परन्तु ङकार के साथ अधिक शुद्ध है।

^*क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ इनको कवर्ग कहते हैं
 च छ ज ज़ झ ञ ,, चवर्ग ,,
 ट ठ ड ढ ढ ङ ण ,, टवर्ग ,,
 त थ द ध न ,, तवर्ग ,,
 प फ फ़ ब भ म ,, पवर्ग ,,

यह सब मिल
 कर स्पर्श कह-
 लाते हैं ।

य र ल व अन्तःस्थ (Semi-vowels) कहलाते हैं ।

श ष स ह ऊष्म (Sibilants) कहलाते हैं ।

जब दो या अधिक व्यञ्जनों के बीच में कोई स्वर न हो और उनको साथ लिखना हो तो उन्हें जोड़ देते हैं इस मेल को संयोग कहते हैं जैसे क्य, त्य, क़, क़्य, च्छ, स्थ्य इत्यादि ।

संयोग के नियम ये हैं—

(१) पाई वाले अक्षरों की पाई उड़ जाती है जैसे प्य, ल इत्यादि ।

(२) विना पाई के अक्षरों को एक दूसरे के ऊपर तले लिखते हैं जैसे क़, इ ।

(३) यदि विना पाई के अक्षर को पाई वाले से पहले जोड़ना हो तो विना पाईवाले अक्षर को अधकटा लिखते हैं जैसे थ, झ, लु ।

* हिन्दी वर्णमाला मसूदा वर्णमाला में ली गई है । इसलिए इनमें क़, ख़, ग़, ज़, ड़, ङ़ नहीं थे । परन्तु अब हिन्दी भाषा में पाना अर्थात् आदि भाषाओं के शब्द मिल जाने से उपर्युक्त वर्णों का प्रयोग अन्याय्य है । इसलिए यह सात वर्ण मिल कर अब ५३ वर्ण मानने चाहिए ।

स्थान । मुख के जिस भाग से जो अक्षर बो ला जाता है उसे उस अक्षर का स्थान कहते हैं । प्रत्येक अक्षर के स्थान नीचे लिखे जाते हैं ।

स्थान	अक्षर
कण्ठ से	अ आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग बोले जाते हैं
कण्ठ और जिह्वामूल से	ऋ ॠ ऌ ॡ ढ ढ़ र ष "
तालु "	इ ई च छ ज ञ झ ञ य श "
मूर्च्छा "	ऋ ट ठ ड ङ ढ ढ़ र ष "
दन्त "	त थ द ध न ल स "
घोष्ठ "	उ ऊ प फ व भ म "
कण्ठ और तालु "	ए ऐ "
कण्ठ " घोष्ठ "	ओ औ "
दन्त " घोष्ठ "	व, फ़ "
नासिका "	ङ ञ ण न म "
नासिका "	अनुस्वार "

(४) र यदि किसी अन्य व्यञ्जन के पहले आवे तो उग्नका चिह्न दूसरे अक्षर के सिर पर हो जाना है जैसे रं, यदि पीछे आवे तो (५) नीचे लिखते हैं जैसे र्र, प्र, म्र ।

प्रश्न

१ वर्ण किसे कहते हैं ? २ वर्णमाला किसे कहते हैं ? ३ हिन्दीभाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं ? ४ स्वर किनको कहते हैं ? ५ व्यञ्जन किनको कहते हैं ? ६ दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं ? ७ इ, ऊ, ए, औ, ऋ, आ इनमें कौन दीर्घ और कौन ह्रस्व है ? ८ मात्रा किसे कहते हैं ? ९ ओ, ई इ ऋ की मात्राएँ लिखो ? १० ज, ट, न, ल, फ, न, स में सब स्वरों की मात्राएँ जोड़ कर दिखाओ ? ११ ऊष्म कौन कौन से हैं ? १२ कवर्ग और पवर्ग के कौन कौन से अक्षर हैं ? १३ स्थान किसे कहते हैं ? १४ नीचे लिखे अक्षरों के स्थान बताओ । अ स श ल फ ट ड र च य क ज व म त श्रौ ज ह घ न ध ढ । १५ नीचे लिखे अक्षरों को संयुक्त करो थ् य, त् र, र् क, श् ल् य, स् थ् य, ढ् घ् म् प, य् ल् व ।

पाठ ३

शब्दविभाग (ETYMOLOGY)

शब्दविभाग व्याकरण के उस भाग का नाम है जिसमें शब्दों के भेद, रूप, उनके बनाने की विधि तथा उनके प्रयोग में लाने के नियमों का वर्णन है ।

एक वन में सहस्रों वृक्ष होते हैं जिनका गिनना या याद रखना बड़ा ही कठिन काम है परन्तु यदि उनकी कोटियाँ बना ली जायँ और प्रत्येक कोटि में कुछ वृक्ष रख लिये जायँ तो उनका स्मरण सहज हो जाता है जैसे सौ वृक्ष आम के, दो सौ गूलर के, पाँच सौ नीम के, पचास पीपल के । इसी प्रकार भाषा शब्दों का वन है । इसमें हजारों शब्द हैं । अगर इन शब्दों को हम याद रखना या गिनना चाहें तो हमको चाहिए कि वृक्षों के समान इन शब्दों की भी कोटियाँ बना लें ।

इस तरह शब्द आठ* कोटियों में विभाजित हो सकते हैं अर्थात् शब्द आठ प्रकार के हैं।

संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण, सम्बन्धवाचक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। ✓

(१) संज्ञा शब्द (Nouns)

पुस्तक, फूल, लड़का, गोविन्द, सुख, चाँदी।

ऊपर लिखे शब्द किन्हीं वस्तुओं के नाम हैं। जिस वस्तु को हम पढ़ते हैं उसका नाम हमने पुस्तक रख लिया है। जिसको सूँघते हैं उसे फूल कहते हैं। इसी प्रकार लड़का, चाँदी आदिको समझना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को संज्ञा (Nouns) कहते हैं।

संज्ञा (Nouns) किसी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम को कहते हैं। जैसे ; थाली, दिल्ली, कृष्ण, दुःख।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में जो संज्ञा शब्द हों उनको बताओ। राम घर को जाता है। लड़के खेलते हैं। घोड़े दौड़ते हैं। ग्राम गिरता है। गोविन्द कुर्सी पर बैठा। पुस्तक लाओ। सूरज निकला। सोने की श्रृंगूठी लाओ। वह ज्वर में पड़ा है। पाठशाला जाओ और गुरुजी को प्रणाम करो। दो मनुष्यों में युद्ध हुआ।

*संस्कृत भाषा में शब्दों के केवल तीन ही भेद हैं—संज्ञा, क्रिया, अव्यय। संज्ञा में विशेषण और सर्वनाम भी आ जाते हैं और अव्यय में क्रियाविशेषण, सम्बन्धवाचक, समुच्चयबोधक, और विस्मयादिबोधक अव्यय आ जाते हैं, परन्तु अंगरेजी-पाठशालाओं के चित्पार्थियों के समझाने के लिए हिन्दी-भाषा के शब्दों के दो भेद करने अधिक उपयोगी होंगे।

(२) विशेषण (Adjectives)

काला घोड़ा, अच्छा लड़का, बुरी किताब, चमकीला खिलौना । जब हम कहते हैं कि 'वह काला घोड़ा है' तो 'काला' शब्द से हम घोड़े के एक गुण को बताते हैं । इसी प्रकार 'अच्छा' लड़के के 'बुरी' किताब के और 'चमकीला' खिलौने के गुणों को बताता है । ऐसे शब्द विशेषण (Adjectives) कहलाते हैं ।

विशेषण (Adjectives) उनको कहते हैं जो किसी संज्ञा-शब्द या सर्वनाम के साथ मिल कर उन शब्दों के वाच्य वस्तुओं के गुणों को प्रकाशित करते हैं जैसे काला घोड़ा ।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण बताओ ।

- १ मोहन के पास एक बड़ा चाकू है ।
- २ हरी घास पर मत चलो ।
- ३ लाल स्याही से लिखो ।
- ४ गंगा बड़ी नदी है ।
- ५ वह बुरा लड़का है ।
- ६ मैं चमकीला शीशा लूँगा ।
- ७ मीठी नारंगी ला दो ।
- ८ ठंडा पानी कहा है ।
- ९ वह गर्म रोटी खाता है ।
- १० दो छोटी बिलियाँ चार बड़े बड़े चूहे को पकड़ ले गईं ।

(३) सर्वनाम (Pronouns)

राम घर में है उस को बुलाओ । मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है । कृष्ण ने अपने लड़के को मारा ।

उपर्युक्त वाक्यों में शब्द 'उस' राम के लिए, शब्द 'अपनी' मोहन के लिए, शब्द 'अपने' कृष्ण के लिए आया है । यदि हम रुहेँ कि 'राम घर में है राम को बुलाओ, 'मोहन मोहन की पुस्तक पढ़ रहा है, 'कृष्ण ने कृष्ण के लड़के को मारा,' तो बहुत प्रशुद्ध मालूम होगा । इसलिए राम, मोहन, और कृष्ण को केवल एक बार चढ़ कर

पश्चात् उनके स्थान पर उस, अपने, आदि शब्द रख देते हैं इन शब्दों को व्याकरण में सर्वनाम (Pronouns) कहते हैं।

सर्वनाम (Pronouns) वह शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम बताओ:—

राम कल घर को गया वहाँ जाकर उसने अपनी माता से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। उसने कहा कि हे बेटा, तुम्हारे पिताजी बाज़ार से नारंगी लाते होंगे, उनको खाकर अपनी भूख शांत कर लेना।

(४) क्रिया (Verb)

श्याम खाना खाता है। सीता अयोध्या में आई। तुम कहां जाते हो।

ऊपर लिखे वाक्यों में 'खाता है' 'आई' 'जाते हो' शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। ऐसे शब्दों को क्रिया (Verb) कहते हैं।

क्रिया (Verb) वह है जिससे किसी काम का होना या करना ज्ञात हो।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाएँ बताओ:—

मैं कल घर को जाऊँगा। लड़कियाँ खेलती हैं। कृत्ता धार्ली को घाटता है। वृद्ध वायु में हिलते हैं। इनका मत मागे। राम ने लट्टा पर घड़ई की। ताल में कमल खिल रहा है।

(५) क्रियाविशेषण (Adverbs)

लड़का शीघ्र दौड़ता है। घोड़ा शनैः शनैः चलता है। राम

झट भूमि पर गिर पड़ा।

ऊपर के वाक्यों में 'शीघ्र' दौड़ने का प्रकार, 'शनैः शनैः' चलने का प्रकार, और 'झट' गिर पड़ने का काल बताता है। ऐसे शब्दों को क्रियाविशेषण (Adverbs) कहते हैं।

क्रियाविशेषण (Adverbs) वह शब्द हैं जिनसे क्रिया में किसी प्रकार की विशेषता पाई जाय।

प्रश्न

नीचे के वाक्यों में क्रियाविशेषण बताओ:—

लड़का अच्छा पढ़ता है। वह खराब लिखता है। तुम वहाँ क्यों गये थे ? हम सहज बातें करते हैं ! ज्यों ज्यों तुम बड़े होगे त्यों त्यों तुम्हारी बुद्धि अष्ट होगी। कभी कभी यहाँ भी आया करो। परस्पर मित्रता में रहना चाहिए।

(६) सम्बन्धवाचक अव्यय (Postpositions)

“पुस्तक मेज़ के नीचे पड़ी है उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता”।

यहाँ 'नीचे' शब्द से पुस्तक का मेज़ के साथ सम्बन्ध और 'बिना' शब्द से 'उसके' का अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध जान होता है। ऐसे शब्द सम्बन्धवाचक अव्यय (Postpositions) कहलाते हैं।

सम्बन्धवाचक अव्यय (Postpositions) वह है जो हिन्दी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताता है।

प्रश्न

नीचे के वाक्यों में सम्बन्धवाचक शब्द बताओ :—

मेरा घर कुएँ के पास है। कबूतर छत के ऊपर बैठा है। मन्दिर के भीतर वह कौन चारपाई पर सोता है। तुम्हारे बिना इस कार्य को कौन कर सकता है।

(७) समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunctions)

राम और लक्ष्मण अयोध्या से चले। मैं आया और उसने मुझे पत्र दिया। यह बकरी है या भेड़।

उपर्युक्त वाक्यों में 'और' और 'या' शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं इसलिए इनको समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunctions) कहते हैं।

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunctions)

जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में समुच्चयबोधक

तुम गये परन्तु मैं आया। लड़कियाँ तुम वहाँ जाओ तो उनसे मेरा नमस्ते; तुमसे स्नेह रखता हूँ। उसने कहा कि

(८) विस्मयादिवोध

ओहो तुम आगये। बाप में तो मर गया।

ऊपर के वाक्यों में 'ओ हो,' 'बाप रे बाप,' 'हाय हाय,' शब्द हर्ष, क्रोध आदि भावों के द्योतक हैं। इनका नाम विस्मयादिवोधक शब्द है।

विस्मयादिवोधक अव्यय (Interjections) वह शब्द हैं जिन के सुनने से हमें कहने वाले के हर्ष, शोक आदि अंतःकरण के भावों का ज्ञान होता है।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में विस्मयादिवोधक शब्द बताओ:—

वाह वाह मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। छी छी तुम तो बड़े बुरे आदमी हो। ओ हो आपको इतना घमड़ है। धिक् धिक् ऐसे लडकों के पाम भी न बैठना चाहिए।

नीचे लिखे वाक्यों में कौन कौन शब्द किस किस प्रकार का है। मुझे यहाँ आये दो मास व्यतीत हुए। लोग कहते हैं कि शहर में रोग फैला हुआ है। बड़े आदमी गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर निवास करते हैं। भारतवर्ष प्राचीन काल में अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध था। हाय तुम तो कुछ भी नहीं समझते। कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ। जो जैसा करेगा वह वैसा पायेगा। ओ हो आप यहाँ थे। वाह कैसा सुगन्धित वायु है।

पाठ ४

संज्ञा (Noun-)

संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, स्थान, मनुष्य, भाव या गुण का नाम हो। जैसे वृक्ष, लाहौर, देवदत्त, सुख, भलाई।

—:—:—

हाथी, बालक, ऊँट, कुत्ता, ऊल।

उपर्युक्त शब्द किसी एक ही वस्तु के लिए नहीं आते किन्तु उस प्रकार की सब वस्तुओं को प्रकृत करते हैं। दम सब हाथियों

को 'हाथी' शब्द से पुकार सकते हैं। 'बालक' शब्द प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग में आता है। 'कुत्ता' इस जाति की हर एक व्यक्ति का नाम है। इन शब्दों को जातिवाचक कहते हैं।

जातिवाचक संज्ञा (Common Nouns) वह शब्द हैं जिनके अर्थ से जातिमात्र का बोध हो।

—:०:—

राम, कृष्ण, सोमदत्त, सीता, मुम्बई।

उपर्युक्त शब्दों से एक मनुष्य, या एक शहर से अधिक का बोध नहीं हो सकता। राम एक पुरुष विशेष का नाम है। मुम्बई नगर विशेष का। सब नगरों को मुम्बई नहीं कह सकते। सब पुरुषों को राम या सोमदत्त नहीं कह सकते। ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक कहलाते हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द (Proper Nouns) वे हैं जिनसे केवल एक व्यक्ति का बोध हो।

—०—

लड़कपन, गर्मी, बुढ़ापा, सजावट।

ऊपर के शब्द न तो किसी व्यक्तिविशेष का बोध कराते हैं और न किसी जाति का। वे तो केवल उन गुणों का बोध कराते हैं जो किसी व्यक्ति या जाति में पाये जायँ, या किसी काम का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक कहलाते हैं।

***भाववाचक संज्ञा (Abstract Nouns)** वह शब्द हैं

* इन तीन के अतिरिक्त अंग्रेजी में दो और भी भेद हैं।

(१) समुदायवाचक (Collective Nouns) जो किसी समुदाय को बताते हैं जैसे, कुण्ड, भीड़।

(२) द्रव्यवाचक (Material Nouns) जो किसी द्रव्य को बताते हैं जैसे, सोना, चाँदी, दूध।

परन्तु हिन्दी-भाषा में ये दोनों जातिवाचक ही कहलाते हैं।

तसे किसी के धर्म, स्वभाव या गुण या किसी काम का बोध हो।
भाववाचक शब्द तीन प्रकार के शब्दों से बनते हैं।

- | | |
|------------------------|---|
| (१) जातिवाचक शब्दों से | जैसे लड़का से लड़कपन
मनुष्य से मनुष्यत्व |
| (२) गुणवाचक शब्दों से | जैसे मीठा से मिठास
गर्म से गर्मी |
| (३) क्रिया से | जैसे सजाना से सजावट
कूदना से कूद
लड़ना से लड़ाई |

प्रश्न

नीचे लिखे शब्द किस प्रकार के हैं ?

लोटा, आगरा, शीतल, भूसा, वाग, आम, गन्ना, खेल, सूर्य, लकड़ी, दूध,

मिठास, बुढ़ापा, मिलाई, ईंट, चौकी, सडक, माता, छत, घास, मोमढेव,
नारंगी, गन्ना, श्रीकृष्ण ।

पाठ ५

लिङ्ग (Gender)

संज्ञाशब्दों के रूप तीन बातों की अपेक्षा से बदल सकते हैं
अर्थात् लिङ्ग, वचन और कारक की अपेक्षा से। यहाँ हम हर एक
का क्रमशः वर्णन करेंगे।

—:०:—

मनुष्य

स्त्री

राम

सीता

घोड़ा

घोड़ी

उपर्युक्त शब्दों में 'मनुष्य,' 'राम' और 'घोड़ा' पुरुष या नर के
वाचक हैं और स्त्री, सीता, घोड़ी स्त्रीजाति का बोध कराते हैं।

संज्ञा के जिस रूप से यह बात ज्ञात हो कि अमुक शब्द का बोधक है या पुरुषजाति का, उसको लिङ्ग (Gender) कहते हैं।

हिन्दी भाषा में दो लिङ्ग हैं। स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग।

(अ) प्राणिवाचक शब्दों का लिङ्ग जानना कुछ कठिन न जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बैल पुल्लिङ्ग हैं और लड़की, घे कुतिया, गाय जो स्त्रीजाति के बोधक हैं स्त्रीलिङ्ग हैं।

(आ) अप्राणिवाचक शब्दों के लिङ्ग जानने में कठिनता होती उसकी रीतियाँ नीचे लिखी जाती हैं।

नीचे लिखे शब्द बहुधा पुल्लिङ्ग होते हैं:—

- (१) जिनके अन्त में आ हो जैसे घड़ा, जाड़ा, लोटा, कुर्ता।
- (२) जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आव, पन, पा, त्व चढ़ाव, लड़कपन, बुढ़ापा, मनुष्यत्व।
- (३) सब पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय, नीलगिरि।
- (४) महीनों और दिनों के नाम, जैसे चैत्र, श्रावण, रविवार, शुक्र।
- (५) ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चन्द्र।
- (६) वर्णमाला के इ, ई, ऊ को छोड़ कर सब अक्षर।

नीचे लिखे शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं:—

- (१) जिनके अन्त में 'ई' हो जैसे रोटी, टोपी, कुर्सी। परन्तु कुछ शब्द पुल्लिङ्ग भी होते हैं जैसे घी, दही, मोती, पानी, जी।
- (२) संस्कृत के आकारान्त शब्द जो भाषा में बोले जाते जैसे माला, लता।
- (३) सब नदियों के नाम जैसे गङ्गा, गोमती, नर्मदा।

(४) भाववाचक शब्द जिनके अन्त में, आई, ता, न्त, ति, श, न, हट हो; जैसे चिकनाई, मित्रता, गढ़न्त, गति, कोशिश, सूजन, ावट, घबराहट ।

(५) वर्णमाला के अक्षर इ, ई, ऋ ।

(६) किसी भाषा का नाम, जैसे अर्बी, संस्कृत, अँगरेज़ी, इत्यादि ।

(७) अर्बी भाषा के शब्द जिनके अन्त में 'त' या 'ईर' हो जैसे सरत, गफलत, तकदीर, परन्तु शर्वत, हज़रत पुलिङ्ग होते हैं ।

अँगरेज़ी के शब्द जो भाषा में बोले जाते हैं स्त्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग दोनों होते हैं । इनका कोई नियम नहीं जैसे कोट, बटन, आफिस लिङ्ग हैं और वोनल, चिमिनी, डेस्क आदि स्त्रीलिङ्ग हैं ।

अब पुलिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने की कुछ रीतियाँ लिखी जाती हैं ।

(१) शब्दों का विलकुल पलट जाना । जैसे—

पुरुष	स्त्री
राजा	रानी
नर	मादा
भाई	बहिन
बैल	गाय
पिता	माता
पुत्र	कन्या

(२) आकारान्त शब्दों के आ को ई, इया, या अ से बदल देते हैं । जैसे—

लड़का	लड़की	मुर्गा	मुर्गी
चक्रवा	चक्रवी	घोड़ा	घोड़ी
वरछा	वरछी	बछेड़ा	बछेड़ी
बेटा	बेटी	कुत्ता	कुतिया

^ एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम नीचे लिखे जाते हैं* ।

(१) स्त्रीलिङ्ग अकारान्त शब्दों के अ का एँ हो जाता है जैसे भँस भँसेँ, रात रातेँ, गाय गायेँ । पुलिङ्ग अकारान्त शब्द वैसेही रहते हैं जैसे बालक आया, बालक आये ।

(२) स्त्रीलिङ्ग अकारान्त शब्दों के अन्त में एं या येँ लगा देते हैं जैसे लठिया लठियायेँ, माला मालायेँ ।

पुलिङ्ग अकारान्त शब्दों के आ को ए हो जाता है जैसे घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते ।

(३) स्त्रीलिङ्ग इकारान्त शब्दों में याँ जोड़ देते हैं जैसे पाँति पाँतियाँ, गति गतियाँ ।

पुलिङ्ग इकारान्त शब्द प्रायः वैसे ही रहते हैं । जैसे मुनि बोला और मुनि बोले ।

(४) स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त शब्दों के ई को इ करके या जोड़ देते हैं जैसे लड़की, लड़कियाँ, थाली, थालियाँ ।

पुलिङ्ग शब्द दोनों वचनों में एक से रहते हैं ।

(५) स्त्रीलिङ्ग उकारान्त शब्दों के अन्त में एँ या येँ लगा देते हैं जैसे वस्तु वस्तुएँ ।

पुलिङ्ग शब्दों में रूपभेद नहीं होता ।

(६) स्त्रीलिङ्ग ऊकारान्त शब्दों के ऊ को उ करके एं या ऐँ लगा देते हैं जैसे वह, बहुएँ या बहुयेँ, भाइ, भाइएँ या भाइयेँ । परन्तु पुलिङ्ग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं ।

*ये नियम केवल विभक्तिरहित शब्दों के बहुवचन बनाने के हैं । विभक्तियों में बहुत सी नञीनियाँ हो जाती हैं जोकि विभक्तियों के साथ वर्णन की जायेंगी ।

(७) एकारान्त और ओकारान्त शब्दों के आगे प्रायः ओं लगाते हैं ।

जो अँगरेज़ी शब्द भाषा में बोले जाते हैं उनके बहुवचन भाषा के उन शब्दों के सदृश बनते हैं जो उनसे अधिक समानता रखते हैं जैसे कम्पनी, कम्पनियाँ, लम्प, लम्पे ।

प्रश्न

(१) वचन किसे कहते हैं । (२) ईकारान्त शब्दों के बहुवचन कैसे बनते हैं । (३) ऊकारान्त शब्दों के बहुवचन बनाने की रीति लिखो । (४) निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाओ । कित्ताव, कागज़, पल, कलम, दवात, चाकू, निव, कुर्सी, जूता, लाठी, तकिया, धोती, बफील, दरी, छाता, बेंच, ईंट, खाट, लालटेन, बास, बालक, बालटी, गाड़ी, बटिया ।

१।

पाठ ६

कारक (Case)

राम ने रावण को लड्डू में मारा ।

ऊपर लिखे वाक्य को पढ़ो और बताओ कि संज्ञा शब्द कौन कौन हैं ? राम, रावण और लड्डू । इनका क्रिया के साथ क्या सम्बन्ध है ? राम मारने के काम का करनेवाला है । रावण पर मारने का फल पड़ता है । लड्डू वह स्थान है जहाँ वह काम किया गया ।

जिससे संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है उसे कारक (Case) कहते हैं ।

हिन्दी भाषा में आठ कारक होते हैं । कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, सम्बोधन ।

की घड़ी' में 'लक्ष्मण' भेदक और 'घड़ी' भेद्य है। सम्बन्ध के चिह्न भेद्य की अपेक्षा से आते हैं। भेद्य स्त्रीलिङ्ग हो तो 'की' और भेद्य एकवचन पुल्लिङ्ग हो तो 'का' और बहुवचन पुल्लिङ्ग हो तो 'के' आता है। जैसे—'राम का घोड़ा' 'राम के घोड़े' और 'राम की घड़ी'।

अधिकरण (Locative) उस स्थान को बताता है जहाँ क्रिया की जाय। उसके चिह्न 'में', 'पर', 'पास' हैं। जैसे 'कुएँ में' 'कुएँ पर' 'कुएँ के पास'।

सम्बोधन (Vocative case) वह कारक है जिससे किसी का पुकारना पाया जाय। उसके चिह्न हे, अरे, रे, हैं। जैसे 'हे राम', 'हे गोविन्द', 'अरे भाई'।

नामवाचक शब्दों के लिङ्ग, वचन और कारक के अनुसार जो जो रूप होते हैं वह आगे लिखे जाते हैं।

अकारान्त पुल्लिङ्ग मनुष्य शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	मनुष्य, मनुष्य ने	मनुष्य, मनुष्यों ने
कर्म	मनुष्य को	मनुष्यों को
करण	मनुष्य से	मनुष्यों से
सम्प्रदान	मनुष्य को, के लिए	मनुष्यों को, के लिए
अपाठान	मनुष्य से	मनुष्यों से
सम्बन्ध	मनुष्य का, के, की	मनुष्यों का, के, की
अधिकरण	मनुष्य में, पै, पर	मनुष्यों में, पै, पर
सम्बोधन	हे मनुष्य	हे मनुष्यों

अकारान्त स्त्रीलिङ्ग गाय शब्द।

कर्त्ता	गाय, गाय ने	गायें, गायों ने
कर्म	गाय को	गायों को

करण	गाय से	गायों से
सम्प्रदान	गाय को, के लिए	गायों को, के लिए
अपादान	गाय से	गायों से
सम्बन्ध	गाय का, के, की	गायों का, के, की
अधिकरण	गाय पर, पै, में	गायों पर, पै, में
सम्बोधन	हे गाय	हे गायो

अकारान्त पुंलिङ्ग कुत्ता शब्द ।

कर्त्ता	कुत्ता, कुत्ते ने	कुत्ते, कुत्तों ने
कर्म	कुत्ते को	कुत्तो को
करण	कुत्ते से	कुत्तो से
सम्प्रदान	कुत्ते को, के लिए	कुत्तो को, के लिए
अपादान	कुत्ते से	कुत्तो से
सम्बन्ध	कुत्ते का, के, की	कुत्तों का, के, की
अधिकरण	कुत्तो पर, पै, में	कुत्तों पर, पै, में
सम्बोधन	हे कुत्ते	हे कुत्तो

अकारान्त पुंलिङ्ग चाचा शब्द ।

कर्त्ता	चाचा, चाचा ने	चाचा, चाचों ने, चाचाओं ने
कर्म	चाचा को	चाचा को, चाचाओं को
करण	चाचा से	चाचों से, चाचाओं से
सम्प्रदान	चाचा को, के लिए	{चाचों को, के लिए {चाचाओं को, के लिए
अपादान	चाचा से	चाचों से, चाचाओं से
सम्बन्ध	चाचा का, के, की	{चाचों का, के, की {चाचाओं का, के, की

अधिकरण	चाचा पर, पै, में	चाचों पर, पै, में चाचाओं पर, पै, में
सम्बोधन	हे चाचा	हं चाचा, हे चाचाओ

मैया दादा इत्यादि रिश्तेदारी के नामों के रूप चाचा शब्द के समान बनते हैं ।

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग माला शब्द ।

कर्त्ता	माला, माला ने	माला, मालों ने, मालाओं ने
कर्म	माला को	मालों को, मालाओं को
करण	माला से	मालों से, मालाओं से
सम्प्रदान	माला को, के लिए	मालों को, के लिए; मालाओं को, के लिए
अपादान	माला से	मालों से, मालाओं से
सम्बन्ध	माला का, के, की	मालों का, के, की; मालाओं का, के, की
अधिकरण	माला में, पर, पै	मालों में, पर, पै, मालाओं में, पर, पै
सम्बोधन	हे माला, हे माले	हे मालो, हं मालाओ

इकारान्त पुल्लिङ्ग मुनि शब्द ।

कर्त्ता	मुनि, मुनि ने	मुनि, मुनियों ने
कर्म	मुनि को	मुनियों को
करण	मुनि से	मुनियों से
सम्प्रदान	मुनि को, के लिए	मुनियों को, के लिए
अपादान	मुनि से	मुनियों से
सम्बन्ध	मुनि का, के, की	मुनियों का, के, की
अधिकरण	मुनि में, पर, पै	मुनियों में, पर, पै
सम्बोधन	हे मुनि	हे मुनि, हे मुनियां

इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप पुल्लिङ्ग के समान होते हैं ।

ईकारान्त पुल्लिङ्ग माली शब्द ।

कर्त्ता	माली, माली ने	माली, मालियों ने
कर्म	माली को	मालियों को
करण	माली से	मालियों से
सम्प्रदान	माली को, के, लिए	मालियों को, के लिए
अपादान	माली से,	मालियों से
सम्बन्ध	माली का, के, की	मालियों का, के, की
अधिकरण	माली में, पर, पै	मालियों में, पर, पै
सम्बोधन	हे माली	हे माली, हे मालियो

ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप भी 'माली' शब्द के समान होते हैं ।

उकारान्त पुल्लिङ्ग गुरु शब्द ।

कर्त्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु, गुरुओं ने
कर्म	गुरु को	गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को, के लिए	गुरुओं को, के लिए
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का, के, की	गुरुओं का, के, की
अधिकरण	गुरु पर, पै, में	गुरुओं पर, पै, में
सम्बोधन	हे गुरु,	हे गुरु, हे गुरुओं

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग के रूप भी पुल्लिङ्ग के समान होते हैं ।

उकारान्त पुल्लिङ्ग डाकू शब्द ।

कर्त्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकूओं ने
कर्म	डाकू को	डाकूओं को

करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को, के लिए	डाकुओं को, के, लिए
अपादान	डाकू से	डाकुओं से
सम्बन्ध	डाकू का, के की	डाकुओं का, के की
अधिकरण	डाकू पर, पै, में	डाकुओं पर, पै, में
सम्बोधन	हे डाकू	हे डाकू, हे डाकुओ

उकारान्त खील्लिङ्ग शब्दों के रूप भी पुंलिङ्ग के समान होते हैं ।

एकारान्त पुंलिङ्ग दुवे शब्द ।

कर्त्ता	दुवे, दुवे ने	दुवे, दुवेओं ने
कर्म	दुवे को	दुवेओं को
करण	दुवे से	दुवेओं से
सम्प्रदान	दुवे को, के लिए	दुवेओं को, के लिए
अपादान	दुवे से	दुवेओं से
सम्बन्ध	दुवे का, के, की	दुवेओं का, के, की
अधिकरण	दुवे पर, पै, में	दुवेओं पर, पै, में
सम्बोधन	हे दुवे	हे दुवेओं

एकारान्त खील्लिङ्ग शब्दों के रूप भी 'दुवे' के समान होते हैं ।

ओकारान्त पुंलिङ्ग ऊधो शब्द ।

कर्त्ता	ऊधो, ऊधो ने	ऊधो, ऊधों ने
कर्म	ऊधो को	ऊधों को
करण	ऊधो से	ऊधों से
सम्प्रदान	ऊधो को, के लिए	ऊधों को, के लिए
अपादान	ऊधो से	ऊधों से
सम्बन्ध	ऊधो का, के, की	ऊधों का, के, की

अधिकरण ऊधो पर, पै, में ऊधों पर, पै, में
 सम्बोधन हे ऊधो हे ऊधो
 ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप भी 'ऊधो' के समान बनते हैं ।

प्रश्न

१ कारक किसे कहते हैं ? २ भाषा में कितने कारक हैं ? ३ सत्र कारकों की परिभाषा चिह्नों सहित लिखो । ४ निम्नलिखित वाक्यों में सज्ञा शब्दों के कारक बतलाओ ।

राम कल कलकत्ते गया था, वहाँ से वह तीन अनार लाया और अपने लड़कों को दिये । पाठशाला में जो लड़के पढ़ते हैं उनसे कह दो कि तुम शोर न मचाया करो । देवदत्त का पुत्र चाकू से कलम बनाता था । इन वृत्तों पर बहुत से फल लगे हैं, इनको लकड़ी से तोड़ कर बालकों को दे दो । बेच पर बैठ कर पाठ याद करो ।

१ ५-नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो:—

चार माली से मैं फूलों लाया । गायों आ रही है । इन पुस्तकों का क्या नाम है । खेतों पर जाकर अन्न ले आओ । चार मकाने से आठ मनुष्यों आये ।

६-नीचे के शब्दों के रूप लिखो ।

खाट, फूल, स्त्री, पति, चवृतरा, भादों, पांडे, बहू, शीशी, राहु ।

पाठ ७

शब्दनिरुक्ति (Parsing)

किसी शब्द के प्रकार लिङ्ग, वचन, कारक, काल आदि अङ्गों को पृथक् पृथक् बतलाने को शब्दनिरुक्ति (Parsing) कहते हैं ।

संज्ञा-शब्दों की शब्दनिरुक्ति में लिङ्ग, वचन, कारक और उनका वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध बतलाना होता है । जैसे 'सोमदेव ने भूमित्र को एक आम दिया' में—

सोमदेव, व्यक्तिवाचक, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'दिया' क्रिया का कर्त्ता है।

भूमित्र को व्यक्तिवाचक, पुंलिङ्ग, एकवचन, सम्प्रदानकारक, सकर्मक क्रिया 'दिया' का सम्प्रदान है।

आम जातिवाचक, पुंलिङ्ग, एकवचन, कर्मकारक, सकर्मक क्रिया 'दिया' का कर्म है।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाशब्दों की शब्दनिरुक्ति लिखो :—

राम की किताब आलमारी में है। दोनों लड़के खाट पर सो रहे हैं। दस ईंटे इस चबूतरे के ऊपर पड़ी हैं। सिपाहियों ने तलवार से शत्रु का गिर काट लिया। जब आठमी कुण्ड से निकला तो उसके कपड़े उतार लिये गये। रामायण को वाल्मीकि ने बनाया है।

पाठ ८

विशेषण * (Adjective)

विशेषण (Adjective) वह शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से मिल कर उनके वाच्यों के गुणों का बोध कराते हैं।

* विशेषण दो प्रकार से प्रयोग में आते हैं प्रथम विशेषण द्वारा (Attributively) जैसे 'अच्छा लटका'। ऐसी दशा में विशेषण विशेष्य के पहले रखा जाता है।

द्वितीय क्रिया द्वारा (Predicatively) जिसमें विशेषण क्रिया की मदायना से विशेष्य के गुण बताते हैं। जैसे 'यह लटका अच्छा है,' ऐसी दशा में विशेषण विशेष्य के पश्चात् आते हैं और विशेष्य का एक भाग होते हैं।

उनको विशेषण इसलिए कहते हैं कि वे संज्ञा या सर्वनाम के अर्थों में कुछ विशेषता प्रकट करते हैं जैसे 'काला घोड़ा' ।

जिसके वह गुण बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं । ऊपर के उदाहरण में काला विशेषण और घोड़ा विशेष्य है ।

हिन्दी में विशेषण के रूपों में लिङ्ग और वचन के कारण विकार हो जाता है परन्तु कारक के कारण नहीं होता । जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घोड़ी काली घोड़ियाँ । परन्तु 'काले घोड़ों का,' और 'काले घोड़े से' । इनके नियम नीचे लिखे जाते हैं—

(१) आकारान्त और उकारान्त शब्दों में कुछ भेद नहीं होता । जैसे दुष्ट पुरुष, दुष्ट स्त्री, दुष्ट स्त्रियाँ, भीरु लड़का, भीरु लड़की या भीरु लड़कियाँ ।

(२) आकारान्त शब्दों के आ को खोलिङ्ग के दोनों वचनों में ई और पुंलिङ्ग कर्त्ता के एकवचन को छोड़ शेष में ए हो जाता है । जैसे काला लड़का, काले लड़के, काले लड़के को, काले लड़कों से, काले लड़कों में, काली लड़की, काली लड़कियाँ ।

विशेषण के बनाने की रीति—

संज्ञा के अन्त में वान, ई, मान, भर, भरा, रूपी, रहित, हीन, पूर्वक, युक्त, सम्यन्धी, री, वाला, हारा, या सा जोड़ देते हैं । जैसे धनवान, धनी, मतिमान, गिलासभर, विषभरा, सिंहरूपी, गुणरहित, गुणहीन, विधिपूर्वक, विषयुक्त, धनसम्यन्धी, सुनहरी, गाड़ी-वाला, लकड़िहारा, सूय्य सा इत्यादि ।

विशेषण चार प्रकार के होते हैं ।

गुणबोधक (Adjectives of Quality) विशेषण से यह ज्ञात होता है कि प्रमुख वस्तु किस प्रकार की है जैसे चतुर मनुष्य ।

(२) परिमाणबोधक (Adjectives of Quantity) जो यह बताते हैं कि अमुक वस्तु का क्या परिमाण है। जैसे थोड़ा भोजन।

(३) संख्याबोधक (Adjectives of Number) जिससे गिनती का बोध हो। जैसे चार मनुष्य।

(४) संकेतबोधक (Demonstrative Adjectives) जो किसी वस्तु का संकेत करें। जैसे वह पुस्तक यह क़लम।

विशेषणातोलन (Degree of Comparison)

बहुत से गुणबोधक और कुछ परिमाण और संख्याबोधक शब्दों की तीन अवस्थाएँ होती हैं (१) स्वरूप अवस्था (Positive Degree) जैसे अच्छा लड़का, (२) आधिक्यबोधक अवस्था (Comparative Degree) जिसमें दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है। जैसे राम से अच्छा, कृष्ण से बुरा। कभी कभी स्वरूप अवस्था के पहले 'अधिक' या 'न्यून' लगा देते हैं। जैसे 'बढ़ मोहन से अधिक चतुर है,' (३) आतिशय्य बोधक अवस्था (Superlative Degree) जिसमें बहुत से वस्तुओं में तुलना होनी है जैसे 'सबसे अच्छा'। इस प्रकार के शब्द 'सब से' लगा देने से बनते हैं।

संस्कृत में आधिक्यबोधक अवस्था में 'तर' और आतिशय्य बोधक अवस्था में 'तम' लगा देते हैं। जैसे प्रियतर, प्रियतम।

विशेषण के अर्थों में न्यूनता प्रकट करने के लिए 'मा' या 'मी' या 'कुछ' या 'धोड़ासा' लगा देने हैं। जैसे काला सा, धोड़ा सा काला, कुछ काला।

विशेषण के अर्थों में आधिक्य दिखलाने के लिए 'अति,' 'अत्यन्त,' 'अधिक,' 'बहुत,' 'बहुत ही,' लगा देते हैं जैसे 'अति-

भारी,' अत्यन्त,' कठिन,' अधिक लाभदायक,' बहुत बड़ा,' बहुत ही छोटा'

संख्याबोधक (Adjectives of Number) विशेषण तीन

प्रकार के होते हैं।

(१) निश्चयबोधक (Definite) जैसे चार पुरुष, चौथा मनुष्य। इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है।

(२) अनिश्चय-बोधक (Indefinite) जैसे कुछ आदमी, सब आम, थोड़े से घोड़े। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है।

(३) प्रत्येक-बोधक (Distributive) जिस से प्रत्येक वस्तु का बोध हो। जैसे हर एक मनुष्य जायगा। प्रत्येक विद्यार्थी को गरितोपिक दिया जायगा।

कुछ विशेषण संज्ञा की भाँति भी प्रयोग में आते हैं और तब उनके रूप संज्ञा शब्दों के समान बनते हैं। जैसे बुड्ढों का कहा मानो। बुरों से बचा।

विशेषणों की शब्दनिवृत्ति करने में उनके प्रकार और विशेष्य देने चाहिएँ।

प्रश्न

१ विशेषण किसे कहते हैं ? २ विशेषण कितने प्रकार के हैं ?
३ संख्याबोधक विशेषणों के प्रकार उदाहरणसहित लिखो। ४ विशेषणों के प्रयोग में लाने की विधि लिखो। ५ नीचे के वाक्यों में विशेषणों की शब्द-निवृत्ति लिखो।

बुरे आदमी का कोई मनुष्य मान नहीं करता। नयी ज्ञान करने से कभी उरना न चाहिए। याउ बुरे आदमियों ने बुरे ज्ञानों को लूट लिया और यहाँ के बुरे आदमियों को मारा।

सर्वनाम (Pronouns)

जो शब्द संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उनको सर्वनाम (Pronouns) कहते हैं। जैसे 'यदि देवदत्त परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो उसे पारितोषिक मिलेगा' यहाँ उसे सर्वनाम है।

सर्वनाम शब्दों के लिङ्ग और वचन संज्ञा के लिङ्ग, वचन के समान होने चाहिए। कारक में आशय के अनुसार भेद हो जाता है।

सर्वनाम पाँच प्रकार के होते हैं (१) पुरुषवाचक (Personal), (२) निश्चयवाचक (Demonstrative), (३) अनिश्चयवाचक (Indefinite), (४) सम्बन्धवाचक (Relative), (५) प्रश्नवाचक (Interrogative)।

पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)

पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जिससे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का ज्ञान हो।

पुरुष तीन हैं, उत्तम पुरुष (First Person), मध्यम पुरुष (Second Person), और अन्य पुरुष (Third Person)।

बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे मैं, हम।

मध्यम पुरुष उस पुरुष का वाचक है जिससे बात की जाय। जैसे तू, तुम, आप।

अन्य पुरुष उस पुरुष का वाचक है जिसके सम्बन्ध में बोलते हैं। जैसे वह, वे।

उत्तम पुरुष 'मैं'* के रूप ।

कर्त्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मुझे, मुझको, मेरे लिए, अपने लिए	हमें, हमको, हमारे लिए, अपने लिए
अपादान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने	हमारा, हमारे, हमारी, अपना, अपनी, अपने
अधिकरण	मुझमें, मुझ पर	हममें, हम पर

मध्यम पुरुष 'तू' शब्द के रूप

कर्त्ता	तू, तूने, तैने	तुम, तुमने
कर्म	तुझे, तुझको	तुम्हें, तुमको
करण	तुझसे	तुमसे
सम्प्रदान	तुझे, तुझको, तेरे लिए, अपने लिए	तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, अपने लिए
अपादान	तुझसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे अपना, नी, ने	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, नी, ने
अधिकरण	तुझमें, तुझ पर	तुम में, तुम पर

प्रायः 'तू' नहीं बोला जाता । 'तू' के स्थान पर 'तुम' शब्द बहुवचन का एकवचन के लिए बोलते हैं । आदर के लिए 'तुम' के स्थान पर 'आप' बोलते हैं जिसके रूप नीचे लिखे हैं ।

कर्त्ता	आप आपने
कर्म	आपको
करण	आपसे
सम्प्रदान	आपको, के लिए
अपादान	आपसे
सम्बन्ध	आपका, के, की
अधिकरण	आप पर, आप में

अन्य पुरुष 'वह' शब्द के रूप ।

कर्त्ता	वह, उसने	वे, उनने, उन्होंने
कर्म	उसे, उसको	उन्हें, उनको, उन्हीं को
करण	उससे	उनसे, उन्हो से
सम्प्रदान	उसको, उसे, उसके लिए, अपने लिए	} उनको, उन्हो को, उनके लिए, उन्हो के लिए, अपने लिए }
अपादान	उससे	
सम्बन्ध	उसका, के, की अपना, ने, नी	} उनका, के, की, उन्हींका, के, की, अपना, ने, नी }
अधिकरण	उसमें, पर, पै	

ऊपर लिखे शब्दों के बहुवचन के पीछे 'लोग' लगाकर भी बोलते हैं । जैसे तुम लोग, आप लोग, हम लोग, वे लोग आदि ।

निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronouns)

निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronouns)

वह हैं जो किसी वस्तु का निश्चय कराते हैं जैसे ये, वे, यह, वह, एक, दूसरा, दोनों ।

‘यह’ और ‘ये’ निकटवर्ती वस्तु के लिए आते हैं ।

‘वह’ और ‘वे’ दूरवर्ती वस्तु के लिए आते हैं

‘वह’ के रूप पुरुषवाचक ‘वह’ के सदृश होते हैं

‘एक’ के रूप अकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा के समान और ‘दूसरा’ के अकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा के समान होते हैं । ‘एक’ और ‘दूसरा’ केवल एकवचन में आते हैं ।

‘दोनों’ के रूप बहुवचन ‘आकारान्त’ संज्ञा के तुल्य होते हैं और यह बहुवचन में आता है ।

‘यह’ के रूप नीचे लिखे जाते हैं ।

कर्ता	यह, इसने	ये, इनने, इन्होंने
कर्म	यह, इसको, इसे	ये, इनको, इन्हों को, इन्हें
करण	इससे	इनसे, इन्हों से

सम्प्रदान	इसको	{ इनको, के लिए इन्हों को, के लिए
प्रपादान	इससे	
सम्बन्ध	इसका, के, की	इनका, के, की
प्रतिस्तरण	इसमें, पर	इनमें, पर

अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronouns)

अनिश्चयवाचक (Indefinite Pronouns) वह शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ये तीन हैं 'सब' 'कुछ' और 'कोई'। 'कुछ' शब्द के रूप सदा एक से रहते हैं।

'सब' * के रूप ।

कर्त्ता	सब, सबने, सभों ने
कर्म	सबको, सभों को
करण	सबसे, सभों से
सम्प्रदान	सबको, सभों को, सबके लिए, सभों के लिए
अपादान	सबसे, सभों से
सम्बन्ध	सब का, के, की, सभों का, के, की
अधिकरण	सब पर, पै, में, सभों पर, पै, में

'कोई' शब्द के रूप ।

कर्त्ता	कोई, किसी ने	कोई, किन्हीं ने
कर्म	किसी को	किन्हीं को
करण	किसी से	किन्हीं से
सम्प्रदान	किसी को, के लिए	किन्हीं को, के लिए
अपादान	किसी से	किन्हीं से
सम्बन्ध	किसी का, के, की	किन्हीं का, के, की
अधिकरण	किसी पर, पै, में	किन्हीं पर, पै, में

* 'सब' का एकवचन नहीं होता ।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns)

सम्बन्धवाचक सर्वनाम (Relative Pronouns) वह हैं

जो कहे हुए संज्ञाशब्दों से सम्बन्ध रखते हैं। वे 'जो', 'जौन' और उनके परस्पर सम्बन्ध 'सो' और 'तौन' हैं।

जो (जौन) शब्द के रूप ।

कर्त्ता	जो, (जौन), जिसने	जो, (जौन), जिन्होंने, जिनने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसे, जिसको, के लिए	जिन्हें, जिनको, के लिए
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका, के, की	जिनका, के, की
अधिकरण	जिसमें, पर, पै	जिनमें, पर, पै

सो (तौन) शब्द के रूप ।

कर्त्ता	सो, (तौन), तिसने	सो, (तौन), तिनने, तिन्होंने
कर्म	तिसे, तिसको	तिन्हें, तिनको
करण	तिस से	तिन से
सम्प्रदान	तिसको, के लिए	तिनको, के लिए
अपादान	तिस से	तिन से
सम्बन्ध	तिसका, के, की	तिनका, के, की
अधिकरण	तिसमें, पर, पै	तिनमें, पर, पै

प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronouns)

प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronouns) वह

हैं जिनसे प्रश्न का बोध होता है, वे 'कौन' और 'क्या' हैं।

‘कौन’ प्रणिवाचक और अप्राणिवाचक दोनों के लिए और ‘क्या’ केवल अप्राणिवाचक के लिए आता है ।

‘कौन’ शब्द के रूप ।

कर्त्ता	कौन, किसने	कौन, किनने, किन्होंने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हे
करण	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसको, के, लिए, किसे किनको, किनके लिए, किन्हें	
अपादान	किससे	किनसे
सम्बन्ध	किसका, के, की	किनका, के, की
अधिकरण	किसमें, पर, पै	किनमें, पर पै

‘क्या’ शब्द के रूप ।

कर्त्ता	क्या
कर्म	क्या
करण	काहे से
सम्प्रदान	काहे को, के लिए
अपादान	काहे से
सम्बन्ध	काहे का, के, की
अधिकरण	काहे में, पर

इन प्रसिद्ध सर्वनामों के अतिरिक्त एक और सर्वनाम है जिसको परस्परबोधक (Reciprocal Pronouns) कहते हैं उसमें दो शब्द हैं ‘आपस’ और ‘एक दूसरा’ ।

‘आपस के रूप केवल सम्बन्ध और अधिकरण में होते हैं जैसे ‘आपस का’ और ‘आपस में’ ।

‘एक दूसरा’ के रूप ।

कर्त्ता	एक दूसरे ने
कर्म	एक दूसरे को
करण	एक दूसरे से
सम्प्रदान	एक दूसरे को, के लिए
अपादान	एक दूसरे से
सम्बन्ध	एक दूसरे का, के, की
अधिकरण	एक दूसरे में, पर, पे

प्रश्न

१ सर्वनाम किसे कहते हैं ? २ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ?
३ पुरुषवाचक सर्वनामों के रूप लिखो । ४ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन
कौन से हैं ? ५ प्रश्नवाचक सर्वनाम और परस्परबोधक सर्वनाम की परिभाषा
लिखो । ६ कौन, कोई, वह, जो के रूप लिखो ।

सर्वनाम शब्दों की शब्दनिरुक्ति ।

(Parsing of Pronouns)

सर्वनाम शब्दों की शब्दनिरुक्ति करने में उनका प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और उनका अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताना चाहिए जैसे ‘वह अपने घर को जाता है’ में—

वह—पुरुषवाचक सर्वनाम—अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिङ्ग,
कर्त्ता कारक, क्रिया, ‘जाता है’, का कर्त्ता है ।

अपने—पुरुष वाचक सर्वनाम—अन्यपुरुष, एकवचन, पुल्लिङ्ग,
सम्बन्ध कारक, ‘घर’ संज्ञा का भेदक है ।

प्रश्न

नीचे के वाक्यों में जो जो सर्वनाम है उनकी शब्दनिरुक्ति लिखो ।

क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया । आप किसके लड़के को पढ़ाते हैं । उनसे कौन कहता है कि वह सब काम हमारे ऊपर छोड़ दें । क्या तू नहीं जानता कि यह काम तुम्ह से ही कराया जायगा । जो जैसा करते हैं सो तैसा पाते हैं ।

पाठ १०

क्रिया (Verb)

क्रिया (Verb) वह है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय जैसे वह गाता है ।

वाक्य में क्रिया का होना अत्यावश्यक है । बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं हो सकता ।

जिस शब्द के अन्त में 'ना' हो और उससे व्यापार तो पाया जाय परन्तु काल का बोध न होता हो उसे क्रिया का सामान्यरूप (Infinitive) कहते हैं । जैसे 'आना' 'जाना' 'पीना' इत्यादि । परन्तु यदि व्यापार न पाया जाय तो वह क्रिया नहीं है जैसे गन्ना, कोना इत्यादि । 'ना' को सामान्यरूप का चिह्न (Sign of Infinitive) कहते हैं । सामान्य रूप से ही अन्य रूप बनते हैं ।

'ना' को छोड़ जो क्रिया शेष रह जाती है उसको धातु कहते हैं जैसे 'आ' 'जा' 'पी' ।

क्रिया के भेद (Kinds of Verbs)

वह सोता है	वह पुस्तक को पढ़ता है
हम आते हैं	हम चित्र को देखते हैं
तुम रोते हो	तुम कलम को लेते हो

ऊपर दो प्रकार के वाक्य दिये हुए हैं। बाईं ओर के वाक्यों में केवल क्रिया और कर्त्ता हैं, परन्तु दाईं ओर के वाक्यों में कर्त्ता, क्रिया और कर्म तीन चीजें हैं। बाईं ओर के वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं ला सकते। हम नहीं कह सकते कि—'किसको सोता है' या 'किसको आता है' परन्तु हम कह सकते हैं कि वह 'किसको पढ़ता है' 'किसको देखता है' इत्यादि। जब तक कर्म न लगाया जाय तब तक दाईं ओर की क्रियाओं का व्यापार पूरा नहीं होता। यदि कहा जाय कि 'वह देखता है' या 'वह लेता है' और इन क्रियाओं का कर्म न बतलाया जाय तो सुननेवाले के मन को निश्चय नहीं होता। वह पूछता है कि 'वह किसको देखता है' अथवा 'किसको लेता है'।

अब दो प्रकार की क्रियाएँ ऊपर बताई गई हैं। एक वह जिन का फल केवल कर्त्ता ही तक रहता है उससे आगे नहीं जाता। ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया (Intransitive Verbs) कहते हैं जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना इत्यादि।

जिनका फल कर्त्ता से चल कर कर्म पर पड़ता है उनको सकर्मक क्रिया (Transitive Verbs) कहते हैं। जैसे खाना, लाना इत्यादि।

यदि सकर्मक क्रियाएँ सामान्य व्यापार की बोधक हों और उनसे किसी विशेष कर्म का प्राश्न न पाया जाय तो ऐसी सकर्मक

क्रियायें भी अकर्मक हो जाती हैं जैसे 'वह देखता है' अर्थात् 'वह देख सकता है' जिसका अर्थ यह है कि 'वह अन्धा नहीं है' 'देखना सकर्मक है परन्तु यहाँ किसी विशेष कर्म का सूचक न होने के कारण अकर्मक हो गया ।

कभी अकर्मक क्रिया के व्यापार को एक प्रकार का कर्म मान कर क्रिया के साथ जोड़ देते हैं । ऐसी दशा में अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है । जैसे 'वह एक चाल चला' तुम एक लड़ाई लड़े ' 'हम एक दौड़ दौड़े' । यहाँ 'चाल' 'लड़ाई' और 'दौड़' क्रियाओं के व्यापार के वाचक हैं ।

कुछ ऐसी भी क्रियायें हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों हैं । जैसे 'खुजलाना' 'उसका शिर खुजलाता है' यहाँ 'खुजलाता है' अकर्मक क्रिया है । 'वह शिर को खुजलाता है' यहाँ 'खुजलाता है' सकर्मक क्रिया है ।

कभी अकर्मक क्रिया से सकर्मक और सकर्मक से द्विकर्मक अथवा प्रेरणार्थक क्रिया बना लेते हैं । जैसे 'चलना' अकर्मक क्रिया है 'चलाना' सकर्मक हुई । 'चलवाना' द्वि. हो गई । नके बनाने की विधि नीचे लिखी जाती है ।

(१) यदि अकर्मक धातु के अन्त में करके सामान्य रूप का चिह्न जोड़ देने से द्विकर्मक क्रिया हो जाती है ।

अकर्मक

उठना

उगना

चढ़ना

गिरना

बजना

उ

च

बजा

दबना	दवाना	दबवाना
मिलना	मिलाना	मिलवाना
पकना	पकाना	पकवाना
लगना	लगाना	लगवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
चमकना	चमकाना	चमकवाना
लटकना	लटकाना	लटकवाना
पिघलना	पिघलाना	पिघलवाना
जलना	जलाना	जलवाना
फिरना	फिराना	फिरवाना
चलना	चलाना	चलवाना
खिलना	खिलाना	खिलवाना

(२) यदि अकर्मक क्रिया के धातु में दो अक्षर हों और उनके मध्य में ए, ऐ, ओ, औ को छोड़ के कोई और दीर्घ स्वर हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं। यदि 'ए' या 'ओ' हो तो 'ए' को 'इ' और 'ओ' को 'उ' कर देते हैं जैसे—

अकर्मक	सकर्मक	द्विकर्मक
जागना	जगाना	जगवाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना
धूमना	धुमाना	धुमवाना
बुलना	बुलाना	बुलवाना

(३) यदि अकर्मक क्रिया के धातु में केवल एक अक्षर हो और उसके अन्त में दीर्घ स्वर या 'ओ' या 'ए' हो तो दीर्घ को ह्रस्व, 'ओ' को 'उ', 'ए' को 'इ' करके 'ल' जोड़ कर नियम (१) के अनुसार सकर्मक आदि बना लेते हैं।

अकर्मक	सकर्मक	द्विकर्मक
जीना	जिलाना	जिलवाना

रोना	रुलाना	रुलवाना
सेना	सुलाना	सुलवाना
(४) कुछ अनियम भी बनते हैं जैसे—	सकर्मक	द्विकर्मक
अकर्मक	पालना	पलवाना
पलना	फाडना	फडवाना
फटना	तोड़ना	तुडवाना
टूटना	छोड़ना	छुडवाना
छूटना	वेचना	बिक्रवाना
बिकना	लिटाना	लिटवाना
लेटना		

‘आना’ ‘जाना’ ‘सकना’ ‘होना’ इत्यादि के सकर्मक आदि नहीं बनते ।

(५) सकर्मक क्रिया से द्विकर्मक और त्रिकर्मक बनाने के भी वही नियम हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं । इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं ।

सकर्मक	द्विकर्मक	त्रिकर्मक
पीना	पिलाना	पिलवाना
खाना	खिलाना	खिलवाना
देखना	दिखाना	दिखवाना
लिखना	लिखाना	लिखवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
सीखना	सिखाना	सिखवाना

प्रश्न

१ क्रिया किसे कहते हैं । २ सकर्मक कब द्विकर्मक हो जाती है । ३ सकर्मक कब त्रिकर्मक हो जाती है । ४ अकर्मक कब सकर्मक हो जाती है ।

शहरण सहित लिखो । ६ अकर्मक से सकर्मक बनाने की विधि लिखो ।
-नलिखित क्रियाओं में अकर्मक के सकर्मक और सकर्मक के द्विकर्मक
।—

शेना, खोना, गाना, पाना, मिलना, दूटना, हँड़ना, गिरना, देखना,
, सीना, धोना, पालना, जागना, रोकना ।

पाठ ११

क्रिया का रूपकरण (Inflections of Verbs)

क्रिया के रूपों में पाँच बातों की अपेक्षा-भेद हो सकता है
। त् वाच्य, काल, लिङ्ग, वचन और पुरुष की अपेक्षा से ।

वाच्य (Voice)

मैं किताब लिखता हूँ	किताब लिखी जाती है
वे ग्राम खाते हैं	ग्राम खाया जाता है
वाल्मीकि रामायण लिखता है	रामायण लिखी जाती है

ऊपर दो प्रकार के वाच्य लिखे गये हैं । दोनों वाच्यों में सकर्मक
ग्राह्य आई हुई हैं । पहले वाच्य-समूह में कर्त्ता एक काम को
रता है जैसे 'मैं लिखता हूँ', 'वे खाते हैं' इत्यादि ।

दूसरे वाच्यसमूह में पहले वाच्यसमूह के कर्म ही कर्त्तारूप
गये हैं और वह प्रकट करते हैं कि वे स्वयं किसी कार्य को नहीं
रते किन्तु इन पर किसी कार्य का फल गिरता है जैसे 'किताब
खी जाती है' का यह अर्थ है कि 'लिखने' के कार्य का फल
किताब' पर पड़ता है । पहले समूह में 'किताब' को कर्म विभक्ति
रखा है । द्वितीय समूह में किताब को कर्त्ता विभक्ति में रखा दिया
यद्यपि अर्थ कर्म के ही है ।

ऊपर के वाक्यों को देखने से ज्ञात होगा कि क्रिया के दो भे हो गये । क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्त्ता विभक्ति रक्खा हुआ शब्द क्रिया का करनेवाला है या उस पर क्रिया । फल गिरता है उस रूप को वाच्य (Voice) कहते हैं ।

हिन्दी भाषा में वाच्य तीन होते हैं । कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ।

कर्तृवाच्य (Active Voice) वह है जिससे ज्ञात हो ।

कर्तृवाच्य विभक्ति में रक्खा हुआ शब्द क्रिया के करनेवाले का वाचक है । 'जैसे देवदत्त ने दूध पिया' यहाँ देवदत्त जोकि कर्तृवाच्य विभक्ति में है क्रिया के करनेवाले का वाचक है ।

कर्मवाच्य (Passive Voice) वह है जिससे ज्ञात होता है ।

कर्तृवाच्य विभक्ति में रक्खा हुआ शब्द कर्म का अर्थ देता है जैसे 'वस्त्र सिया जाता है' में 'वस्त्र' कर्तृवाच्य विभक्ति में है परन्तु कर्म का बोधक है । कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होते हैं ।

भाववाच्य (Impersonal) वह है जिसमें अकर्मक क्रिया के

कर्मवाच्य क्रिया के समान रूप होकर कर्त्ता को 'करण विभक्ति' में रख देते हैं जैसे 'मुझ से जाया नहीं जाता' 'उनसे सोया नहीं जाता' ।

भाववाच्य प्रायः निषेध में ही आते हैं ।

भाववाच्य और कर्मवाच्य के बनाने की यह रीति है कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में ले आये, उसके पीछे उसमें 'जाना' क्रिया के काल, पुहप, वचन, लिङ्ग के अनुसार रूप जोड़ दो । यदि मुख्य क्रिया सकर्मक है तो उस प्रकार बनी हुई क्रिया कर्मवाच्य हो गई और यदि अकर्मक हुई तो भाववाच्य होगी । जो शब्द कर्तृवाच्य में कर्मविभक्ति में हो वह कर्मवाच्य

में कर्तृवाच्य * विभक्ति में हो जाता है और जो शब्द कर्तृवाच्य में कर्त्ता विभक्ति में हो वह कर्मवाच्य और भाववाच्य में करण विभक्ति में हो जाता है। जैसे 'व्यासजी वेद को पढ़ते हैं' का कर्मवाच्य बनाना है यहाँ 'व्यासजी' कर्तृवाच्य विभक्ति में है उसको करण विभक्ति में पलटा तो 'व्यासजी से' होगया 'वेद को' कर्म विभक्ति में है उसके कर्तृवाच्य विभक्ति में पलटा तो केवल 'वेद' रह गया। मुख्य क्रिया पढ़ना है इसका सामान्य भूतकाल 'पढ़ा' हुआ। 'पढ़ते हैं' वर्तमान काल में है। इसलिए 'जाना' क्रिया का वर्तमान 'जाता है' जोड़ दिया। तो पूरा वाक्य 'व्यासजी से वेद पढ़ा जाता है' हो गया।

इसी प्रकार 'राम जाता है' का भाववाच्य 'राम से जाया जाता है' हो गया।

प्रश्न

१ नीचे के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्यक्रिया द्वारा प्रकट करो। गाय दूध देती है। बालक संध्या करता है। अच्छे पुरुष मृत्यु बोलते हैं। विद्यार्थी पुस्तक को पढ़ता है। मैं नहीं सोता। देवउत्त कलकत्ते जाता है। मोहन वृत्त को काटता है। सोमदेव नहीं गाता। म्या तुम पत्र लिखदोगे। हमने कोई अपराध नहीं किया। यह लकड़ी उस बालक ने तोड़ी थी। यह खेत विश्वामित्र ने बोया होगा।

* वहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म कर्त्ता होगया और कर्त्ता रह्य होगा। अर्थ वही रहे। केवल विभक्ति बदल गई। अण्प्रत्यय को उचित है कि विद्यार्थी को यह बात भली प्रकार समझा दे। 'कर्त्ता' और कर्तृविभक्ति में भेद है; कर्तृविभक्ति केवल शब्दों से सम्बन्ध रखती है और कर्त्ता के चिह्न को जोड़ देने से बन जाती है। परन्तु कर्त्ता किन्नी शब्दिक पदार्थ को कहते हैं जो वस्तुतः किसी कार्य को करे।

२ नीचे के वाक्यों को कर्तृवाच्य क्रिया द्वारा प्रकाशित करो । क्या लुमसे इतना भी नहीं पढ़ा जाता । रावण राम से मारा गया । कृलम बालक से बनाई गई । उनसे वस्त्र पहने जाते हैं । मुझसे यहाँ सोया न जायगा । सत्यप्रकाश से यह पुस्तक पढ़ी जायगी । रामप्रसाद से दवात फैलाई जायगी ।

पाठ १२

काल (Tense)

वह घर गया	वह घर जाता है	वह घर जायगा
मैंने आम खाया	मैं आम खाता हूँ	मैं आम खाऊँगा
सीता ने पत्र पढ़ा	सीता पत्र पढ़ती है	सीता पत्र पढ़ेगी

ऊपर लिखे तीन वाक्य-समूहों में पहले समूह की क्रियाओं रं ज्ञात होता है कि काम को किये हुए कुछ समय बीत गया । दूसरे से यह ज्ञात होता है कि काम अभी हो रहा है । तीसरे से यह प्रकाशित होता है कि काम भविष्यत् काल में होगा ।

क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय पाया जाय उसे काल (Tense) कहते हैं ।

काल तीन हैं । भूत (Past Tense) वर्त्तमान (Present Tense) और भविष्यत् (Future Tense)

भूतकाल (Past Tense)

भूतकाल छः प्रकार का होता है । सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, हेतुहेतुमद्भूत ।

वह गया । लड़के उठे । लड़कियों ने गाया ।

उपर्युक्त वाक्यों के भूतकालिक क्रिया तो हैं परन्तु उनसे यह बोध नहीं होता कि काम को हुए कितनी देर हुई । इसको सामान्यभूत (Past Indefinite) कहते हैं ।

सामान्यभूतकालिक क्रिया के बनाने की रीति यह है कि

यदि धातु के अन्त में 'अ' हो तो उसके स्थान में 'आ' कर दो।
जैसे 'पढ़ना' से 'पढ़ा', 'लिखना' से 'लिखा', 'ढूँढना' से 'ढूँढा'।
यदि धातु के अन्त में 'आ' या 'ओ' हो तो उसमें 'या' जोड़ दो।
जैसे 'खाना' से 'खाया', 'रोना' से 'रोया'। यदि धातु के अन्त में
'ई' या 'ए' हो तो इनके स्थान में 'इया' जोड़ दो जैसे 'पीना' से
'पिया'। 'देना' से 'दिया'। यदि धातु के अन्त में 'ऊ' हो तो ऊ
को 'उ' करके 'आ' जोड़ दो जैसे 'छूना' से 'छुआ'।
कुछ अनियम भी बनते हैं जैसे—

जाना से गया
होना से हुआ या 'था'
करना से किया

उसने खाना खाया है। वह आ गया है। मैंने पानी पिया है।
ऊपर के वाक्यों की क्रियाओं से ज्ञान होता है कि काम भूतकाल
में आरम्भ होकर अभी समाप्त हुआ है। ऐसी क्रिया को
आसन्नभूत (Present Perfect) कहते हैं।

इसके बनाने की यह रीति है कि सामान्यभूत में उत्तम पुरुष
के एकवचन में 'हूँ' बहुवचन में 'हैं' मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष
के एक वचन में 'हे' और बहुवचन में 'हैं' लगा देने हैं। जैसे मैं
आया हूँ। तू आया है। वह आया है। हम आये हैं। तुम आये
हो। वे आये हैं। यदि कर्ता के साथ उसका चिह्न 'ने' आये तो
केवल 'है' ही लगता है जैसे—

उसने किया है। हमने किया है। मैंने किया है, इत्यादि।

पूर्णभूत (Past Perfect)

उसने पानी पिया था ।

राम ने भोजन किया था ।

तुने पत्र लिखा था ।

इन सब वाक्यों से प्रकट होता है कि काम को हुए बहुत समय व्यतीत हो गया । जिससे भूतकाल में दूरी पाई जाय उसे पूर्णभूत (Past Perfect) कहते हैं । इसके बनाने की यह रीति है कि सामान्यभूत में नीचे लिखे शब्द लगा देते हैं ।

एकवचन

बहुवचन

	पुंल्लिङ्ग	स्त्रील्लिङ्ग	पुंल्लिङ्ग	स्त्रील्लिङ्ग
उत्तम पुरुष	था	थी	थे	थीं
मध्यम „	था	थी	थे	थीं
अन्य „	था	थी	थे	थीं
जैसे, मैं आया था, आई थी			हम आये थे, आई थीं	
तू आया था, आई थी			तुम आये थे, आई थीं	
वह आया था, आई थी			वे आये थे, आई थीं	

अपूर्णभूत (Past Imperfect)

वे खाना खाते थे । तुम जाते थे । हम दौड़ते थे ।

ऊपर की क्रियाओं से प्रकट होता है कि यद्यपि कार्य्य भूतकाल में हुआ परन्तु समाप्त नहीं हुआ । 'खाते थे' का अर्थ यह है कि खाना समाप्त नहीं हुआ । ऐसी क्रिया को अपूर्णभूत (Past Imperfect) कहते हैं ।

इसके बनाने की यह रीति है कि धातु में 'ता था', 'ती थी', 'ते थे', 'ती थी', या 'रहा था', 'रही थी', 'रहे थे' 'रही थीं' लगा देते हैं। जैसे वह सोता था या सो रहा था। वे सोते थे या सो रहे थे। हम सोती थीं या सो रहो थीं इत्यादि।

सन्दिग्धभूत (Doubtful Past)

उसने पत्र लिखा होगा। हमने पुस्तक पढ़ी होगी।
यहाँ 'लिखा होगा' और 'पढ़ी होगी' से भूतकाल तो पाया जाता है परन्तु क्रिया के होने में सन्देह है। इसको सन्दिग्धभूत (Doubtful Past) कहते हैं।

इसके बनाने की यह रीति है कि सामान्यभूत के आगे 'होगा', 'होगी' होंगे, 'होगी' लगा देते हैं।

हेतुहेतुमद्भूत (Conditional Past)

वे आते या आये होते तो मुझे पढ़ाते। वर्षा होती तो अन्न होता।

ऊपर के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य्य भूतकाल में होने वाला तो था परन्तु किसी कारण से हुआ नहीं। ऐसी क्रिया को हेतुहेतुमद्भूत (Conditional Past) कहते हैं।

इसके बनाने की यह रीति है कि धातु में ता, ती, ते, तों लगा देते हैं।

में आता—आती

हम आते या आतों

वर्तमान काल (Present Tense)

वर्तमानकालिक क्रिया के दो भेद हैं। सामान्य वर्तमान, सन्दिग्ध वर्तमान।

वह जाता है	वह जाता होगा
तुम खाते हो	तुम खाते होगे
राम रहता है	राम रहता होगा

ऊपर के दोनों वाक्यसमूहों से वर्तमान काल का बोध होता है परन्तु पहले समूह में सामान्यता पाई जाती है, और दूसरे समूह का क्रियाओं के होने में सन्देह है।

सामान्य वर्तमानकालिक (Indefinite Present Tense)

वह क्रिया है जिससे काम का वर्तमान में होना पाया जाय। इसके बनाने की रीति यह है कि हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे 'हूँ' 'है' या 'हैं' लगा देते हैं जैसे 'वह जाता है' 'वे जाते हैं'।

सन्दिग्ध वर्तमानकालिक (Doubtful Present Tense)

वह क्रिया है जिसके होने में सन्देह हो। सम्भव है कि काम हो, सम्भव है कि न हो।

इसके बनाने की रीति यह है कि हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे 'होगा' 'होगी' 'होगे' 'होगी' लगा देते हैं। जैसे वह जाता होगा। हम जाते होंगे। वह जाती होगी, वे जाती होगी।

भविष्यत्काल (Future Tense)

यह दो प्रकार का होता है, एक सामान्यभविष्यत् दूसरा संभाव्यभविष्यत्।

मैं करूँ	मैं करूँगा
तू लड़े	तू लड़ेगा
वह खावे	वह खायगा या खावेगा

ऊपर की क्रियाओं से प्रकट होता है कि कार्य आरम्भ नहीं हुआ। आनेवाले समय में होगा। परन्तु पहले वाक्यसमूह से यह

ज्ञात होता है कि कार्य करने की इच्छा मात्र है, हो या न हो।
इसको संभाव्यभविष्यत् (Conditional Future) कहते हैं।
दूसरे वाक्यसमूह से कार्य की सामान्यता पाई जाती है। इसको
सामान्यभविष्यत् (Indefinite Future Tense) कहते हैं।

संभाव्यभविष्यत् के बनाने की रीति यह है कि धातु के अन्त
में बहुवचन में 'तुम' के साथ 'ओ' अन्यथा 'ए' या 'ये' और एक-
वचन में 'मैं' के साथ 'ऊँ,' अन्यथा 'ए' या 'ये' लगा देते हैं जैसे—

मैं खाऊँ	हम खायें	मैं बैठूँ	हम बैठें
तू खाये	तुम खाओ	तू बैठे	तुम बैठो
वह खाये	वे खाये	वह बैठे	वह बैठे

संभाव्यभविष्यत् के आगे 'गा,' 'गी,' 'गे,' 'गी,' लगा देने से
सामान्यभविष्यत् बन जाता है।

मैं खाऊँगा	हम खायेंगे
तू खायेगा	तुम खाओगे
वह खायेगा	वे खायेंगे

आज्ञा (Imperative)

ऊपर की क्रियाओं के अतिरिक्त एक और क्रिया है जिसमें
किसी प्रकार का हुक्म, या बोलनेवाले की इच्छा पाई जाती है।
इसको आज्ञा (Imperative) कहते हैं। यह केवल मध्यम पुरुष
में आती है।

एकवचन का रूप धातुरूप के समान होना है। जैसे बैठ,
जा, आ। एकवचन में 'ओ' लगा देने से बहुवचन हो जाता है जैसे
बैठो, जाओ, आओ।

आदर के लिए 'इये' या 'इए' लगा देते हैं। जैसे बैठिये, जाइए।

सकर्मक क्रिया 'देखना' ।

कर्तृवाच्य ।

सामान्यभूत

	एकवचन	बहुवचन
उत्तमपुरुष	मैंने देखा	हमने देखा
मध्यमपुरुष	तूने देखा	तुमने देखा
अन्यपुरुष	उसने देखा	उन्होंने देखा

आसन्नभूत

उ०	मैंने देखा है	हमने देखा है
म०	तूने देखा है	तुमने देखा है
अ०	उसने देखा है	उन्होंने देखा है

पूर्णाभूत

उ०	मैंने देखा था	हमने देखा था
म०	तूने देखा था	तुमने देखा था
अ०	उसने देखा था	उन्होंने देखा था

अपूर्णाभूत

उ०	मैं देखती थी-मैं देखता था	हम देखती थीं-हम देखते थे
	मैं देख रही थी-मैं देख रहा था	
म०	तू देखती थी-तू देखता था	तुम देखती थीं-तुम देखते थे
	तू देख रही थी-तू देख रहा था	
अ०	वह देखती थी-वह देखता था	वे देखती थीं-वे देखते थे
	वह देख रही थी-वह देख रहा था	

सन्दिग्धभूत

एकवचन

- उ० मैंने देखा होगा
म० तूने देखा होगा
अ० उसने देखा होगा

बहुवचन

- हमने देखा होगा
तुमने देखा होगा
उन्होंने देखा होगा

हेतुहेतुमद्भूत

- उ० मैं देखती, देखना
म० तू देखती, देखना
अ० वह देखती, देखता

- हम देखती, देखते
तुम देखतों, देखते
वे देखतों, देखते

सामान्य वर्तमान

- उ० मैं देखती हूँ, देखता हूँ
म० तू देखनी है, देखना है
अ० वह देखती है, देखता है

- हम देखनी हैं, देखते हैं
तुम देखती हो, देखते हो
वे देखती हैं, देखते हैं

सन्दिग्ध वर्तमान

- उ० मैं देखती हूँगी, देखता हूँगा—हम देखनी होंगी, देखने होंगे
म० तू देखनी होगी, देखना होगा—तुम देखती होंगी, देखते होंगे
अ० वह देखती होगी, देखता होगा—वे देखती होंगी, देखने होंगे

सम्भाव्यभविष्यत्

- उ० मैं देखूँ
म० तू देखे
अ० वह देखे

- हम देखें
तुम देखो
वे देखें

सकर्मक क्रिया 'देखना' ।

कर्तृवाच्य ।

सामान्यभूत

	एकवचन	बहुवचन
उत्तमपुरुष	मैंने देखा	हमने देखा
मध्यमपुरुष	तूने देखा	तुमने देखा
अन्यपुरुष	उसने देखा	उन्होंने देखा

आसन्नभूत

उ०	मैंने देखा है	हमने देखा है
म०	तूने देखा है	तुमने देखा है
अ०	उसने देखा है	उन्होंने देखा है

पूर्णाभूत

उ०	मैंने देखा था	हमने देखा था
म०	तूने देखा था	तुमने देखा था
अ०	उसने देखा था	उन्होंने देखा था

अपूर्णाभूत

उ०	मैं देखती थी-मैं देखता था	} हम देखती थीं-हम देखते थे
	मैं देख रही थी-मैं देख रहा था	
म०	तू देखती थी-तू देखता था	} तुम देखती थीं-तुम देखते थे
	तू देख रही थी-तू देख रहा था	
अ०	वह देखती थी-वह देखता था	} वे देखती थीं-वे देखते थे
	वह देख रही थी-वह देख रहा था	

पूर्णाभूत

- उ० मैं देखी गई थी, देखा गया था, हम देखी गई थीं, देखे गये थे
- म० तू देखी गई थी, देखा गया था, तुम देखी गई थीं, देखे गये थे
- अ० वह देखी गई थी, देखा गया था, वे देखी गई थीं, देखे गये थे

अपूर्णाभूत

- उ० मैं देखी जाती थी, देखा जाता था, हम देखी गई थीं, देखे जाने थे
- म० तू देखी जाती थी, देखा जाता था, तुम देखी जाती थीं, देखे गये थे
- अ० वह देखी जाती थी, देखा जाता था, वे देखी जाती थीं, देखे जाते थे

सन्दिग्धभूत

- उ० मैं देखी गई हूँगी, देखा गया हूँगा, हम देखी गई होंगी, देखे गये होंगे
- म० तू देखी गई होगी, देखा गया होगा, तुम देखी गई होंगी, देखे गये होंगे
- अ० वह देखी गई होगी, देखा गया होगा, वे देखी गई होंगी, देखे गये होंगे

हेतुहेतुमद्भूत

एकवचन

स्त्री० पुं०

बहुवचन

स्त्री पुं०

- उ० मैं देखी जाती, देखी गई होती
- देखा जाना, या देखा गया होता
- म० तू देखी जाती, देखा जाता
- अ० वह देखी जाती, देखा जाता

- हम देखी जानों, देखे जाते
- तुम देखी जातों, देखे जाते
- वे देखा जातों, देखे जाते

सामान्य वर्तमान

- मैं देखी जाती हूँ, देखा जाना हूँ, हम देखी जाती हैं, देखे जाने हैं
- तू देखी जाती है, देखा जाता है, तुम देखी जाती हो, देखे जाने हो
- वह देखी जाती है, देखा जाता है, वे देखी जाती हैं, देखे जाने हैं

सामान्यभविष्यत्

उ०	मैं देखूँगी, गा	हम देखेंगी, गे
म०	तू देखेंगी, गा	तुम देखोगी, गे
अ०	वह देखेगी, गा	वे देखेंगी, गे

आज्ञा

म०	तू देख	तुम देखो
----	--------	----------

पूर्वकालिक

देख कर देखके

कर्मवाच्य

सामान्यभूत

एकवचन

बहुवचन

स्त्री० पुं०

स्त्री० पुं०

उ०	मैं देखी गई, देखा गया	हम देखी गईं, देखे गये
म०	तू देखी गई, देखा गया	तुम देखी गईं, देखे गये
अ०	वह देखी गई, देखा गया	वे देखी गईं, देखे गये

आसन्नभूत

उ०	मैं देखी गई हूँ, देखा गया हूँ	हम देखी गईं हैं, देखे गये हैं
म०	तू देखी गई है, देखा गया है	तुम देखी गई हो, देखे गये हो
अ०	वह देखी गई है, देखा गया है	वे देखी गई हैं, देखे गये हैं

भाववाच्य

‘आना’ क्रिया

सामान्यभूत

उ० मुझ से आया गया
म० तुझ से " "
अ० उस से " "

हम से आया गया
तुम से " "
उन से " "

आसन्नभूत

मुझ से }
तुझ से } आया गया है
उस से }

हम से }
तुम से } आया गया है
उन से }

पूर्णभूत

तुझ से }
तुझ से } आया गया था
उस से }

हम से }
तुम से } आया गया था
उन से }

अपूर्णभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता था

सन्दिग्धभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया गया होगा

हेतुहेतुमद्भूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता

सन्दिग्ध वर्तमान

उ०	मैं देखी जाती हूँगी	}	{	हम देखी जाती होंगी
	देखा जाता हूँगा			हम देखे जाते होंगे
म०	तू देखी जाती होगी,	}	{	तुम देखी जाती होगी
	देखा जाता होगा			तुम देखे जाते होंगे
अ०	वह देखी जाती होगी	}	{	वे देखी जाती होंगी
	देखा जाता होगा			वे देखे जाते होंगे

सम्भाव्य भविष्यत्

उ०	मैं देखी जाऊँ, देखा जाऊँ	हम देखी जायँ, देखे जायँ
म०	तू देखी जाय, देखा जाय	तुम देखी जाओ, देखे जाओ
अ०	वह देखी जाय, देखा जाय	वे देखी जायँ, देखे जायँ

सामान्य भविष्यत्

स्त्री०	पुं०	स्त्री०	पुं०
उ०	मैं देखी जाऊँगी, देखा जाऊँगा,	हम देखी जायँगी, देखे जायँगे	
म०	तू देखी जायगी, देखा जायगा,	तुम देखी जाओगी, देखे जाओगे	
अ०	वह देखी जायगी, देखा जायगा,	वे देखी जायँगी, देखे जायँगे	

आज्ञा

म०	तू देखी जा, तू देखा जा	तुम देखी जाओ, देखे जाओ
----	------------------------	------------------------

पूर्वकालिक

देखा जाकर, देखा जाके

भाववाच्य

‘आना’ क्रिया

सामान्यभूत

उ० मुझ से आया गया	हम से आया गया
म० तुझ से ,, ,,	तुम से ,, ,,
अ० उस से ,, ,,	उन से ,, ,,

आसन्नभूत

मुझ से } तुझ से } उस से }	आया गया है	हम से } तुम से } उन से }	आया गया है
---------------------------------	------------	--------------------------------	------------

पूर्णभूत

मुझ से } तुझ से } उस से }	आया गया था	हम से } तुम से } उन से }	आया गया था
---------------------------------	------------	--------------------------------	------------

अपूर्णभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता था

सन्दिग्धभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया गया होगा

हेतुहेतुमद्भूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता

सामान्यवर्तमान

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता है

सन्दिग्धवर्तमान

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जाता होगा

सम्भाव्यभविष्यत्

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जावे

सामान्यभविष्यत्

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, आया जावेगा

आज्ञा

तुझसे, या तुमसे, आया जाय

पूर्वकालिक

आया जाकर

पाठ १६

क्रियाओं की शब्दनिरुक्ति

क्रियाओं की शब्दनिरुक्ति करने में (१) प्रकार, (२) वाच्य, (३) काल, (४) पुरुष, (५) लिङ्ग, (६) वचन, (७) *कर्त्ता, का देना आवश्यक है। "मैं पानी पीता हूँ" में—

* कर्मवाच्य के 'कर्त्ता' बताने में वह शब्द बताना चाहिए जो 'कर्त्ता' विभक्ति, में है।

पीता हँ सकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान, उत्तम पुरुष
पुंलिङ्ग, एकवचन, (मैं) इसका कर्ता है।

प्रश्न

नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाओं की शब्दनिरुक्ति करो:—

तुमसे यह दुःख देखा न जायगा। बालक खेल रहा है। कौए काँव काँव करते हैं। पानी तालाब में भरा है। उसने कलम देखी होगी। आज एक सिपाही बरखास्त कर दिया गया। तुम वहाँ जाओ और वह यहाँ आवे। राम ने कई घोड़े खरीदे। सीतलदीन से कहो कि अपना काम समय पर किया करे। आप जाने अपना काम जाने।

पाठ १७

क्रियाविशेषण (Adverbs)

जो शब्द किसी क्रिया के व्यापार में कुछ विशेषता प्रकाशित करे उसे क्रियाविशेषण (Adverb) कहते हैं। यह कई प्रकार का है। कुछ प्रसिद्ध क्रियाविशेषण नीचे लिखे जाते हैं।

(१) रीतिवाचक (Adverbs of Manner) जिससे क्रिया की रीति ज्ञात हो। जैसे ज्यों, त्यों, यों, क्यों, ऐसे, वैसे, जैसे- सब-मुच, झूठमूठ, ठीक, यथार्थ, वृथा, तथापि, इत्यादि।

(२) कालवाचक (Adverbs of Time) जिससे क्रिया का काल अर्थात् समय ज्ञात हो जैसे जब, अब, कब, पहले, पीछे, कब तक, सदा-कभी, शीघ्र, देर से, आज, कल, प्रति दिन, नड़के, प्रायः, बड़े-बड़े, तुरन्त, बराबर इत्यादि।

(३) स्थानवाचक (Adverbs of Place) जिससे क्रिया के व्यापार का स्थान पाया जाय जैसे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, पास, दूर, समीप, इत्यादि ।

(४) परिमाणवाचक (Adverbs of Quantity) जिससे परिमाण का बोध हो जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, अति कुछ, थोड़ा सा इत्यादि ।

(५) स्वीकार और निषेधवाचक (Adverbs of Belief and Disbelief) जैसे अवश्य, तो, निस्सन्देह, नहीं, मत इत्यादि

(६) हेतुवाचक (Adverbs of Cause) जैसे इसलिए, इस कारण, अतएव इत्यादि ।

(७) प्रश्नवाचक (Interrogative Adverbs) जैसे क्यों, कहाँ, कब इत्यादि ।

क्रियाविशेषण की शब्दनिरुक्ति करने में इसका प्रकार और उस क्रिया का बताना चाहिए जिसका यह विशेषण है। जैसे 'वह भट चल गया, में 'भट' क्रियाविशेषण कालवाचक, 'चला गया' का विशेषण।

प्रश्न

१ क्रियाविशेषण की परिभाषा लिखो । २ इनके प्रकार उदाहरणसहित लिखो । ३ नीचे लिखे वाक्यों में जो जो क्रियाविशेषण हैं उनकी शब्द-निरुक्ति करो:—

तुम वहाँ कब जाओगे । मैं इस काम को क्यों न करूँ । थोड़ी देर ठहर जाओ तब जाना । वे वहाँ बहुत जाते हैं । वह बड़ी चतुराई से कार्य करता है । देवदत्त अच्छा लिखता है । जिनके हाँ जाये उसी के हाँ भोजन करना । तुम अवश्य घर जाओ ।

सम्बन्धवाचक * अव्यय (Prepositions)

जो शब्द सज्ञा या सर्वनाम से मिल कर उनका सम्बन्ध वाच्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं उनको सम्बन्धवाचक अव्यय (Post-position) कहते हैं। जैसे बिना, समेत, आगे, पीछे, बाहर, भीतर आदि।

इन शब्दों की शब्दनिहित करने में उस संज्ञा या सर्वनाम को भी प्रताना उचित है जिसके वह साथ रहता है जैसे 'मैं राम से पहिले घर आया' में पहिले सम्बन्धवाचक, राम का सम्बन्धवाचक है।

प्रश्न

नीचे के वाक्यों में जो जो सम्बन्धवाचक शब्द हैं उनकी शब्दनिहित लिखो:—

मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ नहीं कह सकता। जब राम उसके पास गया तो वह कुर्ची के ऊपर बैठा था। गङ्गा बनारस के भीतर होकर गई है। आपके बिना मुझे कौन बचायेगा।

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunctions)

जो शब्द दो पदों, वाक्यों, या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे समुच्चयबोधक (Conjunctions) कहलाते हैं जैसे राम और लक्ष्मण वन को गये।

नोट—यहूत से शब्द क्रियाविशेषण और सम्बन्धवाचक दोनों हैं। वे आशय से पहिचाने जाते हैं जैसे 'मैं पीछे आया' में पीछे क्रियाविशेषण है। परन्तु 'यह उसके पीछे आरहा है' में पीछे सम्बन्धवाचक शब्द है।

यह शब्द केवल समान शब्दों को जोड़ते हैं। संज्ञा को संज्ञा या सर्वनाम से, विशेषण को विशेषण से, क्रिया को क्रिया से, वाक्य को वाक्य से।

‘राम और आता है’ अशुद्ध है क्योंकि ‘राम’ संज्ञा है और ‘आता है’ क्रिया है। इसलिए ये शब्द ‘और’ से नहीं जुड़ सकते ‘राम और लक्ष्मण’ शुद्ध है क्योंकि ‘राम और ‘लक्ष्मण’ दोनों संज्ञा शब्द हैं।

ऐसे शब्दों की शब्दनिरुक्ति करने में उन शब्दों को भी बताना चाहिए जिनको वे जोड़ते हैं जैसे ‘राम और लक्ष्मण आये’ में और समुच्चयवाचक, राम और लक्ष्मण को जोड़ता है।

पाठ २०

विस्मयादिवोधक अव्यय (Interjections)

विस्मयादिवोधक वह शब्द हैं जिनसे विस्मय आदि भावों का बोध हो। ये कई प्रकार के हैं।

- (१) हर्षबोधक—जैसे धन्य धन्य
- (२) क्लेशबोधक—जैसे हाय हाय
- (३) घृणाबोधक—जैसे धिक धिक्, छो छो
- (४) आश्चर्यबोधक—जैसे ओहो।

प्रश्न

निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्येक की शब्दनिरुक्ति लिखो:—

मोहन मरही चला था। मुझे संसार में दुःख ही भोगना पड़ा। यह अशान्ति किसके स्त्रि मद्दे जाय। सदाचारी रहना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य

है। चन्द्रावती फूलों से खेल रही है। धिक् धिक् ऐसा काम करते हो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। बच्चों को बुरे कर्म करने पर ताड़ना चाहिए। पराधीन सपने सुख नहीं। सांच बराबर तप नहीं मूठ बराबर पाप। खेती करना अत्युत्तम कार्य है। पशुओं को कभा न सताओ। तमाकू पीन से बुद्धि मलिन हो जाती है। हवन करने से वायु शुद्ध होता है। कौशिक करने से यदि धन प्राप्त न हो तो अपना अपमान कभी न करे। ईश्वर बड़ा दयालु है उसके ऊपर भरोसा करो। क्या जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारा पालन न करेगा ?

पाठ २१

वाक्यविभाग (Syntax)

वाक्यविभाग (Syntax) में शब्दों को जोड़ कर वाक्य बनाने का विधान है।

वाक्यविभाग-सम्बन्धी नियम दो प्रकार के हैं:—

(१) मेल (Concord) जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि कौन शब्द लिङ्ग, पुरुष, वचन आदि में किसके समान होता है।

हिन्दी में क्रिया का कर्त्ता के साथ, क्रिया का कर्म के साथ, संज्ञा का सर्वनाम के साथ, विशेषण का विशेष्य के साथ अन्वय होता है।

(२) क्रम (Order) जिसमें एक शब्द का वाक्य में स्थान नियत किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है एक साधारण (Grammatical) जिसमें शब्दों के साधारणतया रहाने के नियम दिये हुए हैं।

दूसरा असाधारण (Rhetorical) जिसमें साधारण क्रम को पलट कर वाक्यार्थ में कुछ विशेषता कर देते हैं। छन्द बनाने में प्रायः यही क्रम आता है।

कर्ता, क्रिया तथा कर्म और क्रिया का अन्वय।

मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ।

मैं आता हूँ।

वे आते हे।

तू आता है।

मोहन मारा जाता है।

नियम १, जब कर्तृकारक का चिह्न 'ने' उसके साथ नहीं होता तो क्रिया का लिङ्ग, पुरुष और वचन कर्ता के लिङ्ग, पुरुष और वचन के अनुसार होता है। परन्तु आदर के लिए क्रिया बहुवचन में लाते हैं जैसे गुरुजी आये।

उन्होंने किताब पढ़ी।

मैंने पत्र लिखा।

उसने मैं मारी हूँ।

नियम २, जब कर्तृकारक के साथ उसका चिह्न 'ने' लाते हैं और कर्म के साथ उसका चिह्न 'को' नहीं होता तो क्रिया का लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्म के लिङ्ग, वचन और पुरुष के समान होता है।

मैंने किताब को पढ़ा।

उसने मुझको मारा।

नियम ३, जब कर्तृकारक का चिह्न 'ने' और कर्म का चिह्न 'को' उपस्थित हों तो क्रिया एकवचन, पुलिङ्ग, अन्य पुरुष में होती है।

मैं काम करता था ।
वे पुस्तक पढ़ते हैं ।
राम पत्र लिखेगा ।

नियम ४, अपूर्णभूत, हेतुहेतुमद्भूत, वर्तमान, भविष्यत् कालों में क्रिया का लिङ्ग, वचन आदि कर्तृकारक के ही अशून्य होता है ।

राम पढ़ता था
राम और लक्ष्मण पढ़ते थे

नियम ५, जब कर्तृकारक एक से अधिक एकवचन शब्द 'और' से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन में आती है ।

न राम पढ़ता है न लक्ष्मण
न मोहन सोता है न सोहन
मोहन या सोहन आता है

नियम ६, परन्तु जब एक से अधिक कर्तृकारक एकवचन शब्द 'न' से या 'या' से जुड़े हों तो क्रिया एकवचन में होती है ।

राम आयेगा और खाना आयेगा
मोहन न पढ़ता है न लिखता है

नियम ७, जब एक कर्ता की एक से अधिक क्रियाएँ हों तो कर्ता को एक बार ही लाते हैं ।

हम तुम और मोहन चलेंगे

मोहन और तुम चलोगे

हम और मोहन चलेंगे

यदि कोई तीनों पुरुष के कर्त्ता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष में
आए लक्ष्य और अन्य हों तो मध्यम में, यदि उत्तम और
मध्यम लक्ष्य में।

भेद्य, भेदक का मेल

उसकी घोड़ी, उसके घोड़े, उसकी घोड़ियाँ।
भेदक का विह्व उसी लिङ्ग, वचन में होता है जो भेद्य
और वचन है।

संज्ञा सर्वनाम का

जिसके तुमने बुलाया वही आई, जिसके
जिसको तुमने बुलाया वही आई,

छोटे लड़के लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ लड़के ।

नियम १२, यदि विशेषण एक और विशेष्य कई हों तो विशेषण का लिङ्ग, वचन, समीपवर्ती विशेष्य के समान होता है ।

क्रमसम्बन्धी नियम

वाक्य में दो भाग होते हैं ।

(१) उद्देश्य (Subject) जिसके विषय में कुछ कहा जाय (२)

विधेय (Predicate) जो कुछ उद्देश्य के विषय में कहा जाय । 'मोहन घर को जाता है' में 'मोहन' उद्देश्य और घर को जाता है

विधेय है ।

नियम १३, उद्देश्य सदा विधेय से पहले आता है ।

नियम १४, क्रिया सदा वाक्य के अन्त में आती है ।

नियम १५, कर्म, करण, सम्प्रदान, प्रपादान, अधिकरण, क्रिया-विशेषण प्रायः उद्देश्य और क्रिया के मध्य में आते हैं ।

नियम १६, संज्ञा के विशेषण, और भेदक को (यदि वह संज्ञा भेद्य हो) संज्ञा से पूर्व रखते हैं । जैसे काला घोड़ा, उसका घोड़ा ।

नियम १७, जब भेद्य, घर आदि स्थानवाचक शब्द हों तो प्रायः भेद्य का लोप भी हो जाता है । जैसे 'हम राम के गये' पर्याय 'हम राम के घर गये' ।

(३) पद जैसे 'सब मनुष्यों के घर की बात कही जा रही है' ।

विधेय के कई भाग होते हैं परन्तु विधेय में क्रिया का होना अत्यावश्यक है, चाहे प्रकट हो चाहे लुप्त । यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसका कर्म अवश्य होता है ।

निम्नलिखित शब्द कर्म (Object) हो सकते हैं ।

(१) संज्ञा जैसे 'उसने मोहन को मारा' ।

(२) सर्वनाम जैसे 'उसने तुमको मारा' ।

(३) विशेषण जैसे 'उने बुरों को मारा' ।

(४) क्रिया का सामान्य रूप जैसे 'वह सोना नहीं चाहता' ।

(५) पद जैसे 'इसने मेज़ के ऊपर की पुस्तक उठाली' ।

क्रिया विशेषण (Adverbial Adjunct) निम्नलिखित शब्द हो सकते हैं ।

(१) क्रियाविशेषण जैसे 'वह झट चला गया' ।

(२) करण, अपादान, सम्प्रदान, अधिकरण, कारक जैसे उसने मेज़ पर मेरे लिए हाथ से पुस्तक लेकर संदूक में रख दी ।

यदि क्रिया से उसका आशय पूरा न हो तो उसके साथ सहायक (Complement) शब्द भी आते हैं जैसे 'वह मनुष्य है' में 'मनुष्य' सहायक शब्द है ।

कुछ वाक्यों का विग्रह नीचे लिखा जाता है ।

१ देवदत्त ने कल मोहन को छड़ी से मारा ।

२ उसका पिता बड़ा आदमी है ।

३ कारण कवन नाथ मोह मारा ।

उद्देश्य		विधेय			
कर्तृ कारक	कर्तृ विशेषण	क्रिया	कर्म	सहायक शब्द	क्रिया-विशेषण
१ देवदत्त ने	...	मारा	मोहन को	...	छड़ी से
२ पिता	उसका	है	...	बड़ा आदमी	...
३ नाथ	..	मारा	मोहि	...	कवनकारण

प्रश्न

नीचे के वाक्यों का विग्रह करो:—

१ तुम क्या लिख रहे हो । २ मैं कई दिन से बीमार था । मैं बाजार से एक पुस्तक खरीदना चाहता हूँ । ४ दुःख में केवल ईश्वर ही सहायता करता है । ५ ऋषि लोग वेदमन्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं । ६ भारतवर्ष में आज कल अकाल पड़ रहा है । ७ धर्मात्मा लोगों को कभी दुःख नहीं होता । ८ सत्य के पालन में सदा तत्पर रहो । ९ मनु-मृति में प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य का विधान है ।

२३ पाठ

मिश्रित वाक्य (Complex Sentence).

मिश्रित वाक्य वह है जो कई वाक्यों से मिल कर बना हो ।

मिश्रित वाक्यों में दो प्रकार के वाक्य होते हैं:—

(१) प्रधान वाक्य (Principal Clause) वह है जिसका आशय स्वयं ही पूरा हो जाय ।

आधीन वाक्य (Subordinate Clause) वह है जो किसी

अन्य वाक्य से मिलकर ही पूरा आश्रय दे सके।

‘वह आदमी जिससे तुम कल बातें कर रहे थे आज मर गया’ इस वाक्य में, ‘वह आदमी आज मर गया’ स्वतन्त्र वाक्य और “जिससे तुम कल बातें कर रहे थे” आश्रित वाक्य है।

अधीन वाक्य तीन प्रकार के हैं।

(१) संज्ञावाक्य (Noun Clause) जो संज्ञा की भाँति किसी क्रिया का कर्त्ता, कर्म, आदि हो। जैसे “मैं कहता हूँ कि तुम बुरे आदमी हो” में ‘तुम बुरे आदमी हो’ ‘कहता हूँ’ क्रिया का कर्म है। इसको संज्ञा वाक्य कहेंगे।

(२) विशेषण वाक्य (Adjectival Clause) वह है जो किसी संज्ञा में विशेषण करे। जैसे ‘वह किताब जो कल तुमने खरीदी थी खो गई’ में ‘जो कल तुमने खरीदी थी’ ‘किताब’ का विशेषण होने से विशेषण वाक्य है।

(३) क्रियाविशेषण वाक्य (Adverbial Clause) वह है जो क्रिया के अर्थों में कुछ विज्ञापना करे या उसके व्यापार का समय स्थान आदि बताये, जैसे “मैं वहाँ गया था जहाँ तुम गये थे” में ‘जहाँ तुम गये थे’ स्थानबोधक होने से क्रिया विशेषण वाक्य है।

मिश्रित वाक्यों के विग्रह करने में प्रधान वाक्यों को बना के फिर उनके, अधीन वाक्यों को क्रमशः बताना चाहिए और हर वाक्य का विग्रह कर देना चाहिए।

(१) ‘जो मकान तुमने मुझे दिया था उसमें आज कल डिप्टी साहिब रहते हैं,’ यह मिश्रित वाक्य है।

(२) मैं आया और किताब पढ़ी—मिश्रित वाक्य।

(३) जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।

मैं बैरी डूँढन गई रही किनारे वैठ—मिश्रित वाक्य।

(४) यहाँ हरी निशिचर वैदेही।

खोजत विग्र फिर हम तेही। मिश्रित वाक्य।

वाक्य	प्रकार	कर्म	उद्देश्य	विधेय		
				कृती	कृतृविशेषण	क्रिया
(१) (अ) उस में आज कल डिप्टी साहिब रहते हैं	प्रधान वाक्य	डिप्टी साहिब	...	रहते हैं
(२) जो मरान तुमने मुझे दिया था	विशेषण वाक्य (अ) वाक्य के प्रधान	तुमने	...	दिया था जोमकान
						क्रियाविशेषण
						(१) उसमें
						(२) आजकल
						मुझे

वाक्य	प्रकार	संयोजक	उद्देश्य		विधेय				
			कर्त्ता	कर्तृ विशेपण	क्रिया	कर्म	सहायक	विशेषण	
(२) मैं आया (अ) और (मैंने) किताब पढ़ी	प्रधान वाक्य प्रधान वाक्य	... और	मैं मैंने	...	आया पढ़ी
(३) (आ) तिनपहरयाँ (आ) जिन खोजा गहरे पानी पैठ (४) मैं बोरी डूँढन गई (६) (मैं) रही कि- नारे बैठ	प्रधान वाक्य विशेषण वाक्य (अ) के अधीन प्रधान वाक्य प्रधान वाक्य	तिन जिन मैं मैं बारी ...	पाइयाँ खोजा गई बैठ रही गहरे पानी पैठ डूँढने किनारे
(४) (म) यहाँ हरी निशिचर वैदेही (आ) खोजत तिम फिरें हम तेही	प्रधान वाक्य प्रधान वाक्य	निशिचर हम	हरी खोजत फिरें	...	वैदेही तेही	...	यहाँ ...

प्रश्न

निम्नलिखित वाक्यों का विग्रह करो :—

- १—जब तक वे यहाँ न आवें मैं तो न जाऊँगा ।
 - २—किसने कहा कि कलकूर साहिब आ रहे हैं ।
 - ३—जो बात कही जाय उसको मानो ।
 - ४—जब जब मैं बरसता है तब तब मैं उक बोलते हैं ।
 - ५—मैं नहीं समझता कि तुम क्या कहते हो ।
 - ६—नगरवासियों से कह दो कि कलकूर पर मेला होगा ।
 - ७—जो भले हैं वह दीनों पर दया करते हैं ।
 - ८—ज्योंही राजा दशरथ ने कहा राम वन को चल दिया ।
 - ९—यदि पाठ याद न होगा तो दण्ड मिलेगा ।
 - १०—जो जागे सो पावे ।
 - ११—जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप ।
- यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों से पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा के मत न था ।

जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कहलाता है ।

ईश्वर ही जगत् को रचता, पालता और विनाश करता है । सूर्य, और तारागण ईश्वर की महती शक्ति का प्रतिपादन करते हैं ।

तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानना । जो लोग विद्वान् हैं वे सर्वदा आनन्दरुक् रहते और ईश्वर को प्राप्त करने

शब्दरचना (Word Building.)

अब कुछ शब्द बनाने के कुछ नियम दिये जाते हैं।

(१) कृदन्त

कृदन्त वे संज्ञा शब्द हैं जो धातु के अन्त में किसी अक्षर के जोड़ने से बनते हैं।

कृदन्त पाँच प्रकार के हैं।

(अ) कर्तृवाचक, जिससे कर्त्तापन का बोध हो। क्रिया के चिह्न 'ना' को 'ने' करके आगे 'वाला' या 'हारा' लगा दो। या 'ना' का लोप करके उसके आगे 'क', 'इया' या 'वैया' लगा दो तो कर्तृवाचक शब्द बन जायँगे।

जैसे करने हारा, गानेवाला, खिवैया, पूजक आदि।

(ब) कर्मवाचक, जिनसे कर्मपन पाया जाय—और यह सकर्मक क्रिया के सामान्यभूत क्रिया के आगे 'हुआ' या 'हुई' लगा देने से बनते हैं।

(इ) करणवाचक, जिनसे करणत्व पाया जाय। यह 'ना' को 'नी' कर देने से बनती है। जैसे 'कनरनी'।

(ई) भाववाचक, जिससे भाव पाया जाय। क्रिया के चिह्न 'न' को दूर कर दो या 'ना' को न, करदो या 'ना' दूर करके आई, लाई, हट आदि लगा दो।

जैसे लेनदेन, मारपीट, बुझाई, सिलाई, थिलथिलाहट।

(३) क्रियाद्योनक—हेतुहेतुमद्भूत जैसा रूप इसका भी बनता है। कभी 'हुआ' और जोड़ देते हैं।

जैसे करता हुआ, मारता मारता इत्यादि।

(२) तद्धित

संज्ञाओं से बने हुए शब्द तद्धित कहलाते हैं। यह भी पाँच प्रकार के हैं।

(१) अपत्यवाचक, जिससे सन्तानत्व पाया जाय। इसके बनाने की रीति यह है कि कहीं शब्द के पहले अक्षर की वृद्धि कर देते हैं अर्थात् 'अ' का 'आ', 'इ' का 'ऐ', 'उ' का 'औ', 'ऋ' का 'आर', कर देते हैं। जैसे 'संसार' से 'सांसारिक' 'शिव' से 'शैव' 'ऊर्मिला' से 'पौर्मिलेय', कभी अंत में ई या इक लगा देते हैं। जैसे 'रामानन्द' से 'रामानन्दी' इत्यादि।

(२) कर्तृवाचक। यह 'वाला' या 'हारा' लगाने से बनता है। जैसे मिहोवाला, लड़कहारा।

(३) भाववाचक। जो ता, त्व, आई आदि लगाने से बनता है जैसे मूर्खता, मनुष्यत्व, चतुराई।

(४) गुणवाचक। जो मान, वान, दाई, दायक लगाने से बनता है। जैसे बुद्धिमान्, बलवान्, दुःखदाई, लाभदायक।

(५) ऊनवाचक जिससे लघुत्व पाया जाय। यह शब्द 'आ' 'ई' 'इया' लगा देने से बनते हैं। जैसे अट्टिया प्रादि।

(३) समास

जहाँ विभक्तियों का लोप होकर कई पदों का एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। समास छः प्रकार के हैं।

इनके अतिरिक्त और भी नियम हैं जो इस छोटी सी पुस्तक में दिये नहीं जा सकते ।

पाठ २७

उपसर्ग और प्रत्यय

उपसर्ग (Prefixes) वे शब्द हैं जो अकेले तो कुछ अर्थ नहीं देते परन्तु अगर उनको किसी क्रिया या दूसरे शब्द के पहले जोड़ दिया जाय तो उस शब्द में कुछ अर्थ-भेद कर देते हैं । जैसे अनु + चर = अनुचर ।

मुख्य मुख्य उपसर्ग नीचे लिखे जाते हैं:—

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ	निषेध	अपवित्र
अति	आधिक्य	अत्युक्ति
अधि	प्रधानत्व	अधिकार
अन	निषेध	अनहानी
अनु	पश्चात्	अनुचर
”	सादृश्य	अनुमान
अप	हीनता	अपयश
अव	”	अवगुण
अभि	समीपता	अभिगमन
आ	विरोध	आदान
”	ग्रहण	आदेश
इत्	उच्चता	उत्पत्ति

उप	निकटना	उपवन
कु	बुराई	कुपुत्र
क	"	कपूत
दुस्	"	दुर्जन
नि	निषेध	निवारण
निस्	"	निर्जीव
परा	"	पराजय
परि	आधिच्य	परिपूर्ण
प्र	अतिशय	प्रणाम
प्रति	प्रत्येकता, विरोध	प्रतिवर्ष, प्रतिवादी
वि	हीनता	वियोग
स	संयोग	सपत्नोरु
सम्	"	सम्बन्ध
सु	उत्तमता	सुपुत्र

प्रत्यय (Suffixes) वे शब्द हैं जो अकेले तो कुछ अर्थ नहीं देते परन्तु किसी अन्य शब्द के पीछे मिलकर अर्थभेद कर देते हैं। प्रत्यय खास कर तीन बातों के लिए आते हैं:—

- (१) स्त्री प्रत्यय जैसे 'अ' अज से अजा
 'इ' देव से देवी
 'तिः' युवा से युवतिः
- (२) तद्धित प्रत्यय जैसे 'त्वं' मनुष्य से मनुष्यत्वं
 'ई' भला से भलाई
- (३) कृदन्त प्रत्यय जैसे 'क' पूजना से पूजक

उपसर्ग और प्रत्ययों का वर्णन कृदन्त और तद्धित के साथ कर दिया गया है। बहुत से प्रत्यय अन्य स्थानों पर आ गये हैं।

गणों की गिनती कभी मात्रा और कभी वर्ण की अपेक्षा से की जाती है ।

वर्ण की अपेक्षा गण ८ हैं—

(१) भगण	५११	अर्थात् पहला गुरु और शेष लघु
(२) जगण	१५१	„ बीच का गुरु „ „ „
(३) सगण	११५	„ अन्त का गुरु „ „ „
(४) यगण	१५५	„ पहला लघु और शेष गुरु
(५) रगण	५१५	„ बीच का लघु „ „ „
(६) तगण	५५१	„ अन्त का लघु „ „ „
(७) मगण	५५५	„ तीनों गुरु
(८) नगण	१११	„ तीनों लघु

मात्रा की अपेक्षा गण ५ हैं—

(१) टगण	अर्थात्	छः मात्राओं वाला	५५५
(२) ठ	„	पाँच „ „	५५१
(३) ड	„	चार „ „	५५
(४) ढ	„	तीन „ „	५१
(५) ण	„	दो „ „	५

हिन्दी भाषा के छन्द बहुत प्रकार के होते हैं परन्तु यहाँ हम ५ मुख्य मुख्य छन्दों का वर्णन करते हैं जो प्रायः सरल पुस्तकों में मिलते हैं ।

(१) चौपाई जिसके हर एक चरण में सोलह मात्राएँ हैं
जैसे—

यदपि नाथ अवगुण बहु मोरे । सेवक प्रमुहि परै जनु भोरे ॥
नाथ जीव तव माया मोह । सो निस्तरै तुम्हारे छोह ॥

(२) दोहा जिसके चारों पादों में क्रमशः १३, ११, १३, ११ मात्रायें हों । जैसे—

यही आस अटक्यो रह्यो , अलि गुलाब के मूल ।
ये हैं बहुरि वसन्त ऋतु , इन डारन वै फूल ॥

(३) सोरठा जिसके चारों पादों में क्रमशः ११, १३, ११, १३ मात्रायें हों जैसे—

नाचहिं गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब ।
देखत अति विपरीत, बोलहिं वचन विचित्र विधि ॥

(४) कुंडलिया जिसके पहले दोहा हो फिर आठ चरण क्रमशः ११, १३, ११, १३, ११, १३, ११, १३, मात्राओं के हो । इस तरह कुंडलिया में कुल १४४ मात्रायें और १२ चरण होते हैं । चौथा और पाँचवाँ चरण एक ही होता है । जैसे—

टूटे नख रद केहरी वह बल गयो थकाय,
आह जरा अब आइके यह दुख दयो बढ़ाय,
यह दुख दयो बढ़ाय चहूँ दिश जंबुक गाजें,
शशक लोमरी आदि स्वतंत्र करेँ सब राजें,
वरने दीनदयाल हरिन बिहरेँ सुख लूटे,
पंगु भये मृगराज आज नखरद के टूटे ॥

(५) छन्द जिसके हर एक चरण में २८ मात्रायें हों । जैसे—
प्रभु सकल कलिमलहरण संशय शोक मोह नशावनी ।
कहि दास चेरे भजन विन पावे न गति अनपावनी ।
प्रस जानि जिय फोऊ चतुर जग मोह माया त्यागइ
भनसिन्धु तरि क्षण माहिं ते रघुशेर पर अनुगमरी ।

किसी किसी छन्द में ३२ या न्यूनाधिक मात्राये भी होती है। वर्णों के हिसाब से भी छन्दों की बहुत सी क्रिमें हैं परन्तु उनका यहाँ विधान नहीं किया गया।

पाठ ३०

तत्सम और तद्भव शब्द ।

हिन्दी भाषा में प्रायः तीन प्रकार के शब्द प्रचलित हैं:—

(१) तत्सम अर्थात् वे संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यो हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मनुष्य ।

(२) तद्भव अर्थात् वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विर. कर बने हैं। जैसे मेल, बच्चा । हिन्दी भाषा के सब क्रिया-शब्द तद्भव हैं।

(३) विदेशी अर्थात् अरबी, फ़ारसी, अँगरेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे गु. गन्, बोतल, कलम, तक़दीर इत्यादि ।

थोड़े से तद्भव शब्द उनके शुद्ध संस्कृत रूप के साथ नी. दिये जाते हैं ।

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंग	शुद्ध संस्कृत
अज्ञान	अज्ञ	आठ	अष्ट
अंधा	अंध	आज	अद्य
अनाड़ी	अनार्य	आधा	अर्ध
अजस	अजस	आस	आशा
अछत	अक्षत	आसरा	आश्रय
आग	अग्नि	आम	आम्र

सत्य-ग्रंथ-माला, संख्या ८

मेरी कैलाश-यात्रा

सत्यदेव

विन्वतियों की घाटी मुनिष



राजस्थान की मुनिष

की मुनिष



विमानचल पर चरिष

किसी किसी छन्द
वर्णों के हिसाब से भी
यहाँ विधान नहीं किया

तत्सम

हिन्दी भाषा में प्रायः

(१) तत्सम शब्द

में प्रयुक्त होते हैं। जैसे

(२) तद्भव शब्द
कर बने हैं। जैसे माल,
तद्भव हैं।

(३) विदेशी शब्द

भाषाओं के शब्द जैसे

थोड़े से तद्भव शब्द
दिये जाते हैं।

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
अज्ञान	अज्ञ
अंधा	अंध
अनाड़ी	अनार्य
अजस	अयश
अछत	अक्षत
आग	अग्नि

मेरी कैलाश-यात्रा

लेखक और प्रकाशक

स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

रचयिता

“शिक्षा का आदर्श,” “अमरीका-भ्रमण,” “सत्य-निबन्धा
वली,” “मनुष्य के अधिकार,” “राजर्षि
भीष्म,” “अमरीका-पथ-प्रदर्शक,” और
“अमरीका-दिग्दर्शन” इत्यादि

प० श्रीह्वारनाथ वाजपेयी के प्रबन्ध से शोकार प्र स, प्रयाग में छपी ।

संवत् १९७२

All Rights Reserved.

प्रथम बार

४०००

यह पुस्तक सत्य-धर्म-मार्ग
आफिस प्रयाग से मिल
सकती है।

नव

वाक पत्र

समर्पण

—:०:—

श्री कैलाशजी के कठिन धाम की यात्रा
करने में जिन सहृदय प्रेमी सज्जनों
ने मेरी सहायता की है उनके
करकमलों में यह ग्रन्थ
सादर समर्पित
करता हूँ ।

सत्यदेव

पुस्तक-परिचय

भारत की शिक्षा-प्रणाली ऐसी भद्दी है कि हम दस दस बारह बारह वर्ष स्कूल कालेजों में पढ़ चुकने पर भी अपने प्यारे देश तथा उसके पड़ोसियों के विषय में कुछ नहीं जानते। तिव्वत, जहां किसी काल में भारतीय सभ्यता जोरों पर थी और जहाँ हमारे पुनीत तीर्थ स्थान हैं, इस समय हमारे लिये रहस्य पूर्ण देश हो गया है। संसार के पर्वत शिरोमणि हिमालय के विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं यद्यपि हम उसकी प्रशंसा के गीत नित्य गाया करते हैं।

मेरी बहुत वर्षों से हिमालय लांघने की इच्छा थी किन्तु अमरीका जाने की धुन ने उसे दबाए रक्खा। जिन दिनों मैं अमरीका में था उस समय एक प्रसिद्ध योरपीय वैज्ञानिक की तिव्वत-अन्वेषण सम्वन्धी सचित्र लेखमाला—“दी सेञ्चरी” नामक मासिक पत्रिका में निकली थी। उसलेखमाला में “श्री-कैलाश” तथा “मानसरोवर” का सचित्र वर्णन पढ़ मेरी पुगनी इच्छा बलवती हो उठी। मैंने प्रण किया कि भारत जा कर अपने तिव्वत स्थित जगत प्रसिद्ध तीर्थों की यात्रा करूंगा।

१४ जून १९१५ को रात के दो बजे किसी दैवी शक्ति ने मुझे मेरे पुराने सङ्कल्प का स्मरण दिला कर मुझे तिव्वत जाने की प्रेरणा की। मैंने उसही आज्ञा को निरोधार्य किया और १६ जून बुद्धवार को अपने रुठिन व्रतपालनार्थ अल्मोड़ा से तिव्वत की ओर चल पड़ा।

उसी तीर्थ-यात्रा का वर्णन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक एक उच्च उद्देश्य को सामने रखकर लिखी गई है। आजकल के भयानक समय में कोई भारतपुत्र अपने हृदयङ्गम भावों को सत्य और स्पष्ट लिख ही कैसे सकता है। कुछ ही हो ईश्वरीय इच्छा के सामने मनुष्य बेचारा क्या वस्तु है। परमात्माने भारतोत्थान का दृढ़ निश्चय कर अपने विद्युत्प्रवाह का सम्बन्ध हिमालय की गगनारोही चोटियों के साथ कर लिया है। वहाँ उस बेतार तार के ऊंचे स्तूप गड़े हैं। इस मेरी "कैलाश-यात्रा" के द्वारा मैंने भारत-सन्तान को उन स्तूपों तक पहुंचाने की चेष्टा की है ताकि दैवी सन्देश की तरंगे उनके अन्दर प्रवेश कर सकें। मैंने यह सब उसी परब्रह्म की आज्ञा से किया है। जो कुछ त्रुटियां लेखन शैली में रह गई हैं वे दूसरे संस्करण में ठीक कर दी जायेंगी।

प्यारे पाठक ! यह पुस्तक मेरी इच्छानुकूल नहीं छपी। इसमें कई एक दोष रह गये हैं। आशा है कि आप उन दोषों की ओर ध्यान न देकर इसके उद्देश्य की ओर ही दृष्टि रखेंगे।

प्रयाग
फाल्गुन कृष्णपक्ष }
१९७२

विनीत—
सत्यदेव परिव्राजक

सूचीपत्र



प्रथम खण्ड

पृष्ठ १

प्रारम्भिक बातें—काठगोदाम से अल्मोड़ा—अल्मोड़ा शहर—यात्रा का आरम्भ—वागेश्वर में सरयू नदी का दृश्य—रूपकोट—शामाधुरा—तेजम

द्वितीय खण्ड

२६

जोहार—भाट की सैर—गिरगांव—मन्स्यारी—मीलम—हिमालय का श्वेतभवन—सिंहावलोकन

तृतीय खण्ड

६३

तिब्बत—तिब्बत में प्रवेश—ज्ञानिमा मण्डी—तीर्थपुरी चलते हैं—श्री कैलाशदर्शन—मानसरोवर प्रस्थान—मानसरोवर—मान्धाता पर्वत के पास—तकलाकोट पहुंचते हैं—तकलाकोट—तिब्बत की ओर एक दृष्टि

चतुर्थ खण्ड

११३

भारत में प्रवेश—गव्याङ्ग—बुदि—मालपा—गलागाड़—खेला—धारचूला—बलवाकोट—असकोट—थल—येरी—नाग—भलतोला—अल्मोड़ा



भूल संशोधन

१—पुस्तकारम्भ में भूल से पुस्तक का नाम—

“मेरी मानसरोवर-यात्रा”

ऐसा छप गया है, कृपया उसको—

“मेरी कैलाश-यात्रा”

ऐसा शुद्ध कर लीजिए।

२—पुस्तक में जहाँ-जहाँ ‘भुटिस्’ शब्द का व्यवहार किया गया है वह अशुद्ध है, उसे आप ‘भोटिस्’ अर्थात् ‘भोट के निवासी’ ऐसा शुद्ध कर पढ़िए।

मेरी मानसरोवर-यात्रा ।

प्रथम खण्ड

प्रारम्भिक बातें

हमारे दो बड़े प्रसिद्ध तीर्थ, श्री कैलाश और मानसरोवर, पश्चिमी तिब्बत में हैं। भारतवर्ष के नक्शे को उठाकर देखो-उत्तर में हिमालय लांघकर कश्मीर से आसाम तक एक लम्बा देश फैला हुआ है। यही तिब्बत है। यही है जिसको Mysterious Thibet रहस्यपूर्ण तिब्बत कहते हैं। यद्यपि हमारे पवित्र तीर्थों का वहां होना इस यात का पूर्णतया द्योतक है कि किसी काल में हिन्दू प्रभुता वहाँ पर थी, और हमारे बौद्ध भिक्षु, परावर वहां जाकर धर्मोपदेश किया करते थे। पर इन सब बातों को युग बीत गये। आज तिब्बत सचमुच रहस्यों से पूर्ण है: आज शिचित संसार को उसके विषय में बहुत कम मालूम है।

अच्छा, नक्शा उठाकर देखिये। भारत के कौन कौन से प्रान्त तिब्बत को छूते हैं,—कश्मीर, कांगड़ा, रामपुर, जगहर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नेपाल, शिक्किम, भूटान और आसाम—ये नौ प्रान्त ऐसे हैं जिनका तिब्बत से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से नेपाल, शिक्किम और भूटान, ये तीन तो ऐसी रिश्ते

सतें हैं जिनके विषय में हमारे स्कूलों में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता और हम अपने इन भारतीय अर्थों के विषय में बहुत कम जान सकते हैं। आसाम अति वन्य है। वहां से जो मार्ग तिब्बत को जाता है वह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी द्वारा जाता होगा, और ब्रह्मपुत्र के मार्ग के विषय में संसार के विद्वानों ने अभी कुछ भी नहीं जाना। बाकी जो भाग तिब्बत का है वह पश्चिमी तिब्बत हमारे बाकी पांच प्रदेशों को छूता है। उधर से जिन घाटों द्वारा हमारे व्यापारी तिब्बतियों से तिजारत करते हैं उनके नाम धाम नीचे लिखे जाते हैं:—

पहिला.मार्ग—श्रीनगर (कश्मीर) से सिन्धु नदी की घाटी के रास्ते से होकर गरतोक जाता है। गरतोक तिब्बत में व्यापारी मंडी का स्थान है। श्रीनगर तथा लद्दाख से व्यापारी लोग इसी रास्ते तिब्बत जाते हैं।

दूसरा—कांगड़ा (पंजाब) जिले के लोग लाहौल होकर दमचोक के घाटे से रुदोक जाते हैं।

तीसरा—कल्लु के व्यापारी सपिती होकर शंगरंग घाटे से तिब्बत जाते हैं।

चौथा—रामपुर वशहर तथा शिमले के लोग शिपकी और सिरंग घाटों से तिब्बत पहुंचते हैं। शिपकी १५४०० फीट और शिरंग १६४०० फीट की ऊंचाई के घाटे हैं।

पांचवां—मसूरी (देहरादून) से एक रास्ता टिहरी होकर गंगोत्री की खबर लेता हुआ लिलांग घाटा पार कर तिब्बत ले जाता है। श्री गंगाजी के दृश्य इधर खूब देखने में आते हैं।

छठा—गढ़वालवाले माना (१७२६० फीट) और नेती

(१६६२२ फीट) इन दो घाटों द्वारा अपना माल तिब्बत ले जाते हैं। इनके बीच में कमेट नामी चोटी २५४४३ फीट ऊंची आकाश से बातें करती है। मानावाला रास्ता श्री केदारनाथ जी के पास से गुजरना है और नेतोवाला रास्ता श्री बद्रीनाथ होकर दाया [तिब्बत] जाता है। मैदान से जानेवाले बन्धु कोटद्वार तक रेल में जाकर आगे इस मार्ग को पकड़ सकते हैं; या ऋषि कश होकर लक्ष्मणभूले से बद्रीनारायणजी वाली सड़क द्वारा जा सकते हैं।

सातवां—जोहार (अरमोड़ा) वाले मीलम से चलते हैं। सामने हिमालय की तीन ऊंची दीवारें हैं। पहली ऊंटाधुरा की १७५६० फीट ऊंची दीवार है; दूसरी जंती की १७००० फीट ऊंची है; तीसरा सबसे कठिन कुङ्गरी बिहरी का घाटा (दर्रा) है जो १२३०० फीट ऊंचा है। इन तीनों बर्फानी पहाड़ों को पारकर तिब्बत पहुँचते हैं। मैं इसी विकट मार्ग से गया था। श्री कैलाश जी की सीधी परिक्रमा का यही मार्ग है।

आठवां—दारमा (अरमोड़ा) के लोगों का रास्ता दारमा घाटा होकर जाता है। ये लोग भी ग्यानिमा मगड़ी (तिब्बत) जाते हैं।

नवां—ग्याना (अरमोड़ा) के लोग लक्ष्मीनेत्र नामी घाटे से ग्यानिमा पहुंचने हैं।

दसवां—चोन्द्रास (अरमोड़ा) निवाली लीपूघाटे से (१६७२० फीट) तबलाहोट तिब्बती मगड़ी में पहुँचने हैं। मैं रानी रास्ते से वापिस आया था। यात्री कैलाश जी से इन्हीं रास्ते लौटने हैं।

उपरोक्त दस घाटों में से हमारा सम्बन्ध केवल अरमोड़ा

ज़िले के उन दो घाटों से है जिनका कैलाश और मानसरोवर के मार्ग के साथ सम्बन्ध है ।

पहिला घाटा कुंगरीबिङ्गरी का जोहार होकर जाता है । कैलाश जी जाने का यह मार्ग है; दूसरा है व्यास चौन्दास के रास्ते से लीपूधुरा का मार्ग । इधर से यात्री कैलाश जी से लौटकर भारत आते हैं । यों तो अन्य मार्गों से भी कैलाश दर्शन हो सकता है किन्तु पुरानी प्रधानुसार ठीक परिक्रमा जोहार होकर जाने और व्यास होकर लौटने में ही समझी जाती है ।

इसलिये अपनी यात्रा की कथा आरम्भ करने से पूर्व मुझे अपने अल्मोड़ा से अपरिचित पाठकों को अल्मोड़ा तक पहुंचने के रेल मार्गों का बता देना अस गत न होगा ।

१—दक्षिण और पूरव से आने वाले देश बन्धु अवधरुहेल-खण्ड रेलवे के बरेली जंक्शन से रुहेलखण्ड कमाऊं रेलवे लाइन द्वारा [छोटी लाइन] हलहानी या काठगोदाम पहुंच कर अल्मोड़ा पहाड़ का रास्ता पकड़ सकते हैं; या लखनऊ सिटी स्टेशन से गाड़ी में बैठकर सीतापुर होते हुये, भोजीपुरा से गाड़ी बदल कर, काठगोदाम पहुंच सकते हैं ।

२—पश्चिम से आनेवालों को मुरादाबाद स्टेशन से छोटी लाइन द्वारा काशीपुर होकर रामनगर पहुंचने का सुभीता है। रामनगर पहाड़ की तराई में आखिरी स्टेशन है। यहां से अल्मोड़ा शहर पचास या बावन मील होगा ।

३—जो यात्री अल्मोड़ा शहर नहीं देखना चाहते वे पीली भोत से सीधे तनकपुर पहुंचकर पिठौरागढ़ होते हुये अमकोट जायें । अमकोट से जोहार होकर कैलाश जी को सड़क जाती है ।

मैंने चूँकि अपनी यात्रा का आरंभ अल्मोड़े से किया था इसलिये मैं काठगुदाम के रास्ते को सामने रखकर अपनी यात्रा का वर्णन करता हूँ। पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ें।

काठगोदाम से अल्मोड़ा

धरेलीशहर स्टेशन से काठ गोदाम आनेवाली दो ट्रेनें एक सवेरे सात बजे और दूसरी रात के दस ग्यारह बजे छूटती हैं। पहली दिन के १२ बजे के करीब काठगोदाम पहुंचा देती है और दूसरी सवेरे पांच बजे के करीब। गरीब यात्रियों को धरेली से हलद्वानी का टिकट लेना चाहिए। हलद्वानी से थोड़े सप्ते मिल जाते हैं और श्रीरामचन्द्रजी के मन्दिर में ठहरने का भी सुभीता है। यह मन्दिर स्टेशन के विल्कुल पास ही है। हलद्वानी से काठगोदाम केवल पांच चार मील ही रहजाता है और हलद्वानी आने में रेल के किराए में भी किरफायन पड़ जाती है। हां जो अमीर यात्री हैं, जिनको डांडी या अच्छा घोड़ा दरकार है वे काठगोदाम ही जाकर उतरें; उनको वहां सुभीता रहेगा। जो मस्तराम हैं और पैदल घूमते हैं वे भी हलद्वानी ही उतरें तो अच्छा है।

काठ गोदाम में कभी कभी दुर्दहे लोग यात्रियों को ठगनेवाले मिल जाते हैं। सुस्त और मरा हुआ घोड़ा किसी प्रकार धर उधर दौडाकर भोलें यात्री के गले मड़ देते हैं। उनमें बचना चाहिये। थोड़ेवाले से पहले फ़ैसला करलेना उचित है कि चुन्नी कौन देगा। अल्मोड़ा शहर में सवारी घोडा ले जाने की एक रुपया चुन्नी लगती है और लद्दू असवारी घोड़े पर दोआने। यदि किसी 'भलेमानस' को चुन्नीमाले की दक्षिणा देनी मञ्जूर न हो तो थोड़े को शहर से डेढ़ दो मील रूबर

ही छोड़ देना उचित है। असल में सब से अच्छा पैदल चलना है। जिसको पहाड़ का आनन्द लेना हो उसे केवल असबाव के लिये कुली कर लेना चाहिए। काठगोदाम से अल्मोड़ा तक दो अढ़ाई रुपये में कुली होजाता है। वोभ कुली को दे आप मजे मजे पैदल चलिये, तभी पहाड़ की यात्रा का सुख मिल सकता है।

काठगोदाम से अल्मोड़ा ३७ मील है। रेलवे स्टेशन से दो मील चलकर पहाड़ की चढ़ाई आरम्भ होजाती है। १३ मील की चढ़ाई है इसके बाद उतार शुरू होजाता है। चार मील का उतार है। काठगोदाम से चला हुआ यात्री भीमताल होता हुआ शाम को रामगढ़ पहुंच सकता है। भीमताल काठगोदाम से आठ मील पर है। यहां पर ठहर कर भोजनार्थ जलपान करलेना चाहिए। यहां खाने पीने की चीजें सब मिलती हैं। अच्छा रमणीक स्थान है। रामगढ़ में भी दुकानें हैं; सब खाद्य वस्तु विकती हैं। रामगढ़ में रात को ठहरने के लिए दुकानदारों के पास प्रबन्ध हो सकता है; बंगला भी है; स्कूल में भी योग्य सज्जन ठहर सकते हैं। स्कूल, डाक बंगले से डेढ़ मील नीचे हैं। वहां भी हलवाई की दुकानें हैं। रामगढ़ से सवेरे चलकर शाम को पांच बजे या इससे पहले अल्मोड़ा अच्छी तरह पहुंच सकते हैं। रास्ते में दस मील पर प्यूडा का पड़ाव है। यहां कुछ देर ठहरकर मुस्ताना ठीक होगा। यहां का जल बड़ा गुणकारी है। रामगढ़ से प्यूडा पहुंचने में रास्ता बहुत अच्छा है; सुन्दर सड़क है; दृश्य मनोहर हैं। केवल सवामील की कठिन चढ़ाई है। प्यूडा से आगे पांच मील का उतार है। इसके बाद अल्मोड़ा पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। यहां पर दो पहाड़ी नदियों का संगम है

और पुल बंधा है। अल्मोड़ा की साढ़े चार मील की चढ़ाई चढ़ने पर शहर में पहुंच जाते हैं।

अल्मोड़ा शहर

कूर्माञ्चल की इस पर्वतमाला में अल्मोड़ा सब से बड़ा शहर है। इसकी आवादी दस ग्यारह हजार के लगभग होगी। यहां का जलवायु अति नीरोग है इसलिए भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के लोग यहां आते हैं। खासकर तपेदिक के बीमारोंके लिए तो यहां की आबोहवा अति गुणकारी है। प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से दुखित देशबन्धु यहां आकर लाभ उठाते हैं। जिन भाइयों को अपनी शारीरिक अवस्था सुधारने के निमित्त यहां आना हो वे—

मन्त्री सनातन धर्म सभा

अल्मोड़ा,

अथवा, श्री परमा चौधरी

मल्ली बाज़ार अल्मोड़ा

से पत्रव्यवहार कर पहले स्थानादि किराये का ठीक ठाक करलें। बहुत से भोले भाले बन्धु यहां आकर बुरी तरह ठगे जाते हैं। उनको धूर्त मकानवाले दुगुणे तिगुणे किराए पर मकान देकर पहले किराया वसूल कर लेते हैं पीछे से टूटी फूटी किसी वस्तु की मरम्मत नहीं करते। सारा किराया प्रारम्भ में कभी न देना चाहिए। आधा दे दिया, आधा फिर नहीं देना महीने बाद अच्छी प्रकार मकान के गुण दोष समझकर देना उचित है।

संयुक्त प्रान्त के इस छोटे से शहर में शिक्षा का अधिक प्रचार है। बहुत से प्रेजुपेट, वकील, जज, पेशवा वहां पर

मिलेंगे। कुशाग्रबुद्धि ब्राह्मणों की यहां कमी नहीं। पर मुझे बड़े दुःख और सन्ताप से कहना पड़ता है कि इनकी बुद्धि और शिक्षा सब स्वार्थ में खर्च होती है। नौकरियों के भूखे अपना सर्वस्व इसके लिए हारने को उद्यत हैं। खुशामदी, मक्कार, चुगलखोर, भीरु ऐसे लोगों की यहां भरमार है। पब्लिक कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जो कोई करने को खड़ा हो उसके रास्ते में रोड़े अटकाने को सर्वदा उद्यत हैं; उसकी बुरी से बुरी शिकायतें अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने में कभी नहीं चूकते।

इन शिक्षित—परन्तु अशिक्षितों से भी बदतर—लोगों की कृपा से यहां ईसाइयों का बड़ा जोर है। यहां के लोग स्वत्वाभिमान से ऐसे हीन हैं कि अपना निज का जातीय हाई स्कूल व कालेज न बनाकर ईसाइयों के कालेज के लिये हजारों रुपये का चन्दा देने को उद्यत हैं। अपना एक छोटा सा स्कूल है। उसकी सहायता करने में सैकड़ों वहाने बनाते हैं पर ईसाइयों की सहायता के लिये भूट रुपया जेब से निकालने को तैयार हो जाते हैं।

अल्मोड़े को अपनी इस पतितावस्था में थोड़ी बहुत आशा अपने नवयुवकों से है। पिछले पांच चार वर्षों से कुछ सुधार के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। यद्यपि नौकरी की कीच में फंसे हुये गुड्डे नवयुवकों को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं तो भी समय की जागृति के सामने इनकी कुछ पेश नहीं जाती। समय अपना प्रभाव इस संकुचित हृदयवाले नगर पर भी डाल रहा है। भूटे आडम्बरों की नसें धीरे-धीरे ढीली हो रही हैं। नवयुवकों के उत्साह से यहां एक हिन्दी पुस्तकालय है जिसकी

संचालक 'शुद्ध साहित्य समिति' है यदि यहां के स्वयंभू नेता आपस का ईर्ष्या द्वेष छोड़ कर नवयुवकों की सहायता करें तो इस शहर में बहुत शीघ्र जाग्रति हो सकती है पर उनको अपनी छूठी जोड़ तोड़ लगाने से फुगसत मिले तब न ।

* * * * *

इस अलमोड़ा पर्वत पर मैं तीन वर्ष से आता हूं। पहले दो वर्षों में व्याख्यानों में फसा रहने के कारण मैं कहीं जा आ न सका। इस वर्ष जून १९१५ में मैंने अपने कैलाश दर्शनके पुराने संकल्प को पूरा करने का विचार किया। कोई खास तैयारी तो इसके लिये कर नहीं सका। थोड़ा सा सामान साथ लेकर अपनी इस विकट यात्रा को पूरा करने के लिये निकला।

पाठक महोदय ! आइये आपको इस यात्रा का मज़ा चखावे ।

यात्रा का प्रारम्भ

१५ जूनको चलने का विचार था परन्तु तैयारी में कसर रह गयी, इसलिये रुक जाना पडा। बुधवार १६ जूनको सवेरे चार बजे उठा। आकाश मेघों से अच्छादित था। शौचा दिसे निवृत्त होकर सामान बाँधा। दो स्वेटर, एक सिर कान ढँकने का ऊनी टोप, दो गंजी, मृग चर्म, दो ऊनी हलकी चदरें, एक बिल्लाने का कम्मल, गीता की पुस्तक, डायरी, दो पहनने की रेशमी चदरें, तीन कौपीन, चार रुमाल, एक नौलिया, चन्दन की माला, १७ रुपये, दो रुपये की दो अन्नो अन्नो इतना सामान तथा हाथ में कमंडलु, दाना और लट्टू लेकर मैं तैयार हो गया। अलमोड़े में मेरा स्थान शहर से दो मील के फासले

*मिथिल में अंगरेजी नोट और गिन्नी नहीं चलती। केवल रुपये दोसबों, चोपनी आदि चलते हैं। लेखक।

पर है। इसलिये दो तीन सज्जन जो मुझे पहुंचाने के लिये शहर से आने वाले थे उनकी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। साढ़े पांच बजे के करीब वे महाशय आ गये। एकने मेरा बोझा उठा लिया। परमात्मा का नाम लेकर मैं यात्राके लिये निकला।

अल्मोड़े से क्लैलाश की ओर जानेमें पहले वागेश्वर आता है और वागेश्वर अल्मोड़े से २६ मील की दूरी पर है। तीन मील तक तो हम लोग पांच जने थे। इसके बाद मैंने शहर के तीन सज्जनों को लौटा दिया। मैं और विद्यार्थी हरिदत्त दोनों वागेश्वर का ओर चले। हरिदत्त को सामान उठाने के लिये वागेश्वर तक साथ ले लिया था।

इधर के पहाड़ों पर चीड़के वृक्ष ही अधिक होते हैं। जिधर दृष्टि दौड़ाओ, चीड़ ही चीड़। गवर्नमेंटको करोड़ों रुपये की आमदनी इन वृक्षों से होती है। प्रत्येक वृक्षके निम्नभाग के किसी स्थान की छाल प्रगट कर उसके नीचे एक मिट्टीका गिलास सा लगा देते हैं; पेड़ का तेल धीरेधीरे उसमें टपकता रहता है। इसीका तारपीन 'Turpentine' बनाया जाता है। करीब करीब सभी वृक्षों के नीचे ऐसे गिलास लगे हुये देखने में आये।

पहाड़ी सड़क में चढ़ाव उतार होता ही है कहीं दो मील चढ़ाई तो तीन मील उतार। आठ आठ दस दस घर जहां बने हों वही गांव है। पहाड़ों के बीच चलते हुये यात्रीको दूर से घर चमकते हुये दिखाई देते हैं। घर साफ़ सुथरे चूने से अच्छी प्रकार पुने हुये धूपमें भले बोध होते हैं। सोदियां जैसे सने एक के ऊपर एक अपनी हरियाली से आँखों को तृप्तकरते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गाय भैंस बकरी चरते हुई दिखाई देते हैं।

१३ मील चलकर ताकुला पहुंचे । दस बज चुके थे । रास्ते भर तो खूब ठण्डा रहा । यहां आते ही ज़ोर से वर्षा होने लगी । ताकुला देवीके मन्दिर में आज भण्डारा था । यह भण्डारा हैजेको दूर भगाने के लिये किया गया था । हरिद्वार से लौटे हुये कुम्भके यात्री हैजा साथ ले आये थे । उनके द्वारा इर्द गिर्दके पहाड़ी गावोंमें बड़े ज़ोर शोर से हैजा फैल रहा था । उसीको दूर भगाने के लिये यह यज्ञ किया गया था । वर्षाके कारण मैं तो पहाड़ी के ऊपर एक तंत्री केमकान में चला गया । वहां जाकर खिचड़ी बनवा कर खाई । गांव के लोगों ने रसद पहुंचायी । मैंने दाम देने चाहे पर 'साधु महात्मा' से दाम कौन ले । दो पहर कोदो चार लोग आकर बैठ गये और अपना दुखड़ा कहने लगे । गवर्नमेण्ट के जङ्गल विभाग के सख्त नियमों के कारण यह ग्रामीण लोग बड़े दुखी हैं । बेचारे कहीं कोई लकड़ी तक नहीं ताड़ सकते । गोचर भूमि को Forest Reserve का नाम देकर पशुओं की स्वतन्त्रता छीन ली गयी है । एक बेचारा गरीब ब्राह्मण महा दुखी, उसके गाय बैलों को बाघ मार गया था । बिना शस्त्रों के ये बेचारे दीन, हिंसक जन्तुओंका सामना नहीं कर सकते । बिना जङ्गल विभाग के अधिकारियों के जरनेली कुम्भके ये लोग हिंसक जन्तुको मारने के लिये जङ्गल में नहीं घुस सकते । बेचारे अपना अपना दुखड़ा कह रहे थे । उनकी इस बेकसी को देखकर मुझे भारी दुःख हुआ ।

बृहस्पतिवार १७ जून—रात कष्ट ने कटी । मच्छरों ने खताया । सपेरे चार बजे उठ कर चले । ताकुला छोटा गा

गांव है ; दो पहाड़ियों के मध्य घाटी में है । गणनाथ नदी बीच में बहती है । यहां खेत सीढ़ियों ऐसे नहीं है । घाटी चौड़ी होने के कारण कुछ चौरसपन आगया है । धान के खेत हरे भरे हो रहे थे । आज ताकुला से वागेश्वर जानेवाला एक और साथी मिलगया । वह वागेश्वर के डाकखाने में चिठीरसां होकर जा रहा था । उसीके साथ बातें करते हुये चले । रास्ते में स्थान २ पर पनचक्रियां देखने में आईं । इधर पनचक्रियों का अधिक प्रचार है । पहाड़ी नालों की कमी नहीं । वे ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिये उनमें वेग भी होता है । उसी वेग की शक्ति से पनचक्रियां चलती है । आज भी दिन ठण्डा था । पहाड़ी दृश्य देखते हुये, पहाड़ी नालों की गड़ २ सुनते हुये, आनन्द से जा रहे थे । कहीं नाले के किनारे किनारे जा रहे हैं कहीं वृक्षों से घिरे हुये ठण्डे मार्ग से । कहीं दोनों तरफ लम्बे लम्बे चीड़ के वृक्षों की सर सर ध्वनि सुनाई देती है ; कहीं विलकुल नीचेकी ओर उतर रहे हैं ; कहीं थोड़ा चढ़ाव है । दस बजे के करीब एक ऊंची चढ़ाई के पास पहुँचे । यहां से डेढ़ मील की विकट चढ़ाई है । धीरे धीरे कई जगह दम लेते हुये पहाड़ के ऊपर पहुँचे और उस चढ़ाई को तय किया । रास्ते में पसीने से नहा गया । जब चढ़ाई खतम हुई, तब ठण्डे पानी की धार मिली । वहां बैठकर दम लिया और जल पिया । ठण्डा बर्फानी जल क्या स्वाद देता था । वाह !

चढ़ाई खतम कर, प्यास बुझाकर जब मैं ऊपर पहुँचा, तब एक बड़ा बगीचा देखने में आया । उसकी दीवार के पत्थर पर बैठकर मैं गाने लगा ।

झोड़ी न तुम धर्मको चाहे जान तन से निकले,
 हो बात सत्य लेकिन माठे वचन से निकले ।
 अग्नि का धर्म जब तक रहता है उसमें कायम,
 हाथी की क्या है शक्ति जो पास होके निकले ।
 फिर अपना धर्म तन कर जब राख वह हो जावे,
 चाँटी निधडक हीकर ऊपर से उसके निकले ।
 है धर्म की यह महिमा यदि इसको धार लो तुम,
 शोरे बबर की मानिन्द शक्ति घदन से निकले ।
 दर दर चलेगा बुढ़ी डूबा गुनाहों में जो,
 थे ईश के जो प्यारे वे सूर्य बन के निकले ।

मैं गाने का आनन्द ले रहा था और विद्यार्थी हरिदत्त पीछे आर
 हा था । उसके पास बोक होने के कारण वह बहुत धीरे धीरे
 चलता था । डाक वाटने वाले साथी को मैंने विदा कर दिया ।

हरिदत्त के आने पर हम दोनों साथ २ चले । अग्र उतार
 था । जल्दी २ बढ़े चले गये । खूब ठण्डा हो रहा था । चलते २
 कोई अढ़ाई मील गये होंगे कि एक पहाड़ी आदमी एक ओर
 से भागा हुआ आया और विनीत भाव पूर्वक मुझ से बोला,
 “आज आपको हमारे मन्दिर में निमंत्रण है” । भूख लगी हुई थी
 प्रेमका निमंत्रण स्वीकार कर लिया । ऊपर उसके मन्दिर में
 पहुँचे । वहाँ गोरखनाथ की धूनी जल रही थी । हवन का
 सब सामान जुटा था । श्रुः सात आदमी बैठे थे । पुजारी लोग
 भी थे । मेरा परिचय पाकर वे बड़े प्रसन्न हुये । नाम तो
 उन्होंने मेरा पहिले से सुन रक्खा था । कैर, नहा धोकर हवन
 की तैयारी की । मैंने हवन में सहायता दी । कार्य समाप्त हुआ ।
 मेरे विद्यार्थी ने भोजन बनाकर गिलाया ।

यहाँ भी हैजे को दूर भगाने के लिये यह सब कुछ किया

गया था। वर्षा अधिक हो जाने के कारण मैंने यहीं ठहरने का निश्चय कर लिया। एक प्रेमी बन्धु मुझे अपने घर में लेगए। वहाँ जाकर आराम किया। चारवजे वर्षा बन्द होजाने पर हरिदत्तको अल्मोड़ा वापिस भेज दिया। यहाँ से कुली का प्रबन्ध हो गया था। रात को मन्दिर में मेरा व्याख्यान हुआ। इर्द गिर्द के गाँवों के लोग शकटों हुये। खासा जमाव होगया। "धर्म क्या है?" इस विषय पर व्याख्यान दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुये।

१८ जून शुक्रवार से २० जून रविवार तक—चौरा आठ दस घरों का ग्राम है। पहाड़ी ग्राम ऐसेही होते हैं। यहाँ से चागेश्वर साढ़े तीन मील है। सवेरे सात बजे ग्रामवालों से विदा होकर मैं चागेश्वर की ओर चला। डेढ़ दो मील का कठिन उतार है। पहाड़ों पर दूर तक सिवाय चीड़ के लम्बे लम्बे बूटों के कुछ दिखाई नहीं देता। इन बूटों से गिग हुआ घास, पहाड़ी सड़क को फिसलाऊ बना देता है। उसके ऊपर से जूता वेतरह फिसलता है। खैर।

उतार पूरा हुआ। चौड़ी घाटी में पहुँचे। यहाँ मैदान है। सरयू नदी की घाटी आरम्भ होजाती है। इसके किनारे किनारे चला। खेतों में खियां काम कर रही थीं। उनको देखता हुआ बड़ा चलागया। यहाँ मच्छर अधिक हैं। आठ बजे के बाद चागेश्वर दीख पड़ा। गोमती और सरयू का यहाँ सङ्गम होता है। गोमती छोटे नाले के बाराबर है। हाँ, बरसात में खूब बढ़ती होगी। इस पर पुल बधा है। पुल पार करके चागेश्वर के बाजार में पहुँच गया। मेरे प्रेमी, जो पहले दिन सन्ध्या को चागेश्वर। से दो मील पर मुझे लेने

गये थे और निराश होकर लौने थे, आज यहाँ बाजार में मिले। उन्होंने प्रेमपूर्वक बागेश्वर सरस्वती पुस्तकालय में ले जाकर मुझे ठहराया।

यहाँ आकर मेरा प्रोग्राम बदल गया। अल्मोड़े से मैंने बागेश्वर होकर अश्कोट के रास्ते जाने का निश्चय किया था। मानसरोवर जाने का वह सीधा मार्ग है। यहाँ बागेश्वर के लोगों ने कहा, कि जोहार के रास्ते जाना चाहिये, क्योंकि पूरी परिक्रमा तभी होगी जब पहले कैलाश दर्शन हो और पीछे से मानसरोवर में स्नान किया जाये। 'एवमस्तु' कहकर मैंने स्वीकार कर लिया और जोहार की ओर जाने की तैयारियाँ करने लगा। जोहार का रास्ता बड़ा विकट है, यह मैंने पहले ही सुन रखा था। अने अल्मोड़े के मित्रों को प्रोग्राम परिवर्तन की सूचना दे दी। बागेश्वर के व्यापारियों ने जोहार के अपने भुट्टिये मित्रों को मेरी यात्रा की ज़बर भेज दी और अपनी शक्ति भर सेवा करने को लिय दिया।

अब लगे सामान जुटाने। लोग कहने लगे,—"जोहार के रास्ते शाक तरकारी नहीं मिलती। रास्ता विकट है। मच्छर डाँस, मक्खी बुरी तरह सताते हैं। जांके रास्ता चलने जूते मे घुस जाती हैं। ऊँचाधुरा, जयन्ती, इट्टी गिट्टी तीन घफ़ानी पहाड़ों को लांघते समय पहाड़ी विष चढ़ जाता है। उलटी होने लगती है।" तरह तरह की सूचनाएँ मिलीं। मैंने घुटनों तक एक जोड़ा काली जुरायों का लिया। भाड़े पाँच मेर सूखे फलों-बादाम, किसमिस, चुहारा, नारियल-की धँसी तैयार करवायी। एक सन्धी पहाड़ी तकड़ी ली। तट्टई भाड़ि भी साथ बांधी। तीन दिन बागेश्वर में रहे। तीन ज्वालामुख

दिये । वागेश्वर झूब की नवयुवक मण्डली मेरे लिये सामाना
छुटाती रही ।

पाठक ! आइये, आपको वागेश्वर में सरयू नदी का दृश्य
दिखलाकर यहां की कुछ बातें बतलावें ।

वागेश्वर में सरयू नदी का दृश्य

दोनों ओर दूर तक लम्बी, ऊंची, हरी हरी पहाड़ियों के
बीच, चौरस घाटी में आप अपने आपको खडा हुआ समझिये ।
उसी घाटीके बीच पत्थरों को रगड़ती हुई सरयू नदी बह रही
है । पत्थरोंकी रगड़ से गड़गड़ाहट की ध्वनि बराबर कान में
आ रही है । पिता हिमाचल की गोद से निकल कर अपने
सहचारियों के साथ टंढे मेढे चक्कर काटती हुई सरयू मस्ता-
नी चालसे वागेश्वर में पहुंचती है । यहां पश्चिम से आने
वाली अपनी बहन गोमती के स्वागत के लिये यह अपनी
चाल घीमी कर बड़े प्रेम से उसकी ओर निहारती है फिर वेग
से आगे बढ़कर भगिनी का मुख चूमती है ।

अदा ! क्या सुन्दर दृश्य है । सरयू के किनारे पश्चिम की
ओर पीठ कर खड़े होने से सामने निकट चण्डी पर्वत के
दर्शन होते हैं । उसके ऊपर चण्डी महारानी का मन्दिर है ।
पीछे पश्चिम में नील पर्वत अपनी छटा दिखलाता है । इस पर
भगवान नीलेश्वर विराजमान हैं । पूर्व से भागीरथी की धारा
आकर सरयू जी का चरण छूती है भागीरथी । और सरयू
मिल कर जहां गोमती से भेंट करती हैं वहां संगम पर वाघ-
नाथ जी का प्राचीन मन्दिर है यहां मकर संक्रान्ति १३ जनवरी
को बड़ा भारी मेला होता है । वागेश्वर सरयू जी के दोनों
किनारों पर बसा है । दोनों किनारों पर आमने सामने दूकानें
हैं । दो पुल बने हैं—एक गोमती पर दूसरा सरयू पर ।

वागेश्वर मंडी है। मेले पर यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तिष्वती चीजें: थुल्ले, चुटके, बोड़े, चंवर, मुश्क, पश्मीने, नीलम, सुहागा, नमक, बेतकी चटाइयाँ, पिटारे, खालें विकने के लिये आते हैं। यहाँ से रानीखेत, गढ़वाल, अल्मोड़ा, शोर, अस्कोट, कैलाश को रास्ते जाते हैं। वागेश्वर में सरदी अच्छी पड़ती है पर बर्फ नहीं गिरता। गरमियों में गरमी होती है पर लू नहीं चलती। साथे में ठण्डा रहना है। यहाँ एक क्लब "वाज़ार एसोसियेशन क्लब" घीस वर्ष से है। इसके साथ हिन्दी का एक छोटा सरस्वती पुस्तकालय भी है। इसमें हिन्दी के समाचार पत्र तथा पत्रिकायें आती हैं। नागरिकों के उद्योग से 'विद्या-प्रचारक' नामी रात्रि पाठशाला भी खुली हुई है। श्रीशिवप्रसाद चौधरी शिलाजीत वाले बड़े उन्साही सज्जन हैं। क्लब, पाठशाला आपके उद्योग से चल रही है। नवयुवक मण्डली भी अच्छी है। ईश्वर चाहेगा तो इन नव-युवकों के द्वारा वागेश्वर में शीघ्र विद्याप्रचार की जड़ जम जायेगी।

पुलके पास ऊँचे पत्थर पर बैठकर मैंने सरयूजी की मूर्त बहार देखी। स्नान का बड़ा आनन्द आया। वागेश्वर में तीन रोज़ रहा, सरयूजी का स्नान नहीं भूलेगा। अबप्रवानियों को चाहिये, कि वागेश्वर में जाकर सरयू स्नान का विचित्र आनन्द लें। इधर की छटा ही निर्गली है।

जून २१ सोमवार-सवेरे छः बजेके बाद वागेश्वरसे चला। मेरे प्रेमियों ने मेरा सामान-विस्तरा और फलोंकी थैलियाँ-उठा-नेके लिये कुली तलाश कर दिया था। मैंने सबसे "रंगी" कहा। फिर लुत्गी कमण्डलु, और लम्बी लकड़ी उठा सड़क पर हो लिया।

एक नवयुवक मुझे सात मील तक पहुंचाने के लिये साथ चल पड़ा। अब हम सरयू के किनारे किनारे चले। वागेश्वर से १८ मील मुझको सरयू घाटी होकर जाना था। मनस्यारी होकर कैलाश जाने का यही रास्ता है। मार्ग के दृश्य देखते और ग्रामीणोंके पहाड़ी आलाप सुनते हुये हम अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गये। धूप चढ़ गयी थी इसलिये स्नान की ठानी। यहां सात मील पर एक बँगला बना है। यह वागेश्वर के एक महाजन की दुकान है। यहीं विश्राम करने का निश्चय किया। घण्टा भर सरयूजी में स्नान किया। शीतल जल से धूपकी गरमी दूर होगई। जो नवयुवक मेरे साथ आया था उसने भोजन तय्यार किया। भोजनोपरान्त तीन घंटा विश्राम कर फिर चलने की ठानी। कुली को सब से पहले भोजन खिला कर आगे खाना कर दिया था। तीन बजे के करीब मैं वहां से चला। यहां पर एक कनफटे नाथ और एक उदासी साधु का मेरा साथ हो गया। ये दोनों महाशय भी कैलाश जा रहे थे। कनफटे बाबा तो चरसी होनेके कारण साथ नहीं चल सकते थे; हां उदासी महाशय मेरे साथ हो लिये। नवयुवक को मैंने वागेश्वर वापिस भेज दिया।

घनघोर घटा छा गयी। वर्षा होने लगी। सरयूजी का पहाडी रांग सुनते जा रहे थे। सड़क खराब है। कहीं नदी के किनारे किनारे, कहीं फासले पर होकर गयी है। वर्षा से सड़क और भी खराब हो गयी है। भीगते भागते सात मील पूरे किये और कपकोट पहुंचे। यहां ग्रामीण भाइयों ने मेरा स्वागत किया। संस्कृत पाठशाला के अध्यापक ने संस्कृत में लिखा हुआ 'एड्रेस' दिया। मेरी इन भाइयों ने अच्छी खातर की। संध्याको ग्रामीण भाई इकट्ठे हुये। उनको

मैंने उपदेश दिया । शिक्षा के लाभ बतलाये ।

रात को भोजन कर मैं चौबारे में लेट गया पर मच्छुरों की कृपा से नींद नहीं आई । चरसीनाथ और उदासी साधु के लिये भी खाने पीने का प्रबन्ध कर दिया गया था ।

जून २२ मङ्गलवार—कपकोट से सवेरे दुग्धपान करके चला । दोनों साधु कार्यवशात् पीछे रह गये । कुछ सज्जन दूर तक पहुँचानेके लिये साथ आये । सरयूके किनारे किनारे, प्रकृति माता के दृश्यों का आनन्द लेता हुआ, मैं चला । कपकोट से तीन मील तक सरयू घाटी का दृश्य बड़ा ही मनोहर है । सरसब्ज पहाड़ियों पर गाय बकरी चर रहे थे । किनारे किनारे जहाँ घाटी चौड़ी होगयी है, भूमि मखमली घाससे लदी हुई बड़ी सुहावनी दीख पड़ती है । दोनों ओर ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ सरयूजी की शोभा बढ़ाती जानी हैं । नदी का पाट चौड़ा है पर जल कम है । क्योंकि अभी वर्षा आरम्भ नहीं हुई थी; आकारा निर्मल था ।

आनन्द में मग्न मैं चला जा रहा था । सामने गाय भैंस रास्ते में खड़ी थीं । उनके साथ मैंने कुचैले कपड़े पहने हुये चरवाहे भी थे । लाठी से मैंने अपने लिये रास्ता किया । गाय बहुत छोटी छाटी और चरवाहे भी कम और दुबले पतले; ऐसे सुन्दर, सुहावने जलवायु में इनकी ऐसी दुर्दशा ! गैया इधर की आधसेर तीनपाच दूध देती हैं और छोटी होती हैं । हिमालय तो नहीं है; उनकी नदियाँ भी वही हैं, परन्तु पहाड़ी मनुष्य और पशुओं पर अधःपतनने पूरा प्रभाव डाला है । पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि पहाड़ी आदमी वीर, उन्मादी और स्वतन्त्रताप्रिय होते हैं, पर इधर के पहाड़ियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव है । सैकड़ों वर्षों के दास्य ने इनका

मनुष्यत्व नष्ट कर दिया है ; दासता इनके चेहरों पर झलक रही है ; वेगारी का बोझ ढोते ढोते इनका स्वत्वाभिमान नष्ट हो गया है । ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र सभी में दासता के भयंकर दुर्गुण विद्यमान हैं । अल्मोड़ा से लेकर यहां तक पर्वतियों की यही दशा देखी ; नीचावस्था (Degeneration) का पूरा राज्य पाया ।

पर सरयू अपनी उसी पुरानी चाल से, अपने उसी यौवन मद में, लड़ती मगडती जा रही है । उसको अपने काम से काम है । सड़क के किनारे किनारे, ठण्डे सोतों का जल यात्री की प्यास को दूर करता है । तीन मील पूरे होगये, सरयू जी की घाटी छोड़ कर जोहार का रास्ता पकड़ा । यहां दो पथ हैं । एक तो पिएडरी ग्लेशियर को जाता है ; दूसरा कैलाश की ओर गया है । मैं और मेरा कुली दाहिने रास्ते हो लिये । नाले के किनारे किनारे चले । यहां पर मेरे मनमें विचार उत्पन्न हुआ :—
 “पानी सभ्यता प्रचार करने वाला बड़ा भारी इन्जीनियर है । पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने वाला और सभ्यता फैलाने वाला जल है । कैसे कैसे पर्वतों को इसने काटा है ; कहां की मिट्टी ला कर यह खेत बनाता है । दुर्गम्य हिमालय में मार्ग बनाना हसीका काम है ।” नाले के किनारे किनारे सुन्दर सड़क बनी हुई है । बादल आ जाने से ठण्डा होगया था । छोटे छोटे, दस पांच घरों के ग्राम कई देखने में आये । जगह जगह हरे हरे धान लहलहा रहे थे । जहां थोड़ी सी भूमि मिली वहीं खेती कर लेते हैं ; बेचारे पहाड़ी इसी पर गुज़ारा करते हैं ।

मैं आज जुराव पहन कर नहीं चला था, इसलिये मच्छरों ने कुछ सताया । यात्री को चाहिए, कि कपकोट से जुराबें

पहर ले; जुराबें घुटनों तक हों । दो चार साथियों के साथ यात्रा करे तो अच्छी है । क्योंकि आज कल यह रास्ता बहुत कम चलता है, कोई पथिक रास्ते में नहीं मिलता, इस लिये उन वन्धुओं को जो नगरों में रहने वाले हैं ऐसे निर्जन पथ में भय लगेगा । यद्यपि डर किसी जीव जन्तु का नहीं और न ही लूट घसूट का भय है, पर दृश्य बड़े वन्य हैं । 'एकान्त' इस शब्द की सार्थकता बोध होने लगती है और नास्तिक भी आस्तिक बनने की इच्छा करने लगता है ।

नौ मील चलकर चढ़ाई मिली । धीरे धीरे, कदम कदम, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया । थोड़ी दूर चढ़ता, थक जाता । किसी प्रकार उन दो मीलों को पूरा किया । शामाधुरा के निकट पहुंचे । स्वागत के लिये दो सज्जन आगे से खड़े थे । बड़े प्रेम से ले गये और अपनी दुकान में ले जाकर ठहराया; सेवा की । अहा ! वह मनुष्य कैसा भाग्यवान है, जिसकी मंज़िल पूरी होने पर प्रेमी सज्जन अगुवानी करते हैं, और मीठे मीठे शब्दों से उसकी थकावट दूर कर देते हैं । अमरीका में जय मैंने २३०० मील की यात्रा की थी, तो चालीस मील पैदल चलकर जाता, मगर मंज़िल पूरी होनेपर न ठहरने का ठिकाना, न खाने का प्रयत्न, न पैसा पाल ! वे दिन कैसे कटे थे; कभी भूलने वाले नहीं ।

डेढ़ घण्टे बाद उदामी साधु भी पहुंच गया । न्हाये, धोये; पत्र लिखे । कुछ आराम किया, चरसीनाथ भी धीरे धीरे आ पहुंचा । ये दोनों महाशय थे गिरे सूर्य, काला अक्षर भैल रा-बर था । चरसी नाथ तो अवस्था में बड़े होने के कारण कुछ सभ्य भी था, उसे कुछ सत्सङ्ग भी हो चुका था, पर उदामी साधु तो निरा गँवार पंजाबी जाट था । सिवाय घाने पीनेकी

बातके दूसरी चर्चान थी । मैंने आज उसे देवनागरी वर्णमाला के पहले छः अक्षर सिखाये । उसकी आवाज़ अच्छी मीठीथी, इसलिये मैंने चाहा कि कुछ देशहित संबंधी भजन सिखाकर इससे काम लिया जावे । पर उसकी स्मरण शक्ति बड़ी खराब थी; वह भजन कण्ठ नहीं कर सकता था । दो घण्टा सिर खपाकर हार कर मैंने छोड़ दिया । क्या करता, थके हुये यात्री से पत्थर में छेद नहीं हो सकता था ।

रात को अच्छी तरह नीद नही आई जहां मैं सोया था, वहां बहुत से चूहे आकर कवड्डी खेलने लगे । उनको मैंने बहु-तेरा मना किया, पर भला वे मूसरचंद कब माननेवाले थे ।

जून २३ बुधवार—खा पीकर चले । अल्मोड़ा से बागेश्वर २६ मील, बागेश्वर से कपकोट १४ मील, कपकोट से शामाधुरा ११ मील,—कुल ५१ मील आ चुके थे । आज हम को तेजम पड़ाव पर पहुंचना था । यह शामाधुरा से आठ मील के करीब है । खा पीकर १२ बजे के बाद मैं और उदासी साधु चले । शामाधुरा के पोस्टमास्टर महाशय ने मेरा अस-वाव मनस्यारी पहुंचाने के लिये कुली का प्रवन्ध करदिया । मनस्यारी यहां से तीसरा पड़ाव २६ मील पर है ।

आध मील तक चढ़ाई है । यहां तक तो दो चार प्रेमी हमें छोड़ने आए । उनसे प्रेमपूर्वक विदा होकर हम आगे बढ़े । थोड़ी दूर तक मैदान है । सड़क मजे की है, बातें करते करते चले गये । आगे बेढब उतार है । सड़क टूटी हुई, पत्थर रास्ते में, मैं दो बार गिरा, बच गया । यदि सड़क से नीचे फिसल जाता, तो रामगङ्गा में ही जाकर पहुंचता । मालूम नहीं, अल्मोड़ाके अधिकारीवर्ग क्यों आंखें मूंदे पड़े हैं । ऐसी रही सड़क जहां रोज़ डाकवाला बेचारा आता जाता है,

जहां जाड़े में सैकड़ों हज़ारों पशु ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर जाते हैं, ऐसी बुरी सड़क पर चलते हुए उन गरीब श्रामीकों के दिलों में अपने ज़िले के अधिकारियों के प्रति कैसे कैसे भाव उठते होंगे। धिक्कार है उन मनुष्यों को, जो बड़ी ज़िम्मेदारी के ओहदे को ले तो लेते हैं, पर कर्तव्य पालने में ऐसे कच्चे हैं, कि हज़ारों आत्माओं को उनकी असावधानी से कष्ट उठाना पड़ता है।

सामने रामगङ्गा चमक रही थी। बड़ी कठिनाई से उस रही सड़क को पूरा किया। आगे सड़क और भी टूटी हुई थी, इसलिये रामगङ्गा की बजरी बजरी चलकर पुल पार किया और नदी के दूसरे किनारे पहुंच गये। यहां से तेजस केवल मालभर रह जाना है। विचार किया कि रामगङ्गा के स्वच्छ जल में स्नान कर लें। चरसीनाथ भी आ गये थे। तीनों ने रामगङ्गा में स्नान किया। रामगङ्गा का प्राकृतिक दृश्य यहां बड़ा निकट है। बड़ा पाट है और दोनों ओर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब वर्षा में रामगङ्गा चढ़ती है तो पहाड़ दूट दूट कर बहे चले जाते हैं। उस समय नदी का रूप बड़ा विकराल हो जाता होगा। खर, स्नान कर उष्णता मिटाई और चले। तेजस के पास एक बूखरी छोटी नदी रामगङ्गा में आकर मिली है। उसका पुत्र दो लम्बे लकड़ी के लट्टे रखकर बनाया गया है। पार करते समय वही असावधानीसे चलना पड़ता है। उसको पारकर तेजस पहुंचे। यहां एक ही दुकानदार है उसके घर जाकर डेरा किया। प्रसन्न उसको यहां छुंडकर मैं रामगङ्गा के साथ वापस करने

*यह रामगङ्गा नरपू ही महापुरु नदी है। मुगदाबादा भी वही रामगङ्गा नहीं। तैलक—

के लिये चला। उदासी साधु भी मेरे साथ हो लिया। समगङ्गा के बीच एक ऊँचे पत्थर पर मैं बैठ गया। उदासी साधु दूसरी जगह फासले पर जा बैठा। क्या क्या भाव मेरे हृदय में उठे।

जल की तरङ्गों मेरे पत्थर के इर्द गिर्द होकर जा रही थीं। रामगङ्गा यहां पहाड़ के बिल्कुल नीचे होकर बहती है और पाट ज़रा छोटा है। बड़े बड़े ढोंके पत्थर उसकी धार के बीच में पड़े हैं, मानो उसको जाने से रोकते हैं। वे कहते हैं:—
“मत जाओ प्यारी मत जाओ।” वह क्या अठखेलियां करती है। उनके साथ आलिङ्गन करके नाच रही है—उनके गले में अपनी दोनों भुजाएं डाल—किस प्रेम से विदा चाहती है। जिस प्रसन्नता से वह जा रही है, ऐसा मालूम होता है कि उसको अपने निर्दिष्ट स्थान का हाल मालूम है। सुनो सुनो, विदा होते समय क्या कहती है,—“मैंके जाता हूं, मैंके ! वहिन सरयू से मिलने जानी हूं”—क्यों न हो इसीलिये तो ऐसी प्रसन्न है। ससुरालमें पर्देके अन्दर बन्द पड़ी रही—न वहाँ जा सके, न आ सके—शरीर की लाली सब उड़ गई, चेहरा सफेद पड़ गया। अब मैंके जाकर खा पीकर खूब हृष्ट पुष्ट हो जायेगी। हां, हां इसीलिये तो इतना प्रसन्न है। बड़े बड़े पत्थर तो इसका रास्ता रोक रहे हैं, उसके जाने से अप्रसन्न हैं, मगर वह देखो, पहाड़ी शृङ्खला लताएँ किस प्रेम से उसको आशीर्वाद दे रही हैं; कैसे झुक झुककर अपना सन्देशा उसको कह रही हैं। वे कहती हैं:—

“जागङ्गे ! जा। हमारे मैदान के भाइयों को हमारा कुशल मङ्गल कह देना।”



सन्ध्या होगयी । मैं लौट आया । आकर भोजन किया ।
दुकानदार ब्राह्मण था, उसने तीनों का खाना बना दिया ।
खाकर सोरहे । रात को वर्षा हुई ।

मेरी यात्रा का पहला खण्ड पूरा होता है । अल्मोड़े से
तेजम तक हिन्दु सभ्यता और आर्य्य रंगरूप का प्रसार है,
अब आगे मंगोल रंगरूप देखने में आएगा । तेजम से आगे
'भोट' का इलाका आरम्भ होता है, इसलिये दूसरे
खण्ड को आरंभ करने से पहले हमें एकवार पीछे की
ओर दृष्टि डालनी चाहिये । वरेली से काठगुदाम या हल-
द्वानी तक तो रेल में, इसके बाद भीमताल, रामगढ़ प्यूड़ा,
अल्मोडा, ताकुला, वागेश्वर, कपकोट, शामाधुग और तेजम,
यहां तक हम पहुंचे हैं । रेल की सड़क-काठगुदाम-६५ मील
पर है और अल्मोड़े से हम ५० मील दूर आगये हैं । यहां से
आगे जोहार शुरू होता है । अब तक हम अल्मोड़े के
उस भाग में थे जहां भीरु दुकानदार, कुटिलनीतिज्ञ, नौकरी
पेशा और दुर्बल किसानों की वस्ती है । अब इसके आगे हम
उद्योगी, साहसी, व्यवसायी तथा पोढ़े शरीर वाले, परन्तु शिक्षा
हीन भूटिओं, की भूमि में पैर धरेंगे । पर्वत नियामियों में
जो गुण होने चाहिये वे अभी तक हमारे देननेमें नहीं आयेगे ।
मैदान से आने वाला यात्री पहाड में चोरी का अभाव अव-
श्य पाना है, परन्तु पहाड़ी नौकर बहुत कम ईमानदार
मिलते हैं । इसका बड़ा भारी कारण उनकी निर्धनता है ।
यद्यपि साधारण दृष्टि के मनुष्य को इधर पहाड में निर्धनता
सोध न होगी, क्योंकि यहाँ के प्रामीणों के सकान साक मुघरे,
चूने से पुते हुये, पत्थरों से छाये हुये होते हैं, और मैदान के
किसानों के घर मिट्टी के तथा घासकूम से छाये हुये होते हैं,

पर उसका एक मात्र कारण यहाँ पहाड़ में पत्थरों की अधिकता है। पहाड़ के ग्रामीण भी मोटा अन्न खाकर बड़ी कठिनाई से अपने दिन काटते हैं। कुली बेगार के मारे इनका नाक में दम है; जंगल विभाग के कड़े कानूनों की वजह से इनके पशु भूखों मरते हैं, और लकड़ी की इन्हें बड़ी दिक्कत हो गई है।

यहाँ तक हमने हिमालय का कोमल, मृदु जलवायु देखा है। हम लोग छः हजार, साढ़े छः हजार फीट तक ऊपर उठेंगे। यह कमाऊँ की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अब इसके आगे हिमालय के शाही द्वार में घुसना होगा। जल, वायु, दृश्य, निवासी, सब बदल जायेंगे।

पाठक ! आइए भारत के द्वारपाल के श्वेत भवन में प्रवेश करें। अब तक तो इसका नाम ही सुना करते थे; अब तक तो इसके यश के भजन ही गाया करते थे। आइए, अब इसके दर्शन कर इसके मुख से अपनी प्राचीन कीर्ति-कथा श्रवण करें।

द्वितीय खण्ड

जोहार

अल्मोडा ज़िले में तेजम के पास, छोटी रामगंगा पार करने के बाद, जोहार परगना शुरू हो जाता है। इसके तीन भाग हैं:—मल्ला जोहार, गोरीफाट और तल्ला देश। गिरगाँव से मनस्यारी तक गोरीफाट और मनस्यारी से मीलम तक मल्ला जोहार है। इस परगने में पश्चिमी भुटिया लोग बसते हैं। भोट

काइलाका तो बड़ा है। उसमें चौदान्स, व्यास, दारमा, जोह
 और गढ़वाल के भुटिये सब शामिल हैं। जोहार के पश्चिम गढ़
 वाल जिले के नेनी और माना घाटों के पास रहने वाले भुटिया
 भी पश्चिमी भुटिये कहलाते हैं। जोहार के भुटियाओं को शोका
 कहते हैं, और मानाघाटे के भुटिये मारचा कहलाते हैं। शोका
 और मारचा भुटियाओं में शादी विवाह होते हैं। जोहारी
 लोग देखने में जापानी, चीनियों की तरह होते हैं।
 ऐसा मालूम होता है कि किसी काल में इधर चीनियों का
 राज्य था। चीनी औरतों के साथ हमारे लोगों का सम्बन्ध
 होने से उनकी सन्तान मंगोल आकृति की होगई है। अब भी
 भुटिया व्यापारी तिब्बती औरतों के साथ सम्बन्ध
 करने में आगा पीछा नहीं करते। तिब्बतियों के साथ इनका
 चाय पानी होता है। इनके नाम सब हिन्दू ढंगके हैं और अ-
 धिक नाम क्षत्रियों की तरह हैं। तेजम से नीचे के हिन्दू
 भुटियाओं के हाथ का नहीं खाते: उनकी बड़ी बूत मानने हैं।
 कारण यह देते हैं कि हूण देश अर्थात् तिब्बत हिमालय पार
 है। वहां जाने से मनुष्य धर्म खो देता है, और भुटिया लोग
 तिब्बतियों के हाथ का खाते पीते हैं इसलिये ऐसा नियम है।
 भुटिये लोग, यद्यपि नाम क्षत्रियों जैसे रखते हैं, मगर जनेऊ
 नहीं पहनते। कहते हैं कि उनके नियमों की पाबन्दी नहीं
 हो सकती। नेपाली क्षत्री भी तिब्बत में व्यापार करने जाते
 हैं। वे जनेऊ पहनते हैं इसलिये तिब्बत से लौटकर इनको
 शायश्चित करना पड़ता है।
 जोहारी लोग बड़त जियादा हमारे निकट हैं। वे हिन्दू
 मो स्थाज को भी योड़ा बहुत पालन करते हैं। उनमें धार्मिक
 शिक्षा का प्रचार भी होरहा है। वे अपने आपको धरने

पूर्वजों के निकट लाने का उद्योग कर रहे हैं। ब्राह्मणों से स्पर्शकारादि भी कराने लगे हैं। वे अपने आपको "रावत" कहते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियां मानसरोवर में डालने जाते हैं। तिब्बती देवताओं की पूजाने भी अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनमें छोटी जातिके लोग डूमड़े कहलाते हैं। वे बड़ई, लोहार, दरजी, मोची, ढोली आदि का पेशा करते हैं। रावत लोग डूमड़ों के हाथका नहीं खाते।

जोहारी लोग तीन जगह घर बनाते हैं। जून, जौलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर में तो ये लोग मीलम-मल्लाजोहार-में रहते हैं। मल्लाजोहार बहुत ठण्डा है। मीलम १२५०० फीट की ऊंचाई पर है। जाड़ों में मल्लाजोहार बर्फ से ढक जाता है। जब जाड़ा पड़ने लगता है तो जोहारी लोग अपने बाल बच्चों, भेड़ बकरी तथा भव्यू (एक प्रकार का बैल) को लेकर नीचे मनस्यारी में आजाते हैं। मनस्यारी में अक्टूबर, नवम्बर दो महीने ठहरते हैं। जब यहां अधिक शीत पड़ने लगता है तो नीचे तेजम में रामगंगा के किनारे चले आते हैं। यहां दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च के शुरू तक ठहरते हैं। फिर तेजम से मनस्यारी चले जाते हैं और वहां अप्रैल, मई तक रहते हैं। तेजम में आकर वे कुछ दिन ठहर कर नीचे कानपुर, बम्बई, कलकत्ता में माल लेने चले जाते हैं। वहां से महीने डेढ़ महीने में लौटते हैं। मनस्यारी में जाकर अपने तिब्बती सफर की तय्यारियां करते हैं। जून के महीने में अपना सारा लटर पटर लेकर पहाड़ी दुर्गम पथ को तैकर, वे लोग मीलम पहुंचते हैं। मीलम से जौलाई के आरम्भ होते ही हजारों बकरी, भव्यू, भेड़ें, अनाज और माल से लदे डुबे, १२३०० फीट ऊंचे भयंकर घाटे (Pass) को तै करके तिब्बत

में जाते हैं, और वहां हुआ तिब्बती लोगों के साथ व्यापार कर, अनाज और कपड़े लत्ते के बदले, ऊन, सोहागा, चंवर, पश्मीने, चुटके आदि माल लेकर लौट आते हैं। कैसा कठिन मार्ग है; कैसे राजसों के साथ व्यापार किया जाता है, इन सब बातों का सविस्तर व्योरा मेरी यात्रा में मिलेगा। डेढ़ दो लाख का व्यापार अकेले ऊंटाधुरा घाटे द्वारा जोहार के लोग करते हैं। रास्ता ऐसा बिकट है कि एक बार हिमालय पार से लौटकर फिर कोई उधर का नाम न ले, परन्तु वे लोग हर साल जान हथेली पर रख कर तिब्बत जाते हैं और अपने उधर का माल उधर पहुंचाते हैं। उनके पुरुषार्थ की जितनी प्रशंसा की जाय कम है।

सहृदय पाठक, मैंने भूमिका के तौर पर आप को जोहार का परिचय कराया है। अब आगे मेरी यात्रा में आप जोहार की सैर करेंगे, जलप्रपात देखेंगे; गोरी नदी के लुभायमान दृश्यों का आनन्द लूटेंगे; मीलम में दस बारह दिन रहेंगे; ग्लेशियरों पर घूमेंगे; देश सेवक भारत-द्वारपाल हिमालय से मुलाकात करेंगे;। कहां तक लिखूं; यह विचित्र यात्रा है।

भोट की सैर

२४ जून बुधवार-सबेरे पांच बजे उठे। वर्षा हो रही थी। छतरियां तान कर चल पड़े। तेजम के पास जो नदी रामगंगा में मिलती है उसको जाकुला कहते हैं। इसका कठिन पुन पार कर, इसके किनारे किनारे, ऊपर पहाड़ पर चढ़े। मखमल जैसी दरियाली से लड़े हुये दो पहाड़ों के बीच यह जाकुला नदी बहती है। घाटी का रास्ता तंग है दसलिये

पहाड़ी दृश्यों का स्वरूप बड़ा बन्य है। स्थान स्थान पर, ऊंची चौड़ी पहाड़ी भूमि पर, भुट्टियों का झोंपड़ियाँ बनी हैं। बादल घाटी में बड़ी मौज से क्रीड़ा कर रहे थे, जिधर का मौका पाते उधर ही उल्ट पड़ते थे। सामने जल प्रपात दिखाई दिया। श्वेत सूत के तागे की तरह जल की धारा पहाड़ पर से बक गति से नीचे आरही थी। क्या ही नैसर्गिक दृश्य था।

चलते चलते एक पहाड़ी नाले के किनारे पहुँचे। चरसी-नाथ तो पीछे था; उदासी साधु मेरे साथ थे। उस नाले के किनारे हम दोनों ने बैठकर हाथ मुँह धोया। यहाँ एक जोंक मेरे पाँव में चिपट गई। उसको छुड़ाया; खून बहने लगा; पाश्र्वों को धो धो कर ठीक किया। इधर बहुत जोकें हैं, यात्री को अपने पाश्र्वों में लम्बी जुराबें पहन लेनी चाहिये। फिर चल पड़े। थोड़ी दूर गये कि बादल फट गया। स्थान स्थान पर ग्रामीण लोग हल चलाते हुए दिखाई दिए। थोड़ी थोड़ी भूमि से फायदा उठाने का उद्योग किया जाता है। पहाड़ी घास बड़ा ही सुन्दर मालूम होता था। 'आहा ! यह दृश्य वर्णन करने के लिए नहीं है; ये तो देखने लायक हैं।

अब चढ़ाई आरम्भ होगई। हमको आज, गिरगांव पहुँचना था। अभी मुश्किल से मील भर गए होंगे कि ऊँचे दूर एक बड़ा रमणीक भ्ररना चमकता हुआ दिखाई दिया। यहाँ मैदान सा आ गया था। इधर उधर दृष्टि दौड़ाने से चारों ऊँची पहाड़ियाँ मानों दीवारों की। मानिन्द खड़ी यह मैदान ठहरने लायक नहीं था इसलिये आ मेरी निगाह उस जल प्रपात की ओर लगी हुई। चढ़ाई चढ़ने पर एक पुल दिखाई दिया। दूसरे किनारे पर स्नान

मैंने विचार किया कि गिरगांव पहुँचकर स्नान करूँगा और वहीं उस झरने को भी देखूँगा। मगर कहाँ! भूख सख्त लगी हुई थी और खाने को कुछ पास में था नहीं। दो मील से ज़ियादा चढ़ाई चढ़ने पर गिरगांव की झोपड़ियाँ दिखाई दीं। गिरगांव क्या था? छी: ! छी: !! छी: !!! घासफूस की पन्द्रह बीस झोपड़ियाँ। अब क्या किया जाता, उदासी भी आ पहुँचा था। बड़ी मिन्नत खुशामदसे पाँच रोटियाँ मिलीं और तीन पाव छाछ। छाछ तो मैं पिया नहीं करता, सो मेरे हिस्से में अढ़ाई रोटियाँ ही आईं। उनको खाकर मैंने सेर भर जल पिया, तब कहीं होश ठिकाने आया। यात्री को थोड़ा सा खाना चलते समय जरूर साथ रखना चाहिये। मैंने बड़ी भूल की थी जिसकी काफी सज़ा मुझको मिली। मेरा असबाब शामाधुरा में रह गया था। उसी में खाने का सामान भी था। कुर्ती अर्धा आया नहीं था, इसलिये यह सब कष्ट हुआ। वारह बज चुके थे। मनस्यारी गिरगांव से दारदनील है। हम लोग दस ग्यारह मील चल चुके थे। गिरगांव में रातको ठहरने का कोई स्थान नहीं था, इस लिये यहाँ से चलना ही उचित समझा। दिल कड़ा कर चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर विकट चढ़ाई शुरू होगई। जो अढ़ाई रोटी खाई थी वे सब स्वाहा होगई; पेशाब जो आया वह नानो रक्त था। लाछ भुरख! यह क्या? मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिये। कहे चले गये। बहुत ऊँचे आगये थे; दादलों की पुन्ध में छिप गये। उठे डे काले मुँह वाले लंगूर इधर उधर वृक्षों पर कित्ताड़ी मार रहे थे। भूयने बड़ा जोर पाँचा। जब चढ़ाई गतम हुई तो निश्चयने आया। यहाँ दो चार मिन्ट बैठकर सुन्ना लिया। काश विलकुल साफ था। चढ़ाई तबम होने पर प्रश्न ही

भन्डियां देखने में आईं । भुटिआ लोग चढ़ाई खतम होनेपर, या पड़ाव के निकट ऐसी ऐसी भन्डिया टांग देते हैं । रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े वृद्धों, की शाखाओं या पत्थरों से बांध देते हैं, इससे यात्री को धीरज होजाता है ।

अब उतार आरम्भ हुआ । घना जंगल स्थान स्थान पर नाले, सुन्दर झरने, एक से एक बढ़िया, क्या कहना है । अभी हमें तीन चारमील जाना था । मुझे बेतरह भूख लगी हुई थी । एक पहाड़ी किसान अपनी स्त्री के साथ आ रहा था । मैंने उससे सत्तू मांगा । उसकी दयावती स्त्री ने फौरन तीन चार मुट्ठी सत्तू और दो आलूबुखारे के फल हमें दिये । मैंने जन्म से कभी सत्तू नहीं खाया था, आज अपनी जिन्दगी में मैंने पहिली बार उस सत्तू का स्वाद चखा, जिसके द्वारा लाखों भारतवासी पेट की ज्वाला बुझाते हैं । धन्य मेरे भाग्य जो मुझे भी अपने देश के निधन बच्चों का खाना नसीब हुआ । धारे पर बैठकर उसको खाया ; क्या आनन्द आया । बाहरी भूख, सच्चा आनन्द तो भोजन का तेरेही अन्दर है । पेट को कुछ शान्त कर फिर बढ़े । आधमील की और विकट चढ़ाई पड़ी । सड़क महा रही । झरनों तथा नालों का पानी सड़क पर बह रहा था । दूर तक सड़क भीगी हुई मिली ; मच्छर और मक्खियों की भरमार है । अब खेदब उतार आरम्भ हुआ । बीच बीच में पंचाचूली की बर्फानी चोटियां भी दीख पड़ती थीं । किसी प्रकार चलते चलते, टूटे फूटे पत्थरों पर लुडकते पुढ़कते, सड़क को ऐसी गिरी दशा में रखने वाले अधिकारियों को कोसते हुये बढ़े चले गये । मनस्यारी आगई । छुः बजने वाले धे । सड़क पर कुछ लोग बड़े प्रेम से मिले । उनका मैं हृदय

से धन्यवाद करता हूँ। चुम्बु थके हारे के स्नान का प्रबन्ध किया। ठण्डे शीतल जल से बाहिर खुले में स्नान किया; बाद में बरके अन्दर गये। मेरे प्रेमियों ने एक कमरे में मुझे ठहराया; उदासी को नीचे स्थान मिला। सामने पंचाचुली की चोटियाँ दिखाई देती थीं। मैंने उनको प्रणाम किया। आज हिमालय के पूर्वाधार के कंगूरों के दर्शन अच्छी प्रकार हुए। रात को दाल रोटी खाकर सो रहे।

२५ जून शुक्रवार—आज दिन भर आराम किया। थोड़ा समय जातीलाप में स्नान किया। शिक्षा सम्बन्धी उपदेश कुछ भाष्यों को दिया। जहाँ के लोग स्नान नहीं करते इस लिये उनके कपड़ों में बहुत जूरा होती है। मैंने हलते कपड़ों में लेंकर आँढ़ा, मेरे कपड़ों में भी लरलर जूरा लगे लगी। दुपहर के बाद कुली मेरा बसवाव से आया था हललिये अपने कपड़े भाङ्गभूङ्ग ठीककर मैंने अपनी बडर ओढ़ी। पात बहुत अधिक सरदी नहीं। लोगों की पोशाक सिद्धिग है। एक लम्बा लगादा सा घुटनों से नीचे तक होता है; सज पर मध्य में पटका लपेटते हैं। कपड़े जैसे कुचैले होते हैं। शो थोडा बहुत बडे लिंगे हैं उन्होंने अंग्रेजी डन के फोट पहनने शुरू किये हैं। माली सप लवादा, पाजागा, पटका, टोपी पहनने हैं। लवादे के नीचे गरम कुरने फुवुदी आदि फल लेते हैं। जिन् किन्ही को देखो वही नृत कान रात है। लडू, सा लथ में लिये हुये उन को घुमा घुमाकर ऊनी नृत कानते राने हैं; कटेने रडे नरक्या केनभर यही काम है। रात करने जादने और रागना भी गारी रहेगा। लरहे चैदरे मंगोलियन हैं; कोई कोई केनने में लुभुरत भी होते हैं। यहाँ माली मण्डरों की कानायनदे। तो घर के अन्दर चहरा हुआ था; इन लारना काने कम

हुआ । जो लोग पहाड़ी धर्मशालाओं में ठहरते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है । पहाड़ी धर्मशालाये बड़ी गन्दी होती हैं । प्रायः साधु लोग गुफाओं में ठहरते हैं । गुफायें इधर जगह जगह होती हैं । प्रकृति माता दयाकर अपने बच्चों को ठहरने के लिये ये सब सामान कर देती है ।

आज रात को उस उदासी साधु से कुछ विगड़ गई । मेरा रूमाल, जिसमें कुछ नकदी बन्धी थी, विस्तरे पर से किसी ने उठा लिया । उस रूमाल को मैंने उदासी महाशय के सामने रखा था । अपना शक होजाने के कारण मैंने उस भले मानस से कहा कि ऊपर गुफा में सरसीनाथ के पास जाकर ठहर जाइये । उसे घुरा लगा । वह बडबड़ाता चला गया ।

२६ जून शनिवार—आज भी आराम किया । थोड़ा बाहर घूमने गए । मनस्यारी बेटंगा सा ग्राम है । यहाँ के पशुओं की खाल पर बड़े २ बाल होते हैं । यहां मैंने पहिली बार भूबू देखा । भूबू पहाड़ी गाय और तिब्बती सांड (Yak) की सन्तति है । इसकी दुम चवरगाय की तरह होती है । शरीर पर भी बाल होते हैं । यह लहद जानवर इन बर्फानी पहाडों में बड़ा काम देता है । बेयारा बड़ा सीधा डरपोक जानवर है । यहां की स्त्रियां जापानी स्त्रियों की तरह बच्चों को पीठ पर लादे लादे काम करती हैं । कल चलाने का निश्चय होगया ।

२७ जून रविवार—मनस्यारी गोरीफाटमें कई एक ग्रामों के समूह का नाम है । वहां जोहार भर का डाकघर है । पाठशाला भी है । जोहारियों के ऊपर नीचे जाने का यह अड्डा है । यहां से आज सवेरे मैं अकेला चला । मेरा असबाब मनस्यारी के एक सज्जन के पास था । वे अपनी भेड़ बकरियों के साथ पीछे पीछे आ रहे थे । दो नील के उतार के बाद मैं नीचे

पोस्टऑफिस के पास पहुंचा। यहां कुछ देर ठहर कर आगे बढ़ा। उदासी और चरसीनाथ भी आ पहुंचे थे। हम लोग तीनों बढ़े चले गये। बकरियों वाले धीरे धीरे आ रहे थे। अब रास्ता गोरी नदी के किनारे किनारे जाने का था। गोरी नदी की उबल कूद देखने लायक थी। पहाड़ों से भागी चली आ रही थी। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे गोरी नदी का रूप भयावना होता जाता था। उसीने पिता हिमालय से लडभगड कर दुर्गम पर्वतों में से रास्ता काटा है। पहाड़। सड़क खराब है। कहीं कहीं तो निहायत तंग, जहां से केवल एक मनुष्य मुश्किल से गुजर सके और यदि कहीं पांव रपटे तो नीचे गोरी के काले पेट में समा जाय। वेढव उतार चढाव हैं। पत्थरों की तंग सीढियां यानी का नाक में दम करती हैं। सैकड़ों सीढियां चढकर ऊपर जाना, फिर सैकड़ों सीढियों का उतार, फिर घुमा देता है। सड़क बेतरह खराब है। मालम होता है जैसे इधर किसी सभ्य गवर्नमेन्ट का राज्य नहीं है।

मैं अहेला आगे आगे जा रहा था। साथी सब पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। एक स्थान पर पहाड़ी नाले के पास चट्टान पर शौच के लिये जो ऊपर चढा तो एक प्रकार के वन्य पौधे के पत्तों से मेरी टांगें लूंगईं। जीः! नागों विच्छृ आट गया। बड़ी जलन होने लगी। यह विच्छृ वन्य जलजाना है। पहाड़ों में यह बहुत होता है। चुलने पर इनके रेंगों की रश्मियां मारती हैं। इसी वरी पत्तियों का शक भी लोग मानते हैं। ई जलप्रपात देखने में आए। पहाड़ी नाले गोरी की नाला का कर उसका अभिमान बढा रहे थे। गोरी का रंग नीला है, पर पेट की बड़ी काली है। इनमें बरगी का भय है। जाय तो बस गया। क्रोध से जगों दुर्ग जगों हैं नागों

घर वालों ने पीट पाट कर निकाला है। पुलों को तोड़ मरोड़ कर फेंकना, पत्थरों को चकनाचूर कर देना, बरूरी भेड़ भञ्जू को डकार जाना, ये इसकी करतूतें हैं। खूब लड़ती, भगड़ती, गालियाँ देती जा रही है। सड़क पर चलने वाले यात्री की छानी धक धक करने लगती है। ऐसे भयानक मार्ग से ये जोहारी हरसाल कैसे जाते होंगे? यही सोचता हुआ मैं जा रहा था। परन्तु दृश्य बड़े मनोहर है। एक जगह गोरी ऊपर से नीचे कूदी है। वहाँ ऊपर चट्टानों की दरारों और सुरक्षित स्थानों पर मधुमक्खियों के सैकड़ों लुत्ते देखने में आए। इन श्रमजीवी मक्खियों ने कैसा स्थान ढूँढ़ा है। मनुष्य जहाँ आध घंटा ठहरता हुआ डरने लगे; रात को जहाँ वीर मनुष्य भी डेरा करने से हिचकिचाए; उस वन्य स्थान में इन्होंने अपने घर बनाए हैं। न जाने कब से इनकी वस्ती यहाँ पर है। ईश्वर की माया विचित्र है।

१२ वजे के करीब एक खुले स्थान पर पहुँचे। गोरी नदी के किनारे पर यहाँ कुछ चौरस ज़मीन है। इर्द गिर्द दोनों ओर ऊँचे २ पहाड़ हैं। नदी ने जहाँ जहाँ पर्वतों को काटा है उसके चिन्ह देखने में आते हैं। पहले गोरी इस चौरस भूमि की ओर बहती थी और इस घाटी के बीच में से जाने का मार्ग था। भुट्टिए लोग ऊपर ऊपर पहाड़ों की चोटियों के निकट तक पहुँच कर, फिर भयानक उतार को पूरा कर तब पगडन्डी पकड़ते थे। बहुत ही दुर्गम पथ था। मनस्थारी के एक परोपकारी सज्जन ने अपने पास से रुपया खर्च कर बन्द वंघवा कर नदी को एक ओर करवा दिया है। अब बायें किनारे की ओर भूमि निकल आई है जहाँ व्यापारी आकर दम लेते हैं और भोजनादि बनाते हैं। जो प्रेमी मेरे साथ था

उसने मेरे लिये रोटी बना दी। नमकके साथ सूखी रोटी चाकर ठण्डा जल पिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। मुझे बैठा हुआ देख बहुत से डूमड़े मेरे ईर्द गिर्द आकर खड़े हो गये। ये लोग सलाम करते हैं। मैंने उनको समझाया कि आप लोग राम राम किया करें, सलाम हमारी सभ्यता का सूचक नहीं है। वे मेरे उपदेश से बड़े प्रसन्न हुये। इन बेचारों के साथ इधर के हिन्दू बुरा सलूक करते हैं। इस लिये कइयों ने ईसाई मत की दीक्षा ले ली है।

खैर भोजन कर चल पड़े। गोरीके कई एक सहायक नाले रास्ते में मिले। उनकी बहार देखते हुये आगे बढ़े। रास्ते में विच्छुभाड बहुत देखने में आया। इससे बचकर चलना पड़ता था। जरा सा छू जाने पर जलन होने लगती थी। मुझे कई बार इजने बड़ा कष्ट पहुंचाया।

पांच बज चुके थे मानूस होता था जैसे गिलकुल मन्ध्या होगई है सामने बर्फानी चोटियों की झलक मात्र दिग्वाई देती थी। मैं अपने सब कपडे पीछे छोड आया था, केवल एकही स्वीटर मेरे पास था। जब बागड्वार पहुंचे तो गाम्नी सरदी हो गई। मेरे प्रेमी ने जाते ही ठहरने का प्रबन्ध किया। प्रबन्ध क्या किया? एक बड़े पत्थर के ढाँके के नीचे गुफा सी बनी हुई थी उन्नी में जाकर बैठ गये। चट्टान जहां ऊपर से नीचे आने में अन्दर को और डलपान हो जाती है वही गुफा सी बन जाती है। ऐसी ही गुफा में जाकर उठ गये। एक छोटी सी धर्मशाला भी यहांपर है। उममे टमडों के परिवार उहरे पूरे थे; उनके पशुओं ने धर्मशाला को गन्धा रू रकमा था। बागड्वार को आप एक जंरुजन नमोभये। गोरी का एक सहायक नाला गड़ गड़ करता हुआ उसमें आकर यहां मिला है, उन्नी

कौ पार करने पर जो त्रिकोण बनता है, वहीं हम लोग ठहर गए थे। दहने हाथ गोरी और बायें हाथ पहाड़ी नाला, बीच के दोआब में बागड्वार है। यहां भुटियाओं का बहुतसा माल कई दिन पड़ा रहता है। हजारों रुपये का माल रास्ते में एक ओर रखा रहता है। कोई नहीं छेड़ता, सब अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसका माल है वह उसके ऊपर एक पत्थर रख देता है वस इसीसे दूसरे व्यापारी भुटिये समझते हैं कि यह माल सहेजा हुआ है। कोई उसको छूता भी नहीं। मेरे प्रेमी केसर-सिंह जी ने मेरे लिये एक दो कम्बलों का प्रबन्ध कर दिया, खाने के लिए चावल और सूखी मूली की तरकारी बना दी, उसीसे कुछ पेट पूजा हुई। आज पहली बार मैंने भुटिया चाय का एक घूंट पिया। मुझे इनकी चाय बिलकुल अच्छी नहीं लगी, ये लोग अपनी खाय में चीनी की जगह नमक और दूध की जगह घी डालते हैं। इनको यही अच्छी लगती है। अपनी रुचि है। आठ बजे के करीब चरसीनाथ भी भूले भटके आ निकले। इनको जोंकों ने रास्ते में बेतरह सताया। बेचारे रास्ता भूलकर अथक पहाड़ों में भटकते रहे थे। उनका भी प्रबन्ध किया गया। रात कट गई।

२८ जून सोमवार—सवेरे चल पड़े। आज रास्ता और भी दुर्गम मिला। गोरी के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी। नीचे गोरी नदी, ऊपर बर्फ का पुल—कैसा नवीन दृश्य देखने में आया। उस बर्फ के ऊपर, धीरे धीरे लकड़ों के सहारे चले। केसर-सिंह जी की सहायता से निकल गए। सर्दियों में तो यह घाटी बर्फ से ढकी रहती है और कोई मनुष्य, पशु मनस्यारी से मीलम आ जा नहीं सकता। जब अप्रैल के आरम्भ में बर्फ पिघलनी शुरू होती है; तो धीरे धीरे घाटी का मार्ग खुलता है।

जून के अन्त तक कहीं कहीं गहरे में बर्फ जमी रहती है। व्यापारी लोग उसी पर से होकर आते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बर्फ नीचे से नर्म हो गई, किसी भुटिए ने उसको तोड़ कर रास्ता ठीक करना चाहा, पैर फिसल गया और वह बेचारा नीचे गोरी नदी में पड़ुंष गया। फिर उसका पता कहीं ! यही कारण मेरे धीरे धीरे आगे पड़ा था।

चलते चलाने, उतार चढ़ाव पूरा करते पांच मील निकल गए। अब तक मुझे रास्ता चलते समय बहुत पसीना होता था और मेरे कपड़े भीग जाते थे, मगर आज पसीना नहीं आया। यह तेज हवा की कृपा थी। बड़ा तेज़, ठण्डा वायु इन पर्वतों पर चलता है। यदि बात्री साधदान न हो तो पैर से उखाड़ कर नीचे घाटी में गिरा देता है। मैं पांच मील चल कर गोरी के एक और सहायक पहाड़ी जैसे के पास पहुँचे। उस नाले का पुल पंचवाने धारोठेफेदार के पास जाकर टहरे। धूप निकल आई थी; आकाश निर्मल था। बर्फानी जल में स्नान किया। ठेकेदार के ब्राह्मण नौर ने भोजन रचाया और मुझे नदी अक्षा से छिटाया।

भोजनोपरान्त आगे का रास्ता लिया। बरगी, भेटें ले जाने हुए भुटिए व्यापारी बरतदर आने वाले हुए मिले। अब अच्छी ऊँचाई पर आगने थे। चारण हज़ार फीट की ऊँचाई से क्या कम होंगे। चारों तरफ पहाटों की श्रोटियों पर शीत बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। उनमें से जल भी ज्येन आगने निकल निकल तर गोरी नदी से मिलने के लिये उठती कूटनी जा रही थी। एक चौरस पहाड़ी मैदान में पहुँचे। यहाँ आधा पीलने की चकती लगी हुई है। यहाँ का एक निरानी मिला जो वर्ष न होने की शिक्षावन तर रहा था। मुझे गर्म

हंसी आई। इतने नाले इर्द गिर्द वह रहे हैं इन्हें इतनी बुद्धि नहीं जो नालों से जल लेकर पृथ्वी सींच लें। वर्षा के सहारे बैठे हैं। सच है मूर्ख के पांश्रों के नीचे चाहे खजाना हो पर उसको उससे कुछ लाभ नहीं। विद्वान पुरुष ही उसको खोद कर काम में ला सकता है। इसी तरह यहाँ के लोग हैं। इतनी चौरस भूमि में जल पहुंचाकर अनाज पैदा कर सकते हैं किन्तु उतनी इनको बुद्धि नहीं। जो कुछ वावा आदम से चला आता है वही इनके लिए ठीक है।

इस पनचक्की वाले गांव से निकल कर आगे बढ़े। बुर्फू का गांव अत्र निकट ही था। पहाड़ी रास्ता घूमकर जो ऊपर चढ़े तो सामने बर्फ से लदी हुई तीन चार चोटियाँ दिखाई दीं। यही द्वारपाल हिमालय के श्वेतभवन के कंगूरे हैं। आज पहिलीवार इतने निकट से इनके दर्शन हुए। प्रभुको धन्यवाद दिया।

बुर्फू की ओर जाने वाला रास्ता बहुत खराब है। कच्चा पहाड़ है; बर्फ ने इत्तको चूर चूर कर दिया है। जैसे किसी पहाड़ी चट्टान के नीचे बाख़द लगा देने से उसके भाग छिन्न भिन्न होजाते हैं यही दशा यहाँ मेंने देखी। रास्तेकी यह दशा, कि यदि एक छोटा सा पत्थर फिसल पड़े तो पाश्रों के नीचे की वजरी निकल निकल कर नीचे वही चली जाती है और प्राण वचाना कठिन हो जाता है। आप पूछेंगे कि यह रास्ता पक्का नहीं है? पक्का कैसे हो। जब शीतकाल में इर्द गिर्द के पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और यह घाटी भी हिमसे सफेद हो जाती है तो बर्फ इन पहाड़ों के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार करती है। जैसे सांप किसी पशु को अपनी लंबी देह से फांस कर उसको जकड़ लेता है और पशु की हड्डियाँ

तोड़ डालता है, इसी प्रकार यह हिम भी करती है। वर्षा ऋतु में पानी पर्वतों के छिद्रों में भर जाता है। अक्तूबरमें बर्फ पडने लगती है। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी—इन चार महीनों के कड़कड़ाते जाड़े में—उन छिद्रों का जल, बर्फ बनकर अपना आकार बढ़ाता है। वे छिद्र फट जाते हैं; उनकी सङ्गठन शक्ति जाती रहती है, वे अलग अलग हो जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब बर्फ पिघलती है तो बड़े बड़े बर्फ के ढोंके चौटियों से खिसकते हैं, वे अपने जगह से चलते हैं। किस की शक्ति है जो उनका रास्ता रोक सके। सब को पीसते हुए, बड़ी गर्जना करते हुए वे नीचे घाटी में आते हैं। सड़क के पत्थरों और नदियों के पुलों को तोड़ते हुए गोरी में पहुंचते हैं। भला इनके आगे सड़क क्या ठहर सकती है वे उसको हड़ी पसली तोड़ देते हैं। हर साल सड़क की मरम्मत हो, तब काम चलता है। इन बेचारे भुटियों को यह सब सहना पड़ता है।

शाम को बुर्फु पहुंच गये। गोरी नदी का पुल पारकर, मील भर की चढ़ाई चढ़ कर गाओमें पहुंचे। बुर्फु पुराना ग्राम है। दो सौ घरों की बस्ती होगी। यहां आजकल सब घर भरे थे। मनस्यारी तथा उसके इरद गिरद गोरीफाट के ग्रामों के लोग अपने परिवारों सहित गरमियों में मल्लाजांहाट में आजाते हैं, स्कूल भी इन दिनोंमें खुल जाता है। छोटे छोटे फुर्तले भुटिया लडाकियां लड़के इधर उधर खेल कूद रहे थे। मैं धर्मशाला में जाकर ठहरा। यहां भी मेरे आनेकी गबर थी, इसलिये सब प्रबन्ध होगया। लोग मिलने के लिये आए। उनको जुए की बुराइयां स्वराचार की महिमा तथा जगद के दोष समझाए। हाथ, पैर, नुंह धोकर परमात्मा की प्रार्थना

की, तदुपरान्त पांच चार कम्बल ओढ़कर से गये।

२६ जून मंगलवार—रात जूओं के मारे बड़ी कठिनाई से कटी। इन भुट्टियों के कपड़ों में बहुत जुए होती हैं। ये लोग स्नान कम करते हैं और सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते, इसलिये इनके कपड़ों में कृमि पड़ जाते हैं। जो कम्बल मैंने इन लोगों से लिए थे उनमें 'सर सर' जुए चलती थीं। क्या किया जाता किसी प्रकार रात बिताई।

सान वजे सवेरे एक डूमड़े का लड़का पथप्रदर्शक के तौर पर साथ हो लिया। रास्ते से अनभिन्न होने के कारण उसकी ज़रूरत थी। केसरसिंह मेरे साथ बुर्फु नहीं आये थे, वे मीलम पहुंच गये। रास्ते से भलीप्रकार परिचित होने के कारण उन्हाने संध्या को ही अपना मार्ग तै कर लिया और अपने घर में जाकर आराम से सोए।

मैं उस डूमड़े के छोकरे के साथ होलिया। आज गोरी के दहिने किनारे चले। किनारे से यह मत समझिये कि बिलकुल किनारे ही, गोरी से कमसे कम चारसौ फीट की ऊंचाई पर की पगडण्डी पर जा रहे थे। दो मील पर बिलजू नाम का ग्राम है। वहां पहुंचे। औरतें पहाड़ी नदी से तांबे के मटकों में पानी भर भर कर अपने घरों का ले जा रही थीं। छोटे २ लड़के गलियों में खड़े मुझे देख रहे थे। उनकी भोली भाली मगोली सूरत पुष्ट हाथ पैर, गठीला बदन चित्त को प्रमत्त करता था। मैंने सोचा—'कैली अच्छी सामग्री यहां पर देश भक्तों के लिये है। इन दरवनों पर से क्या क्या काम नहीं हो सकते। थोड़ी जागृति चाहिये। यही बालक कट्टर देशभक्त बन कर माता का दुख दूर कर सकते हैं'। मन के साथ इन प्रकार की बातें करता हुआ चला। आगे बढ़कर नन्दा देवी के

भव्यदर्शन हुये । एक रास्ता नन्दाकोट को बायें हाथ की ओर से गढ़वाल जाता है । उसी रास्ते में ठीक सामने, आकाश से बातें करती हुई, सफेद चमकती हुई दो चोटियां दिखाई देती हैं । मीलम जानेवाली पगडण्डी से ये दोनों चोटियां बिलकुल पास मालूम होती हैं । इन दिनों आकाश निर्मल रहता है । नीले आकाश में, उन्नत मुख किये, नन्दादेवी साभिमान खड़ी है । बायें ओर 'वनकटा' नाम की चोटी है, उसकी आकृति कुल्हाड़े जैसे होने से उसका ऐसा नाम पड़ गया है । मैं उस चोटी का नाम परशुराम रखता हूँ ।

नन्दा देवी को प्रणाम करने के बाद मैंने परशुराम जीको नमस्कार किया और उनकी शोभा देखी । रुई एक विकट स्थानों को कूदते फांदते फरु पुल के पास पहुंचे । यह पुल गोरी की सहायक नदी बखा पर बंधा है । इसको देखने से भी डर लगता है; बड़ी विगड़ी हुई नदी है । इसके कमजोर पुल पर डरते डरते पाँच रक्खा । पार करनेके बाद ईश्वरको धन्यवाद दिया । अब मीलम के मैदान में पहुंच गये । सामने पर्वत के नीचे घाटी में पत्थरों के मकान दिखाई देते थे । उनकी तरफ बढ़े । पिलखिलाती धूप बड़ा सुख देरही थी । सूर्यदेव हंसहंस कर घाटी में प्रकाश डाल प्रकृति का लौन्दर्य बढ़ाते थे । सामने पर्वतों पर बर्फ पड़ी थी । कुछ दूर उत्तर पश्चिम में बर्फने लदी हुई चोटियां अपनी अनोखी छटा दिना रही थीं । कहना या, चारों ओर बर्फनी चोटियों से घिरे हुये एक मीलम ग्राम में मैंने प्रवेश किया । भारतवर्ष का इस ओर यह अन्तिम ग्राम है, इसके आगे हिमालय का श्वेत भवन है, जिन्को तांत्रिक तन्त्रित जाना पडता है । आर्ये पाठक, नीलम या थीं प्रवेश करें और पूज्य हिमालय के श्वेत भवन में जन्तरी लगाने में ररें ।

मीलम तीन सौ घरों का ग्राम है। सब मकान पत्थर के हैं। जब मैंने ग्राम में प्रवेश किया तो नौ बजने वाले थे। डूमड़े के छोरे को मैंने वापिस बुर्फू भेज दिया। भुट्टिआ लोग मुझे बड़े प्रेम से मिले। केसरसिंह जी भी यहां मौजूद थे। उन्होंने रायवहादुर कृष्णसिंह जी के मकान में मेरे ठहरने का प्रबन्ध कर दिया। रायवहादुर साहब पड़े सज्जन पुरुष हैं। वे संसार के उन साहसी पुरुषों में से हैं जो अपनी जान को हथेली पर रख कर मनुष्य मात्रके लाभ के लिये पृथिवी के कठिन भागों की खोज करते हैं। उन्होंने तिब्बत में घूम घूम कर वहां के नकशे तय्यार किये हैं। यदि वे किसी यूरोपियन देश में उत्पन्न होते तो सारा सभ्य संसार उनके गुणों से परिचित होता। और वे एक प्रसिद्ध Explorer अन्वेषक माने जाते। मैं उनके विषय में अधिक आगे चलकर लिखूंगा।

गोरी नदी के किनारे मुझे ठहरने का स्थान मिला। कई एक विद्यार्थी आकर इकट्ठे होगये। उन्होंने मकान भाड़ने बुहारने में सहायता दी। दो जने मेरे साथ गोरी पर गये। बर्फ के टुकड़े नदी में बहे आ रहे थे। कैसा ठण्डा जल होगा, पाठक अनुमान कर सकत है। उस जल से मैंने स्नान किया और अपनी थकावट मिटाई। नहा धोकर अपने मकान पर आये और भोजन किया।

कैसा अच्छा स्थान है। आजकल तो यहां आनन्द है, मक्खी, मच्छर 'खटमल' विच्छू कुल्लू नहीं। खिलजिलानी धूपमें बाहर घास पर चटाई बिछाकर मैं लेट गया। धूप कैसी अच्छी मालूम होती थी। इस जून के महीने में यहां पूष माघ से अधिक सरदी पड़ती है; खाने का खूब मज़ा आता है। ऊंचाई बारह हजार फीट से अधिक है इस लिये वृत्तोंका यहां शभाव

ही है; हां घास होता है। सामने पहाड़ों पर झाड़ियों जैसे सरु का जंगल दिखलाई देता था। सरदी के मारे वनस्पति भी अपनी माता पृथ्वी के गर्भ में घुसी पडती है। आनन्द है, आनन्द है; धूपका खूब आनन्द लूटा। शाम होगई। भोजनोपरान्त सो गये।

३० जून से ११ जौलाई रविवार तक—ग्यारह बारह दिन मीलम में रहे। खूब घूमे। गोरी नदी का बर्फानी पहाड़ (ग्लेशियर) पासही है। एक दिन सवेरे, मैं अपने स्नेही श्रीखड्ग रायजी के साथ गोरी नदी के किनारे किनारे उसका ग्लेशियर देखने गया। मेरे स्थान से यह बर्फ का पहाड़ सवा मील पर होगा। घूमते २ चले गये। सामने ऊंची काली काली पहाड़ी के बीच में से गोरी आरही थी। जैसे पर्वत काटकर बड़ी बड़ी सुरंगे रेल जाने के लिये बनाई जाती हैं, ऐसी ही सुरंग के सामने हम दोनों पहुँच गये। बर्फ पर चढ़ना शुरू किया। बर्फ का पहाड़ काला क्यों? कारण यह था कि इर्द गिर्द के पहाड़ों पर से फिसलकर आने में बर्फ अपने साथ बहुतसे पत्थर मिट्टी ले आती है, बर्फ तो पिघलकर नीचे नदी में जा रही है, मिट्टी पत्थर देचार अपनी भोंड़ी स्वरत में ऊपर रहजाते हैं। यही उस पहाड़ का कालापन है। नीचे ठोस, सफेद बर्फ जमी हुई है। कई नाले ऊपर पर्वतों से भाग भाग कर इसमें मिल रहे थे। उनकी भी सुरंगें बनी हुई थीं जिन में यदि कोई गिरजाये तो फिर जीता निरुलना असंभव है। इधर उधर घूम कर इस निर्जन पर्वत को देखा। मानूम तौना है कि यह ग्लेशियर बहुत बड़ा था। मालूम वासी भुटिए भी यही कहते हैं कि यह ग्लेशियर मीलम के बिल्कुल पास था। धीरे २ बर्फ पिघली जा रही है और ग्लेशियर पीछे हट रहा है। बर्फ के बिन्ह पहाड़ों पर बने दुये हैं, नीचे नीचे हटने की

लकीरें साफ दिखाई देती हैं ।

दो घंटा इधर उधर घूमकर मैं अपने प्रेमी के साथ लौट आया । रास्ते में एक चरवाहा भेड़ें चराता हुआ मिला । इधर इन पहाड़ों पर उसी जंगली झाड़ियों को खाकर भेड़ें और बकरी खूब मोटे होते हैं । मैंने उस चरवाहे से यह सब बातें पूछी । यद्यपि वह विल्कुल अशिक्षित था पर बातें समझ की करता था । शिक्षा फैलने से ये लोग भी अच्छे चतुर हो सकते हैं ।

गोरी मीलम के उत्तर पश्चिम गढ़वाल की तरफ से आती है । गढ़वाल और अल्मोड़ा की सीमा बर्फानी चौटियाँ से घिरी है । मीलम के पश्चिम गढ़वाल की तरफ नन्दादेवी २५८५० फीट ऊंची आकाश से बातें कर रही है । उसकी पंद्रह सखियां ऐसी हैं जो प्रत्येक बीस हजार फाट से अधिक ऊंची हैं । नन्दादेवी के दक्षिण की ओर त्रिशूल की तीन ऊंची चौटियाँ हैं, जो २३००० फीट से भी अधिक ऊंची हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ नन्दाकोट २२६५० फीट ऊंचा अपना जोवन दिखा रहा है । इस प्रकार मीलम के पास हिमालय के श्वेत भवन के कई एक प्रसिद्ध कंगूरे हैं । गोरी की गड़गड़ चौबीस घंटों रहती है, और उसी के द्वारा दो तीन, पनचक्रियां आटा पीस पीस कर मीलमवालों की सेवा कर रही हैं । लोग इसी गोरी का मैला पानी पीन हैं और इसे बड़ा गुणकारी बनलाते हैं । घाटी के बीच एक तरफ उत्तर पूर्व की ओर ग्राम बसा है । दक्षिण की ओर पहाड़ के नीचे गोरी बहती है । दो मील दक्षिण की ओर नदी के किनारे पांच ग्राम और हैं । तीन मील पूर्व की ओर विलजू ग्राम है । यहां मीलम में लन्दन मिशन की ओर से पादरी, भुटिये व्यापारियों के साथ साथ जून में

ऊपर आजाते हैं। और सेप्टेम्बर में नीचे चले जाते हैं। इनका एक बड़ा अच्छा बंगला बना है। कायइन बेचारी का अब ढीला हो गया है कहते हैं पहले इनका अच्छा जोर था। जब कुछ वार्गों परिश्रम करने के बाद कुछ विशेष परिणाम न निकला तो लाचार होकर मिशन ने खर्च कम कर दिया, अब साधारण तौर पर कार्य होता है। जो मिशनरी आजकल यहां हैं वे सज्जन पुरुष हैं। मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया।

मीलम के उत्तर से वक्खा नदी आकर गोरी से मिली है और एक नदी नन्दादेवी से निकल कर गोरी की सहायक बनी है। यहां कोई अच्छी दुकान नहीं, सब नीचे से अपने-अपने काम के लिये रसद सामान लाते हैं। कई कई महीनों का सामान साथ रखना पड़ता है। भाजी तरकारी सुख्खाई हुई साथ रखते हैं। औरतें बड़ी मजबूत और मेहनती हैं, गोरी नदी से पानी भर कर लाती हैं और घर का सारा काम बड़े सुचारु रूप से करती हैं।

मैंने यहां पर व्याख्यान दिए, शिक्षा की उपयोगिता तथा अमली धर्म के सिद्धान्तों को समझाया। लोग बड़े प्रसन्न हुए यहाँ कई एक पहाड़ी यात्री आकर इकट्ठे होगये थे। मुझिए लोगोंने इनकी यथाशक्ति सहायताकी। पांचचार साधुभी नीचे जैदान से यात्रा के लिये आ गये थे, उनके भी इन लोगों ने कम्बल दिये, गुड मसू का भी प्रबंध कर दिया। मुझे भी कपड़ों की जरूरत थी क्योंकि मैं अपने साथ बहुत कम कपड़ा लाया था। श्री विजयसिंह पांगटी बड़े धर्मात्मा सज्जन हैं। उनके भाई भी बड़े योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने तथा प्रेमी गङ्ग-राय जीने मिलकर मेरे लिये सब प्रबंध कर दिया। एक प्रन्दा गरम कश्मीरे का ओवरकोट बनवाया। श्री नुसहालसिंह बूड़ा

श्रीर श्री दीपसिंह ने भी हाथ बटाया। मुझे जो सामान दर-
कार था उसका प्रबंध इन भुटिये सज्जनों ने प्रसन्नता पूर्वक
कर दिया, जिसके लिये मैं इन भाग्यों का बड़ा कृतज्ञ हूँ। यदि
ये लोग हाथ न बटाते तो मेरी तिब्बतयात्रा कुशल पूर्वक कभी
नहीं हो सकती थी।

ध्यारह बारह दिन मीलम में रहकर अपनी विकट यात्रा
की तय्यारियां करते रहे। भुटिए लोग भी अपने माल असबाब
लादने की भोलियां सीने तथा अपने परिवार के लिये तीन
महीने का सामान जुटाने में लगे थे। तिब्बत की यात्रा करना
मानो यमलोक जाकर लौटना है। उसके लिये पूरा सामान
करना पड़ता है; जंगल से लकड़ी काट काट कर ढकढ्ठी करनी
पड़ती है, क्योंकि जब भुटिये व्यापारी तिब्बत चले जाते हैं तो
मीलम में सिवाय उनकी स्त्री बच्चों के और कोई नहीं रह
जाता। कोई बीमार बुढ़ा भलाहीं रह जाय, नहीं तो प्रायः सभी
पुरुष व्यापार करने जाते हैं। तिब्बत से कई दुरिए हिमालय
पार कर अपनी भेड़ें मीलम में ले आते हैं और उनकी ऊन
बेचकर अनाज और कपड़ा ले जाते हैं। वे लोग अपने अपने
व्यापारी के यहां जाते हैं और कोई भुटिया व्यापारी किसी
दूसरे तिब्बती व्यापारी को बहका कर अपनी ओर लाने का
यत्न नहीं करता; अपनी मर्जी से कोई किसी को छोड़दे, यह
दूसरी बात है। इनके व्यापार के नियम वंधे हैं। मेरे सामने दो
चार तिब्बती सैकडों भेड़ों को लिये हुये आये थे। इनकी भेड़ें
बड़ी फुरतीली और चंचल होती हैं। दुरिये खाल के लम्बे २
वम्बू पहनते हैं। कमर पधी रहती है। ये लोग महागन्दे और
अमानक आकार के होते हैं। सिर नंगे, चीनिआंकी तरह लंबी
चोन्दी लटकाये रहते हैं। मज्जवत लम्बे २ सन अथवा चम्बे

के जूते पहनते हैं, गालों पर हिमालय की काटने वाली उरडी हवा से बचने के लिये एक प्रकार की औषधि लगाते हैं। जिन राजसों का वर्णन रामायण में गढ़ा करते थे, ठीक वैसेही ये लोग देखने में आये। गन्दगी से इनको किसी प्रकार की घृणा नहीं। गत को खुले में आकाश के नीचे ये लोग अपनी भेड़ों के बीच में मिट्टी पर ही सो रहते हैं। इनका रहन सहन, रङ्ग ढंग, चालढाल आदि का वर्णन आगे चलकर कलंगा, क्योंकि इनके देश में तो पहुँचना ही है।

झर का राज्य प्रबन्ध पटवारी के हाथ में है, जिसको सब प्रकार के अधिकार रहन है। पोस्ट आफिस मनस्यारी में है, पर भुट्टिए व्यापारियों के मीलम आजाने पर एक डाकिया बराबर मनस्यारी से मीलम और मीलम से मनस्यारी डाक पहुँचाता है। सप्ताह में दो बार डाक आजाती है। पोस्ट आफिस का प्रबन्ध बडा अच्छा है, किन्तु डाक-कर्मचारियों की तनखाह बहुत थोड़ी है। डाक वांटने वाले बेचारे इन विक्रम पर्वतों का लांबकर डाक पहुँचाते हैं—वर्षा हो या अंधेरी—इनके लिए सब बराबर है, तिस पर भी सात आठ रुपये ही इनके लिए बहुत काफी समझे जाते हैं। कम से कम बारह रुपए महीने से इनकी तनखाह प्रारम्भ होनी चाहिए, और बराबर तीसरे वर्ष तकनी मिलनी उचित है।

एक दिन मैं अपने दो प्रेमियों के साथ फिर नन्दा देवी देखने गया। दस बजे के बाद हम लोग अपने स्थानों से चले होंगे। मीलम के पास गोरी के पुल को पार कर रास्ता जाना है। नदी के किनारे किनारे रातें करते हुए चले गए। सिंगडू से मीलम आने में जिधर नन्दादेवी जाने का रास्ता देखा था उधरही आज जाना था। नन्दादेवी के ग्लेशियर से एक

नदी निकलकर गौरी से मिलती है; उस संगम पर एक ग्राम बसा है, वही पहुंचे। ग्रामवालों से प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया। यहां से पहाड़ी पथप्रदर्शक को साथ ले नदी पारकर, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि थकान लगने लगी; ज़रा दस कदम जाते, भट्ट दम फूलने लगता था। हिम्मत कर थोड़ी दूर और बढ़े तो विष चढ़ने लगा। इधर हलाहल विष का पौधा होता है, उसकी गन्ध से विष चढ़ जाता है। एक ऊंचे करारे पर बैठ गए। सामने नन्दा देवी बादलों से ढकी थी; आज आकाश में कुछ कुछ बादल थे। आध घंटा उस करारे पर इस आशा में बैठे रहे कि नन्दा देवी शीघ्र अपने आमोद प्रमोद से लुट्टी पाजाए तो हमें उससे वार्तालाप करने का अवसर मिले, किन्तु ऐसा न हुआ। निराश होकर हम लोग लौट पड़े। रास्ते में भोजपत्र का पेड़ देखा। उसकी छाल कागज़ की तरह होती है, और एक परत पर दूसरी परत निकलती चली आती है। ग्राम के निकट घाटी में खेतों को देखते हुए मीलम की ओर चले। दोपहर के करीब थके हारे घर पहुंचे।

मीलम में दो स्कूल हैं—एक तो मिशनवालों का है दूसरा सरकारी है। शिक्षा का धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। शिक्षा के प्रचार से इन लोगों में जागृति भी हो रही है। हिन्दी के समाचार पत्र, वंगवासी आदि, आते हैं। अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों के पढ़नेवाले भी होते जाते हैं। आर्यसमाज के सिद्धान्तों का भी थोड़ा बहुत प्रचार इधर भोट में धीरे धीरे हो रहा है। तात्पर्य यह है कि प्रबुद्ध भारत के मधुर राग की ध्वनि इन पहाड़ों में भी सुनाई देने लगी है। क्यों न हो, बैतार का तार तो हिमालय के श्वेतभवन में लगा ही है।

१२ जौलाई रविवार—आज मीलम से चलने की तय्यारी थी। दूसरे पहाड़ी यात्री और साथ तो मुझसे पहलेही चल दिए थे। कैलाश जानेवाला यात्री स्वयं अकेला हिमालय पार कर तिब्बत नहीं जा सकना, उसको भुट्टिओ के साथ जाना आवश्यक है। प्रथम तो कोई खास रास्ता उधर जाने का बना हुआ नहीं, यदि रास्ता हो भी तो अकेला यात्री उन बर्फानी पर्वतों को पार करने के सर्वथा असमर्थ है। भूट्टिए व्यापारी भी मिलकर चलते हैं; उनको भी अकेले में अपने प्राणों का भय रहता है। जौलाई के आरम्भ से दो चार व्यापारी रोज अपनी भेड़ बकरी लादे हुए उत्तर की ओर मुँह करते हैं। यात्री लोग भी अपनी अपनी सुविधानुसार इनके साथ हो लेते हैं। जिस किसी के साथ जिसका समझौता होजाता है वह उसीके साथ चल देता है। मुझे विजयसिंहजी पांगटी के साथ जाना था; उन्होंने बारह जौलाई अपने जाने की तिथि निश्चित की थी, इस कारण मुझे भी तब तक ठहरना पड़ा।

आइए पाठक, मनस्यारीसे मीलम और मीलमसे ऊंटापुरा की ओर एक दृष्टि डालें। गोरी के किनारे २ कैंसे कठिन रास्तों से हम लोग आये हैं। चीड़, आगर, सुराही, वांभ आदि पेड़ोंको देखते हुये, जलके प्रपातों का आनन्द लेते हुये, मीलम में पहुंचे थे। वहांसे गढ़वाल यद्यपि विलकुल निकट है पर उधरजाना कैसा कठिन है। मीलम से गढ़वाल जाना मानों मौत का सामना करना है। एक ओर गढ़वाल की सीमा के दुर्गम पर्वत, दूसरी ओर पन्नाचूली की पर्वत माला, सिर पर, उत्तर में कुतरी-विहारी आदि चोटियाँ, दक्षिण में गोरीतदी की भयानक घाटी, इस प्रकार मीलमके इर्दगिर्द प्रकृतिने कैसी अनेक दीवारें गड़ी फी हैं, ओर उसको चारों ओर से सुरक्षित किया है। पर मैं

सात महीने तो कोई किसी प्रकार भी इसमें घुस नहीं सकता। सूर्य देव की कृपा से इधर जोहार में केला, नावू, नारंगी आदि फल और धान, मड़वा, जो गेहूँ, वासमती, वीनस, ऊगल, मूली, फाफर, आलू आदि अनाज और सब्जि भी पैदा होती है, जिनसे भुटिओं का पालन होता है। घाटीमें आलू ज़ियादा होता है। मीलम के पास गोरी नदी के गल से दो मील के फासले पर शांडिल्य ऋषि का कुण्ड है। वहाँ जन्माष्टमी क रोज बड़ा मेला लगता है। इर्द गिर्द के ग्रामों से पहाड़ी औरते' वहाँ बहुत जाती हैं।

आखिर नलने की बड़ी आगई। विजयसिंह जी ने अपने सम्बन्धियों से मिलने मिलाने में देर करदी। हिमालय पार जाकर लौटना, इन लोगों के लिये पैसा ही है, जैसा कि मृत्यु लोक से वापिस आना। मैं सुना करना था कि रेल होने से पहले हरिद्वार, काशी, गया आदि तीर्थों पर जाने वाल यात्रों अपने घरवालों से विदा होते समय यह सोचा करते थे—“देखिये तीर्थयात्रा कर जीने घर लौटते हें या नहीं”—इसका दृश्य मैंने यहाँ पर देखा। अपने घरवालों से जुदा होते समय भुटिए लोगों के चित्त में भी यही भाव रहता है। मैं तो मिशनवालों का वंगला देखने चला गया और विजयसिंह जी अपने घरवालों को समझाने दुभाने म लगे रहे।

ग्यारह बजे के बाद ठीक नैश्वारी हुई। विजयसिंह जी की खच्छर और उनके आदमा आग बढ़गये। मैं और पांगटी जी इकट्ठे चले। अब हमको बक्खा कं किनारेकिनारे जाना था। बक्खा नदी गोरी का छाटी बहिन है। इसके ऊपर दोनों ओर जो पहाड़ियां हें वे गिद्धों की तरह हम लोगों की ओर दग स्फी थीं। लंबी २ गरदनों वाली ये पहाड़िया मानों अब ऊपर

भेंपटना ही चाहती हैं, जरा सा कहीं से कोई पत्थर का टुकड़ा हिला, वस फिर इनकी कतार चली: धां! धां!! की आवाज़ से कलेजा काप उठना है। वस्खा नदी की भूख को यही पहाड़ियां भिटाती हैं। मुझे तो यह रास्ता बड़ा भौंडा मालूम हुआ। ऊपर दृष्टि डालने से टूठ के टूठ दिखाई देते थे। ये सब मायावी राक्षसों के विहार का फल है। जहां कहीं वे अपनी श्वेत पादुका पहिनकर विसर्पण Skating करने के लिये निकलते हैं वहाँ टूठ हा टूठ रह जाता है।

वस्खा नदी पर कई जगह बर्फ का पुल देखने में आया। विजयसिंह जी एक खच्चर मेरी सवारी के लिये लाये थे। उस पर प्रबन्ध रायबहादुर कृष्णसिंह जी ने कर दिया था। आसान रास्ते में जहां गिरने का डर कम रहता, वहां से खच्चर की सवारी कर लेता था। वेदंगे, कच्चे, दो सिर पैरली जगहों में मैं पैदल चलता था। इन प्रकार बड़ी कठिनाई ने पांचमाल पूरे किये और वस्खाना बर्फाली पुल पारकर दूसरे किनारे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गये। यहां कुछ चौरस भूमि मिली थी। आज यहीं उतरने का निश्चय किया। तबू खड़े करवाये और विस्तरे लगा बैठ गये - अंग भी कई एक उरे वहां पड़े। यद्यपि काफी लंबाई पर आगये थे परन्तु हिमालय का अत्यंत भयन अभी यहां से कुछ नील दूर था। रात को सोने पर आनन्द से सा रहे।

६३ जोतार ममतार--एक दिन भर यहीं से खच्चर घिर आये थे। नदी लोको रानी। विजयसिंह जी के पास सींग, दवा, आले लानी से लाने का सबदसक लाया था। नौकर भी उनके साथ थे। दिग्भर पाल में धंटे रों न सो उपदेश हुआ।

१४ जौलाई बुधवार—आज पूज्य हिमालय के श्वेतभवन में प्रवेश करने का दिन था। प्रवेश-टिकट मिल गये थे। दिन भी निर्मल था। सवेरे सूर्योदय से पहले ही चल पड़े। मैंने ओवरकोट और मोटा गरम पाजामा पहन लिया; सिर पर कानपुरी ऊनी कनटोप ओढ़ लिया, खूब तैयार होकर खच्चर पर चढ़ बैठा। सब लोग चल पड़े।

पहले दुङ्ग पहुंचे। यहाँ पर ऐसा मालूम हुआ मानो बड़े सुदृढ़ किले की दीवारों के नीचे खड़े हैं। उन दीवारों के बीच में से बक्खा नदी आरही थी। इसके दहिने किनारे हो लिये। श्वेतभवन की चार दीवारी को पार किया। अब भवन की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर २ चले जा रहे हैं। खच्चर थक जाता है तो उस परसे उतर कर पैदल चलता हूँ। थक गया; ज़रासी देर में? हाँ, यह हिमालय है। बक्खा नदी के ग्लेशियर पर चढ़ रहे हैं। श्वेत, श्वेत, श्वेत हिम दोनों तरफ! और आगे बढ़े। गल (वर्फानी पहाड़) यहाँ फटा हुआ है, उसमें से नदी बह रही है। उसके किनारे २ वर्फ में खच्चर पर चढ़ा हुआ मैं जा रहा था। सामने श्वेतभवन का प्रथम द्वार है। आहा! धन्य मेरे भाग्य!! अपूर्व शोभा, विचित्र चमत्कार!!! नीले, काले, सुरमई, मटियेले पर्वतों पर प्रणयोन्मत्ता हिम नाच रही थी। यह क्यों? उसके पति भगवान भास्कर आठमहाने के वाद घर आये हैं। इसकी प्रसन्नता का यही कारण है। इसी-लिये श्वेतभवन में आजकल आनन्द मंगल है। पति के पद-पंजों का स्पर्श करके किस आनन्द से यह नेत्रों में मुक्ता-फल गिरा रही है। क्या कहना, विरहिणी हो तो ऐसी हो!

फिर बढ़े। गल के ऊपर ऊपर चले; वर्फ में पाँचों धंमते हैं। ऊंटाधुरा वादी (Pass) के पास पहुंच गये। सामने ऊंटा-

धुरा है, पीछे की ओर बड़ा ग्लेशियर; दस मिनट ठहर कर इस १७५६० फीट ऊंचे घाटे पर चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे, एक एक कदम चढ़कर खच्चरे थक जाती हैं; भेड़े दम लेने लगती हैं; बकरियां सिर नीचा किए खड़ी हो जाती हैं। चले; धीरे २ एक कदम, दो कदम, तीन कदम, फिर रुक गये; दम फूलता है; सिर कुछ दर्द करने लगता है; प्यास लग गई है। विजयसिंह जी पानी पीने नहीं देते, कहते हैं पानीयहां का अच्छा नहीं। तिव्वती किशमिश मुंह में डालता हूं। फिर दस कदम बढ़ा, लाठी के सहारे सिर झुकाये खड़ा हूं। चढ़ाई बिलकुल सीधी है। ऐसी विकट चढ़ाई पूज्य हिमालय के श्वेतभवन की क्यों है? यह भारत माता का रत्नक है। इसने अपने दुर्ग को ऐसा दृढ़ किया हुआ है कि कोई भारत का शत्रु भारत में प्रवेश न कर सके, और यदि छल पूर्वक प्रवेश कर जाय तो जीता बाहर न जा सके। बाहरे द्वारपाल, तुम धन्य हो!

ऊंटाधुरा की चोटी पर पहुंच गए। अपूर्व नैसर्गिक छुटा! श्वेतभवन के पुनीत दर्शन!! भगवान भास्कर के चरणों से लिपटी हुई श्वेताङ्गना बाला पति के पाश्र्वो की रज को अपने आंसुओं से धो रही है। वे उसे प्रेम से आलिङ्गन कर अपना अपराध क्षमा करवा रहे हैं, और नीले, पीले, बैजनी, सुनहले रेशमी वस्त्रों को अपनी प्यारीके अङ्गों पर डाल उसने सौन्दर्य को बढ़ा रहे हैं। पति का अविरल प्रेम देनकर पुलकित अंगों से वह उनके पाश्र्वों चूमती है और हाथ जोड़ यह प्रार्थना करती है—

“इस वार यह दासी आपके पदों का ध्यान करती हुई साथ जायगी; जंगल, मैदान में आपकी सेवाकर आनन्द सुख लाभ करेगी।”

उसकी प्रार्थना स्वीकृत होगई । हमें भी उसकी प्रसन्नता से बड़ा सुख मिला । ऊंटा धुरा के नीचे उतरे । नीचे उतरने में पौन मील हिम ही हिम पर चलना पड़ा । किसी प्रकार नीचे उतरे; पहला घाटा निकल गया ।

दस मिनट ठहरकर फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना आरंभ किया । यह १७००० फीट ऊंचा है इसका नाम जयन्ती है । इस पर की सारी बर्फ पिघल गई थी, इसलिए इसको पार करने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई । उतार में एक बड़ा ग्लेशियर मिला । इर्द गिर्द भी गल ही गल दिखाई देते थे, जिनमें से नदियां निकल निकल कर न जाने कहाँ जा रही थीं । जयन्ती भी पार कर लिया ।

सब से अन्तिम द्वार श्वेतभवन का कुङ्करी विङ्करी है । इसकी ऊंचाई १८३०० फीट है । सामने, ऊंचे, दूर, गढ़ की तरह कुङ्करी विङ्करी का घाटा दिखाई देता था । कई एक घुमाव फिराव के बाद ग्लेशियर से ऊंचे उठे । मैं खच्चर पर सवार था । विजयसिंह जी भी अपने खच्चर पर सवार थे; उनके नौकर हंसते चले जा रहे थे; उनको किसी प्रकार का कष्ट चढ़ाई में मालूम नहीं होता था । उनके लिए यह साधारण यात्रा थी । यह सब अभ्यास का फल है ।

ग्लेशियर से ऊपर उठने के बाद विलकुल सीधे चढ़ाई पर जामा था । पशु बेचारे भी थक गए । मेरी जेब में जां तिध्वती किसमिस थी वह मैंने अपनी खच्चर को खिला दी । चार बज चुके थे । रवि की किरणें पर्वतों पर पड़ी हुई धुन्ध में से छन कर आरही थीं । ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्यदेव के हृदय पट पर वैराग्य का श्वेत आवरण छा गया है और उनका ध्यान अपने परोपकार के उच्चादर्श की ओर फिर गिचा

है, नहीं तो जैलाई के महीने में चार वजे की धूप ऐसी हलकी और उसका प्रकाश ऐसा मध्यम हो नहीं सकता था। अभी हम लोगों को कुङ्गी की महा भयानक चढ़ाई पर चढ़ना था। मैं तो थक कर चूर हो गया, क्योंकि सवारी के साथ खच्चर चढ़ाई नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए मुझे पैदल चलना पड़ा। विजयसिंह जी मुझसे बहुत आगे निकल गए, और ऊपर पहाड़ पर सड़े, मुझे चढ़ने के लिए उत्साहयुक्त वचनों से बुला रहे थे। मैं दो कदम चढ़कर बैठ जाता, और फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाल कर उस चोटी की ओर देखता, जहां विजयसिंह जी खड़े थे। "क्या कभी मैं वहां तक पहुंच सकूंगा"— यह निराशासूचक शब्द मेरे मुँह से निकले। तत्काल ही अपने को धिक्कार कर मैंने कहा—

“क्या जो काम यह भुट्टिए कर सकते हैं उसे मैं नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूँ”।

फौरन उठा लकड़ी के सहारे धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाया, बड़ी कठिनाई से पैर उटते थे शरीर का सारा बोझ पीछे की ओर गिरा पड़ता था। कुछ परवाह नहीं की। ज़रा मुस्ता लिया और एक पत्थर पर बैठकर तान उड़ा—

“सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दीस्तां हमारा;
हम बुलदुले हैं उनकी, वह गुलस्तां हमारा।
पर्वत जो सब से जंचा, हमजाया आसमां का;
वह सन्तरी हमारा, वह पासेवां हमारा।”

भारत रत्नक हिमालय के गुण गाना हुआ आगे बढ़ा। मेरे आगे जो पशु जा रहे थे, उनमें एक घोड़ा बहुत थक गया था।

उसे मार २ कर ऊपर ले जा रहे थे । मैंने बहुतेरा कहा कि इसे कुछ खिलाकर लेजाना चाहिए, लेकिन चूँकि मंज़िल पूरी हुआ ही चाहती थी, इस हेतु किसी ने कुछ परवाह नहीं की । सब ऊपर चढ़ गए, उन्होंने कुङ्करी विङ्करी का घाटा तै कर लिया । विजयसिंह जी भी अपने नौकरों के साथ ऊपर पहुंच गए । मैं पीछे रह गया, और मेरे पीछे एक शगबी भुटिया व्यापारी हौंकता हुआ चला आता था । अब केवल सौगंज चढ़ाई बाकी रह गई । किसी प्रकार दम लेता, चित्त को ढाढ़स देता, टांगों को पुचकारता, निरुत्साह को फटकारता ऊपर चढ़ ही गया । चढ़ाई खतम होगई; तिब्बत सामने है । १८३०० फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया; भारत की सीमा का अन्त हुआ; भारतीय द्वारपाल के श्वेतभवन के जोहारवालं तिब्बती दरवाज़े के पास मैं खड़ा था ।

आइए पाठक, तिब्बत प्रवेश करने से पहले एक बार जननी जन्मभूमि से प्रेमभरी बातें करले; पीछे एकवार घूमकर देखले; हिमाचल के श्वेतभवन पर दृष्टि दौड़ाते । माता से विदा मांगकर, उसकी आज्ञा से, उसका आशीर्वाद लेकर, आगे बढ़ेंगे, तभी आगे की यात्रा भी सफल हो सकेगी ।



सिंहावलोकन

१२३०० फीट ऊंचे इस घाटे पर खड़े होकर पीछे की ओर दृष्टि डालिए। क्या देखते हैं? सामने बीस तीस मील के घेरेमें प्रकृति के सौन्दर्य की अचर्यनीय शोभा दृष्टिगोचर होती है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम किसी ओर नज़र दौड़ाइए, ईश्वर की उत्कृष्ट विभूति का अद्वितीय चित्र दीख पड़ता है। क्या इस पृथ्वी तल पर ऐसा मनोहर, ऐसा उज्ज्वल, ऐसा अप्रतिम, ऐसा रमणीक स्थल कहीं और होगा? क्या विश्वकर्ता से बातें करने के लिए ऐसा एकान्त स्थान कहीं और है? जिन आर्य-धीरों ने हिमाचल की प्रशंसा में सहस्रों ग्रन्थ बना डाले, वे प्रभु की रचनाशक्ति के रहस्य से अवश्य कुछ न कुछ परिचित थे। हिम से ढकी हुई चोटियां एक दो नहीं—बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर—इस छोटे से भूमि के टुकड़े में हीरे के नगों की मानिन्द जड़ी हैं। प्रभात के भानु की रश्मियां जिस समय इन पर्वतों पर पड़ती हैं, उस समय की अलौकिक छटा क्या कोई लेखनी से चित्रित कर सकता है? उन्म निर्दोष चित्रकार के कौशल की लावण्यता को वर्णन करने की शक्ति मनुष्य में कहां, यहां तो—“न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा—” वाली बात है।

उन आर्यों को सचमुच सुन्दरता की परग थी जिन्होंने इन स्थानों पर आकर अपने परम पुनीन मन्दिरों की स्थापना की और अपनी भावी सन्तान को इधर की यात्रा का माहान्म्य बताया। गर्दन तक विषयों की बीच में डूबा हुआ व्यक्ति भी इस भूपृष्ठ पर आकर ईश्वरीय अलौकिक शक्ति का गुग्गुलुन किए बिना न रहेगा। प्राचीन ऋषियों ने जो इधर की भूमि

को तपोभूमि कहा है सो सर्वथा सत्य है। कमजोर, दुर्बल पतला मनुष्य इधर आही कैसे सकता है, और यदि आवे भी तो उसको विना परिश्रम किये भोजन कैसे मिलेगा। इसके अतिरिक्त ध्यानावस्थित होकर मनको एकाग्र करने के लिये इधर से अच्छा स्थल और कहां। सामने नन्दा-देवी अपनी स्त्रियों के साथ साभिमान खड़ी पशु का गुण गान कर रही है। उसके नीचे की ओर त्रिशूल के दर्शन होत हैं, जिसकी तीनों चोटियां बाइस हजार फीट से अधिक ऊंची है। इनके पास ही लन्दकोट २२५३० फीट ऊंचा भारत की जयध्वनि कर रहा है। नन्दादेवी के पूर्व की ओर पचासूली अपनी पांच सहेलियों के साथ क्रीडा कर रही है। कई और ऊंची चोटियां इसके आस पास पूर्वमें हैं। नन्दादेवीके पश्चिम में श्रीकेशरनाथ जी, श्रीवद्रीनाथ जी आदि पर्वतों की प्रसिद्ध चोटियां हैं। हजारों यात्री प्रत्येक वर्ष इन तीर्थों की यात्रा कर अपने को धन्य मानते हैं। यदि हमारे पूर्वज इन स्थानों को पवित्र न ठहरा जाते तो भारतीय सर्वसाधारण वैचारे प्रकृति के इस रम्यस्थान को देखने से वञ्चित रहजाते।

सच सुच वह समय भारत के लिये बड़े गौरव का था, जब निष्काम कर्म करनेवाले ऋषि लोग इस तपोभूमि में बैठकर मनुष्य जाति के उपकार के उपाय सोचा करते थे : जब मातृभूमि के मान की रक्षा करने वाले क्षत्री उन जगलों में आकर स्वच्छन्द धूमते थे ; जब शुद्ध बौद्धधर्म के प्रचारक भिक्षु उन कठिन घाटों को पार कर अपने पूज्य गुरु का नदेश्य सुनाने के लिये दशर तिव्वन में आया करते थे। आहा ! वह समय कैसे आनन्द का रहा होगा। कैसे निष्प्रपट, जैसे निरीद, कैसे सत्यवादी, कैसे साइसी वे भारतीय होंगे जिन्होंने इन

घाटों को केवल अपने कर्तव्य पालनार्थ पार किया था। किसी व्राणिय लोभ से नहीं, किसी कुटिल नीति की चाल से नहीं, किसी राजनैतिक विजयपताका उड़ाने के लिये नहीं, बल्कि उस निःस्पृह प्रेमके वशीभूत होकर वे आए थे, जो प्रेम प्राण-मात्र को अभय प्रदान करता है। प्यारे आर्यवीरो ! यद्यपि आपके उन आदर्श चरित्रों को हुय वदुत काल बीत गया किंतु आज भी हिमालय के श्वेतभवन में आपकी उज्ज्वल कानि की ध्वजायें फहरा रही हैं। समय आने वाला है जब कि भारत संतान उन ध्वजाओं पर लिखे हुये इतिहास से अपना सम्बन्ध स्थिर करेगी और अपने जीवन को स्वाभाविक बना अपने प्राचीन पथ का पुनः अनुसरण करेगी।

वह देखो, प्रबुद्ध भारत दूर स अपने कीर्ति स्तम्भों को देख रहा है। उसका आंखें इन ध्वजाओं पर लगा हुई हैं। वह देखता है कि ससार की सब ध्वजाओं से उसका प्राचीन ध्वजा सबसे ऊंची है; वह सबके ऊपर है। तो क्या वह कर्म-नीच रहगा ? कभी नहा। उसने अपने उद्देश्य को देख लिया, उसने अपने निशान का समझ लिया। प्रबुद्ध भारत क्या कहता है—

‘मरा भाग्य सब, से श्रेष्ठ है, वह मुझे मर से प्यारा है।’

क्या वह अपने पूज्य भारत का सब प्रकार से ऊंचा किए बिना मानेगा ? कदापि नहीं। सैरुड़ा वष हुये वह बुद्ध में गिर गया था; उसने आत्म वन्द करला था। उसने समझ लिया था कि उसका भगड़ा गिर गया और वह परास्त हो गया। वह शताब्दिया के गढ़ आये खालता है, किस लिये ? नाकि उम पवित्र भगड़ेके फिर एक था मरन समय दर्शन कर ले। लो ! वह क्या देवता है ? साधन, उसका पूज्य भगड़ा अभी

सक खड़ा है, और भारत को द्वारपाल अपने दलबल सहित उसकी रक्षा करें रहा है। उसको आनन्द की सीमा नहीं, उसके हर्ष का ठिकाना नहीं; क्यों न हो, सिपाही की हारजीत अपने राष्ट्रीय झण्डेके गिरने या खड़े रहनेपर निर्भर है। अपने झंडे को फहराता देख भारत में जान आ गई है, वह अपनी शक्तियों को समेट रहा है, वह अपने लक्ष्य की ओर एकटकी लगाए देख रहा है।

गगनारोही इस घाटे पर खड़ा होकर मैं प्रबुद्ध भारत की हर्षध्वनि सुन रहा था। उसका मधुर आलाप मेरे कान में आरहा था। मैंने सुनकर सप्रेम प्रभु को धन्यवाद दिया। उस सर्वशक्तिमान की अपार दया से ही हमारा झण्डा अब तक फहरा रहा है। ईश्वर की इच्छा है कि यह प्रेम, पताका फिर संसार में लहरावे और भारतीय भिन्नु पुनः अपने पवित्र सन्देशों को संसार में फैलाकर मनुष्य मात्र में शान्ति की स्थापना करें।

पाठक महोदय, कुङ्करी चिङ्करी के इस घाटे से आपको हिमाचल का श्वेतभवन भली प्रकार दिखाई दिया; आपने उसकी सुन्दरता भी देखी, नन्दादेवी और परशुरामजी के दर्शन भी किये। अच्छा, अब तिब्बतमें चलने के लिये तैय्यार हो जाइये। चलने से पहिले भारत जननी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार कीजिए, "धन्य भारत ! धन्य भारत !! धन्य भारत !!!" की हर्षध्वनि से माता का आनन्द बढ़ाइये। जननी जन्मभूमि से आशा लेकर अब हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं।

द्वितीय खण्ड

—:०:—

तिब्बत

भारतवर्ष की उत्तरीय सीमा, कश्मीर से लेकर आसाम तक, एक लम्बे देश से घिरी हुई है, इसी को तिब्बत कहते हैं। तिब्बत चीन के अधीन है और इसका शासन भार लामाओंके हाथ में है। जैसे हमारे यहां धनिक अथवा राजा लोग मन्दिरों के साथ उसका खर्च चलाने के लिये गांव लगा देते हैं मालूम होता है ऐसे ही तिब्बत भी चीन राज्य की ओर से धर्मघाते में दान किया हुआ है। तिब्बत के विषय में संसार का शिक्षित समुदाय बहुत कम जानता है। "तिब्बत" इस शब्द के उच्चारण करते ही ऊंचाई; बौद्धधर्म और लामा, यह तीन संस्कार मन में घुमने लगते हैं। तिब्बत को कहां से जाना होता है? उसका जलवायु कैसा है? किस प्रकार के लोग वहां बसते हैं? शासनप्रणाली कैसी है? देश की भौगोलिक स्थिति क्या है? इन विषयों का कुछ भी ज्ञान हम लोगों को नहीं। तिब्बत कहीं ऊंची जगह पर है, वस यह संस्कार मन में है। बहुत कम शिक्षित भारतीय यह जानते हैं कि हमारे देश के सैकड़ों व्यापारी भिन्न भिन्न रास्तों से प्रत्येक वर्ष तिब्बत जाते हैं। अधिकांश तो यही समझते हैं कि तिब्बत महान्माओं के रहने की जगह है, और वहां सैकड़ों वर्षों के पुराने योगी लोग रहते हैं, वहां कोई कलयुगी पुरुष जा नहीं सकता। इन प्रकार के विचित्र संस्कार उस देश के विषय में हमारे अन्दर फैले हुए हैं।

तिब्बत की ऊर्ध्वभूमि (Tableland) संसार में सबसे

ऊंची है। इधर हमारा गंगाजी का मैदान समुद्री तल से कुछ ही ऊंचा है। इसके आगे उत्तर में पहाड़ियाँ छः हजार फीट ऊंची हैं, इसके आगे बढ़ते बढ़ते १८००० फीट तक हिमालय की दीवार ऊंची होती जाती है जिसके इर्द गिर्द पाँच छः हजार फीट ऊंची गगनारोहा बर्फारी चोटियाँ आकाश को स्पर्श करने की चिन्ता कर रही हैं। इसके आगे धीरे २ नीचा होता जाता है। हिमालय की दीवार से तिब्बत आरम्भ होता है और शनैः शनैः पाँच हजार फीट नीचे होकर १३००० फीटकी ऊंचाई पर आजाता है। यहाँ से भूमि फिर धीरे २ ऊंची होनी शुरू होती है और पहुँचते पहुँचते १७००० फीटकी ऊंचाई का स्वर लेती है। वहाँ से क्यूनलून पर्वतमाला का आरम्भ होना है, जो २०००० फीट से अधिक ऊंची है। यहीं तक तिब्बत है इसके आगे चीनाँ तुर्कस्तान है, जिसकी ऊँचाई २००० फीट है। उसके आगे रूस का साइबेरिया है जो हमारे गंगा जी के मैदान की तरह समुद्री तल से कुछ ही ऊंचा है। इस प्रकार शून्य से आरम्भ करके, चीनी तुर्कस्तान से आगे क्यूनलून की २०००० फीट से अधिक ऊँचा पर्वतमाला से लेकर हिमालयकी १८००० फीट पर्वतमाला तक तिब्बत का देश है, जिसकी ऊँचाई कहीं भी १३००० फीट से कम नहीं। यह देश सब प्रकार की धातुओंसे परिपूर्ण है, सोने की खानें भी बहुत हैं। नमक सुहागा तो 'अति' से भी अधिक है। अनाज कहीं २ जहाँ घाटी होजाने से कुछ उष्णता मिलजाती है, थोड़ा बहुत होजाता है। भिल्लें इस प्रदेश में बहुत हैं, जिनकी प्राकृतिक शोभा अतुलनीय है। बड़ी बड़ी नदियाँ, जैसे सिन्धु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलकर भारत में आती हैं। समुद्री स्तर देश में बहुत पड़ती है। जैलार्ड के महीने में मैं ग्यानिमा मडी में

छु छुः कम्बल ओढ़कर सोया करता था ।

इस विचित्र देश के निवासी हुण्डिये कहलाते हैं। वे (nomadic) घुमक्कड़ हैं। रमते रामों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एक स्थान पर घर नहीं बनाते जहाँ अपने पशुओं के लिये घास पाते हैं वहीं हजारों भेड़, बकरी, याक लेकर चले जाते हैं। याक चंवरगाय का तिब्बती नाम है। चंवर गाय खूब दूध देती है। यह देखने में भही मालूम होती है पर इस देश में यह बड़े काम का पशु है। बड़े बड़े लम्बे घाल इसके शरीर पर होते हैं। ये लोम ही इसके सच्चे मित्र हैं। इसकी पूंछ बड़ी सुन्दर गुच्छेदार होती है; उसीका चंवर बनता है। पशु के मरने पर उसकी पूंछ काट लेते हैं। यहाँ के प्रत्येक पशु के शरीर पर सुन्दर नरम पशम होती है। घास इधर बहुत अच्छा होता है, पशु उसको खाकर खूब मुदाते हैं।

पश्चिमी तिब्बत में खदोक नामकी एक शरडी है। इधर भी व्यापारी लोग गरभिओं में इकट्ठे होते हैं। यह स्थान लद्दाख और कोराकोरन पर्वतमाला की ऊर्ध्व भूमि के निकट है। फराकुरम की सबसे ऊंची चोटी "गाडविन आस्ट्रिन" २८२५० फीट ऊंची है और मौन्ट एवरिष्ट को छोड़कर संसार के सब पर्वतों से ऊंची है। इसके उत्तर में अतिशीत निर्जन रेगिस्तान है जिसको चंग कहते हैं। यूनून इसी के उत्तर में है। इस यूनून पर्वतमाला में यद्यपि घाटे तो हैं, पर ऐसे विकट हैं कि मनुष्य का उधर गुज़र नहीं हो सकता। वे घाटे बारह महीने हिम से आच्छादित रहते हैं। इन घाटों ने निकल कर यदि कोई आगे बढ़े भी तो रान्ता और भी भयङ्कर रूप धारण करता है। नदियों के बाहर जाने के लिये मार्ग

नहीं, इस लिये जगह जगह भालें हैं, और उनका जल नमकीन होता है। सोड़ा, नमक और शोरास्थान २ पर पाया जाता है; वृत्तों का सर्वथा अभाव है और मनुष्य वहाँ रह नहीं सकता। सोने की खानें बहुत हैं, पर उसको निकाले कौन ? प्रकृति ने निज मायावी ढंग से इन खानों को सुरक्षित कर रक्खा है। काशगर से आनेवाले यात्री कराकोरम के १८५५० फीट ऊँचे घाटे को पार करना अच्छा समझते हैं किन्तु क्यून लून की और मुंह नहीं करते। मध्य एशिया के व्यापारी, लीह के रास्ते, लासा जाते हैं, या गरतोक के रास्ते कैलाश और मानसरोवर होकर तिब्बतकी राजधानी में पहुँचते हैं। गरतोकसे रुदोक जाने में आठ दस पड़ाव पड़ते हैं, रुदोककी तरफ से अच्छे २ घोड़े गरतोक में बिकने आते हैं, और नमक भी उधर बहुत हांता है; आवादी भी अधिक है। रुदोक के आस पास जौ की खेती होती है।

पूर्वी तिब्बत के विषय में हम लोग बहुत कम जानते हैं। पश्चिमी तिब्बत, जहाँ मैं गया था, के विषय में कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में निकली हैं, और तिब्बत के इसी के भाग साथ हमारा अधिक सम्बन्ध भी है। श्रीकैलाश और मानसरोवर पश्चिमी तिब्बत में ही हैं। हमारे अधिक व्यापारी इधर ही व्यापार करने जाते हैं, इसलिए इसी का कुछ व्योंग लिखने की आवश्यकता भी है। इधर गरतोक में राज्य-कर्मचारी गरमियों में आकर रहते हैं। यहाँ सेप्टेम्बर में जब मण्डी होती है तो भुटिया लहारी, कश्मीरी, तानारी, यारकन्दी, लासा के रहनेवाले तथा चीनी व्यापारी भी आते हैं। गरतोक में बड़ा शीत पड़ता है; नरदियों में वहाँ कोई भला-मानस रह नहीं जाता; टाकुओं का बड़ा भय रहता है।

वें भयानक रूप बनाए हुए यात्रियों और व्यापारियों की ताक में घूमा करते हैं। उन्हींके डरकेजारे जोहारी लोग इकट्ठे बन्दूक आदि शस्त्र लेकर चलते हैं। इन डाकुओं के पास बाबा आदम के समय के पुराने हथियार रहते हैं। वे उन्हींको बड़ा हथियार समझकर, उन्हींसे यात्रियोंको धमकाकर, सब छुछ रखवा लेते हैं। भुटिया लोग बेचारे किसी न किसी प्रकार अपना प्रवन्ध करते हैं; किसी किसी भी के पास लाइसेन्स भी है।

तिब्बत का शासन-भार लामाओं के हाथ में है। सब से बड़ा लामा ताशीलामा कहलाता है पर ताशीलामा को इतना अधिकार नहीं। देश का सारा शासन दलाई लामा के हाथ में है। वही तिब्बत का सर्वस्य है—जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे रखे। दलाई लामा ही तिब्बत निवासियों का ईश्वर स्वरूप है और वे अपनी प्रार्थना से—'ओम माने पदमें हूं'—कहकर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता के अनुसार दलाई लामा बुद्धदेव का अवतार है और वह जीवन-मरण के दुःखां से छुड़ा सकता है। तिब्बत में यह मंत्र स्थान स्थान पर दीवारों और पत्थरों में खुदा हुआ है छोटे बड़े सभी इसका दिनरात जाप करते हैं; भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से इसको रटते हैं और यही समझते हैं कि यह मंत्र सब व्यापारियों का इलाज कर देगा।

दलाईलामा के अधीन बहुत से कर्मचारी शासनकार्य में उसकी सहायता करते हैं। उनके गणत, जॉंगपन और तरजुम कहते हैं। हिन्दी समूचे पान्त का वाजन्नाय मरकत कहलाता है और, जित्तों के तास्तिन जॉंगपन और तरजुम पुकारे जाते हैं। इनको अपने जिले का प्रबन्ध करना अपनी लम्बी सजायें देना, शपराधी के ग्रह उद्वान जानना आदि

तरजुम के अधिकार में राजसताल और मानसरोवर के इरद गिरद भारतीय सीमा तक की भूमि है। इसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे।

— ०:—

तिब्बत में प्रवेश

१४ जौलाई बुधवार—संध्या होगई। कुंगरीविंगरी के उस घाटे पर मैं अकेला खड़ा था। आप पूँजेंगे, अकेला कैसे? हां अकेला। मेरे सब साथी आगे चले गये; वह शरावी भी आगे बढ़ गया, मुझे मातृभूमि से आज्ञा लेने में देर लग गई। सब खच्चर चले गये; नौकर आगे बढ़ गये। वह गरीब घोड़ा जिसको मार मारकर ऊपर लाए थे; वहीं कहीं छोड़ दिया गया आप कहेंगे इतनी निर्दयता? निर्दयता नहीं, वह घोड़ा आगे चल नहीं सकता था वेचारा वही कहीं गिर गया, उसपर कम्बल डाल उसके स्वामी उसे वही छोड़कर चले गए। ठहरे क्यों नहीं? ठहरना कैसा, वहां ठहरना तो मानों मृत्यु के मुख में जाना था। जब मैं कहता हूं मुझे वहाँ खड़े खड़े शाम हो गई, उसके अर्थ यह है कि मृत्यु के आगमन का समय आ गया। शीत! हे परमेश्वर!! मेरे दांत बजने लगे। दिनको सूर्यदेव की कृपा से जियादा शीत मालूम नहीं हुआ। जब तक वे रहे, श्वेतभवन में खूब आमोद प्रमोद रहा। उच्चल कूद मची; रंग राग रहे, अब भास्कर भानु चले गये, इस कारण श्वेतभवन में नन्नाटा है। सन्नाटा! हां मन्नाटा (Deathlike Silence) मृत्युवन् सन्नाटा!! वह कभी भूलेगा? कभी नहीं।

हां, मैं वहां खड़ा था। अकेला? विलकुल अकेला! इधर बर्फ, उधर बर्फ; सामने बर्फ, पीछे बर्फ; चारों ओर बर्फ ही

चर्फ दिखाई देती है। जो हिम दिन के समय बड़ी नरम, लचलचानी, मन्द मुसकान करती थी, इस समय उसने कठोर रूप धारण करने की ठानी है। इसका कलेजा पत्थर सा हुआ जाता है; दया मया सब भाग रही है। चर्फ पर से पांव फिसलता है, हिम मुझसे आलिंगन करना चाहती है। मैं बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ उससे क्षमा मांगता हूँ। बड़ी कठिनाई से छोडती है। चला, मैं चला; जोर से पांव उठाता हूँ। सामने अन्धकार है; मेरा खच्चर भी दिखाई नहीं देता। जी: ! जाड़ा !! मेरे ईश्वर ऐसा जाड़ा !!! मोटा ओवरकोट पहनने पर भी कैसा जाड़ा लगता है। उतार आगया, तेज़ जा रहा हूँ: तेज़, तेज़, तेज़, साथियोंको आवाज़ देता हूँ। उनकी आवाज़ नीचे दूर इस सन्नाटे में आ रही है, वे मुझे बुलाते हैं। तेज चला। सामने घाटी है, उसके आगे पहाड़ी; दहिने हाथ ऊंचा पर्वत है, पीछे कुंगरीविंगरी। नीचे नीचे उतर रहा हूँ। मेरे साथी कुछ कुछ दिखाई देने लगे हैं, वे मुझे बुलाते हैं, मेरा खच्चर लिए खड़े हैं। उनके पास पहुंच गया। धन्य प्रभु ! धन्य !! धन्य !!! मौन से बच गया।

यहां आने पर मालूम हुआ कि विजयसिंहजी अभी नहीं आए। हम लोग चल पडे। थोड़ी दूर ही गये थे कि पीछे विजयसिंह जी की आवाज़ आई। वे आगये। मालूम हुआ कि वे उस घोड़े को किसी गढे में ले गये थे ताकि रात को बढ सरदी से बच सके। उसपर कपडे डाल, वहीं कहीं गढे में छोड आए थे। उसके बचने की कोई आशा न थी।

विजयसिंहजी तेज़ी से आगे निकल गये, मैं दो साथियों के साथ पीछे धीरे धीरे आता था। बिलकुल अंधेरा लगेया। किसी जीवजन्तु की आवाज़ सुनाई न देती थी, केवल हमारे

चलने का शब्द और किसी छोटे पहाड़ी नाले की धीमी धीमी "गरगर" कान में आती थी। इस प्रकार चलते चलाते पांच छः मील जानेपर सामने आग दिखाई दी। उसीकी ओर चले। पहाड़ियों के घुमावफिराव के चक्कर काटकर चिरचिर पहुंचे, यहां हमारा डेरा था; सब पशु मनुष्य पहुंच गये थे; आग जल रही थी; और भी व्यापारियों के डेरे यहां थे। मैं अपनी छौलदारी में घुस गया। मेरा विस्तरालगा हुआ था। विजयसिंह जी बेचारे तो सरदी के मारे परेशान थे। उन्होंने चाय बनवा कर पी; मैंने कुछ सूखे फल खाये। नौकर बेचारे थके हारे थे, इस लिए उनको कष्ट देना उचित नहीं समझा। उन्होंने आशा दिलाई कि सवेरे पेट भर भोजन करावेंगे। रात को सरदी! गज़ब का शीत था। सब कपड़े ओढ़े हुये, चार पांच कम्यल डालने पर भी वदन गरम नहीं होता था। खैर किसी प्रकार रात काटी।

१५ जौलाई बृहस्पतिवार—सवेरे धूप चढ़ने पर उठे। विजयसिंह जी से बातें करते करते मालूम हुआ कि दो आदमी अपनी मूर्खता से कुंगरी विंगरी के नीचे सरदी में अकड़ कर मर गए। हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी दया रही। यदि कहीं रास्ते में ठहर जाते, या बर्फ गिरने लगता तो नजाने क्या होजाता। परमात्मा को धन्यवाद दिया।

धूप निकलने पर मैं पाल से बाहर निकला। लोटा लेकर शौचादि से निवृत्त होने के लिये चला। इर्द गिर्द दृष्टि दौड़ाने पर पता लगा कि हम लोग एक बर्फानी पहाड़ के पास ही पड़े हैं। वह ग्लेशियर हमारे बिलकुल निकट था। मैं पास की नदी में स्नान करने के लिये गया। जल यड़ा ठण्डा यम्य था। उसके किनारे बैठकर मैंने अपने सब कपड़े धोए; बिलकुल

नंगा होकर नदी में स्नान किया। वहाँ कोई मुझे देखने वा
न था। मैं था, मेरे सामने सूर्य भगवान, इर्दगिर्द पहाड़ियां-
बस खूब स्नान किया। धूप कैसी सुखदा प्रतीत होती थी
वाह ! वाह !! क्या आनन्द है। आकाश भी निर्मल था।

स्नानादि से निपट कर मैंने भोजन किया। रोटी, शाक,
गरमागरम—क्या ही स्वादिष्ट था। भोजनोपरान्त सब चल
पड़े। ग्यारह बजे होंगे। इसी नदी के किनारे किनारे वाते
करते हुए जा रहे थे। यात्रा का जो डर था वह निकल गया,
हिमालय पार कर लिया, अब तिव्यत के ऊंचे नीचे मैदानों का
सफर कुछ भी कठिन नहीं था। धूप का आनन्द लेते हुये उस
नदी के किनारे जा रहे थे। नदी में जल बहुत कम था, शायद
वर्षा में बढ़ती होगी।

चिरचिन से चार मील पर तुफुपु है, वहीं पहुँचे। तुफुपु
छोटी मण्डी है। यहाँ तिव्यतिश्रों के कई खेमें गड़े थे। वे
अपनी भेड़ों को गिनगिनकर इधर उधर कर रहे थे; साथ
साथ गाते भी जाते थे। अच्छी सी जगह देखकर हम लोगों ने
भी डेरा डंडा डाल दिया। आज यहीं रहने का विचार था।
इसलिये सब खच्चर खोल दिये गये, और उनको चरने के
लिये छोड़ दिया। दो पाल सड़े कर उनके इर्दगिर्द मान्न की
गठरियां चिन दी गई ताकि हवा अन्दर न घुसने पाते। एक
पाल मेरे और विजयसिंह जी के लिये था और दूसरे में यात्रा
बनता था; उसी में नौकर भी रात को सोते थे।

विजयसिंहजी चूँकि प्रसिद्ध व्यापारी थे इस लिये बहुत
सेदुशिए अपनी चोन्दियां फटकारते हुए इनसे मिलने के लिये

आए। जो कोई मिलने आता उससे विजयसिंहजी तिब्बती भाषा में—

“ खमजम ! भो खमजम !! ”

कह कर स्वागत करते। जैसे हम लोग परस्पर मिलने पर कुशल मंगल पूछते हैं इसी तरह तिब्बती लोग “खमजम” कह कर अपना वही आशय पूरा करते हैं। पाल में इण्डियों की भीड़ लग गई। मैं मृगचर्म बिछाकर बैठा हुआ था। मेरे विषय में पूछताछ करने पर जब विजयसिंहजी ने उनसे कहा—

‘ काशी लामा ! काशी लामा ’ !!

तो सब बड़ी श्रद्धा से मेरी बातें सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। प्रेमी खड्गराय भी आगये थे, उन्होंने दुभाषिये का काम किया। खूब धर्म सम्बन्धी बातें ईहुं। ये लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं; भूत, प्रेत, जादू टोना आदि सब मानते हैं, अपने दलाई लामा को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। शिक्षा का इनमें बिल्कुल अभाव है। प्रायः सब हथियार बांधते हैं, पर वह पुराने भद्दे शस्त्र। नये नये आविष्कारोंके विषयमें ये लोग कुछ नहीं जानते, संसार की सभ्य जातियों का बहुत कम हाल इन्हें मालूम है। जब से जापान ने रूस को पछाड़ा है तब से कुछ कुछ यांरुपीन सभ्यता की चर्चा इनमें होने लगी है। चीनकी दश भली प्रकार सुधरने के बाद इधर भी जागृति होने की पूरी आशा है। एशिया के जगने के कुछ कुछ चिन्ह तब इधर भी दिखाने देने लगेंगे, अभी ता पूर्व के केवल भोंके लग रहे हैं।

हुण्डिया व्यापारी प्रायः भेड़ों की गालों के बक्यू पहनते हैं—वाल शन्दर की शोर और चमड़ा बाहर की तरफ, इस प्रकार कैलम्येकोट का फेशन है। धूप में उस बक्यू से एक बांह बाहर

निकाल शरीर का ऊपर का भाग नंगा कर धूमते रहते हैं। इनके वदन से दुर्गन्ध आती है। एक हुणिया मेरे सामने बैठे हुआ था। बैठे बैठे उसने ज़मीन पर थूक दिया। मैंने दुभापिये से कहा कि इसको समझा दो कि यहाँ न थूके। दुभापिये के समझाने पर उसने उस थूक को मिट्टी सहित उठाकर अपने बख्खू पर डाल लिया। उसकी बुद्धि के अनुसार यही सभ्य शिष्टाचार था। मैं उसे क्या कहता, उस बेचारे को जो ठीक जंचा वही उसने कर दिखाया।

दिन भर हवा चलती रही। इधर बढ़े ज़ोर से हवा चलती है। विजयसिंह जी तो अपने व्यापारियों से मिलने मिलाने में लगे रहे। ये हुणिए ग्यानिमा मण्डी न जाकर इधर ही चले आये थे। इनको पता लगा था कि भारत में इस वर्ष अनाज की कमी है, संभव है अनाज मिले न मिले, इस लिये ये लोग भुटिये व्यापारियों को रास्ते में ही मिलने आये थे ताकि ठीक ठाक करके पहले ही अनाज खरीद लें। ग्यानिमा पहुँचने पर शायद अनाज विक्र विका जाए, इन कारण बेचारे घबराये हुए रास्ते में डेरा किये पड़े थे। तिब्बत में इस वर्ष मौसम अच्छा था। भेड़ों की जन खूब हुई थी। कई भुटिये व्यापारियों ने अपना माल यहाँ पर बेच वारे न्यारे कर लिए, और यहाँ से नमक सुहागा बदले में लेकर वापिस घर जाने की ठानी। कई साहकारों ने माल खरीद कर, अपनी भेड़ों, भयदुआ पर लदा, नौकरों के साथ भारत भेज दिया, और नौकरों को ज़रूर लौट आने की तारीफ़ कर दी। इस प्रकार बहुत ने व्यापारियों का सौदा रास्ते में ही हो गया: यही तुलपु में ही उन्होंने अपनी भेड़ें ख़ूब लाद लिये।

दो साधारण ऊंची पहाड़ियों के बीच में तुलपु नाम की

यह मरुडी है। तुकपु नदी के किनारे होने से इसकी यह संज्ञा हो गई है। यहां कोई पक्का मकान मैंने नहीं देखा। हुरिआओं के खेमों छौल दारियां लगी थीं, वस इन्हीं के कारण यह वस्ती बन गई थी। जहां चौरस भूमि, जल निकट और घास का सुमीता हो वही छोटे छोटे पाल खड़े करने से तिब्बतियों का मग्न वस जाता है। जब ज़रा ऋतु प्रतिकूल होने लगी, तब ये अपने पाल उखाड़ कर पशुओं पर लाद लेते हैं और किसी दूसरे स्थान की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार की यह तुकपु मरुडी समझ लीजिये। इर्द गिर्द पहाड़ियों पर घास बहुत थी। पशुओं को इन दिनों तिब्बत में बड़ा सुख मिलता है; अच्छा सुन्दर घास खाकर वे खूब उछलते कूदते हैं।

संध्या के समय मैं नदी के किनारे गया। जल कम था। नदी चौड़ी है। किनारे के पास जल भूमि में से फूट फूटकर निकल रहा था। तिब्बतियों को शौच जाते देखा। ये लोग अपने श्रग साफ करने के लिये जल का प्रयोग नहीं करते। हम लोग जो गरम देशके निवासी हैं इनकी इस आदत को बड़ा बुरा समझ इनसे बिन'करते हैं। स्पष्ट वात यह है कि इनकी इस आदत का कारण यहां का अति शीत है। मनुष्य जैसी जैमी हालतों में रहता है, जिस जिस प्रकार की ऋतुओं की उसे सामना करना पड़ता है, वैसे ही उसका स्वभाव और रहन सहन हो जाता है। यह बात अवश्य है कि शिक्षा से उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है किन्तु इर्द गिर्द की प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव बिलकुल दूर होना असंभव है। इस देश में जहां वर्ष में केवल तीन महीने हिम से छुटकारा मिलता है, लोग जल से कैसे प्रेम कर सकने हैं? इन दिनों जौलाई के महीने में हमारे पूर माघ से कहीं अधिक शीत यहाँ पर था। एक

तो तिब्बत की ऊंचाई कहीं १३००० फीट से कम नहीं, दूसरे
इसके चारों ओर हिमावृत पर्वतों की चट्टियां, फिर भला यहाँ
के निवासी गरम देश वालों की तरह जल को कैसे अपनाये ?
यह हो नहीं सकता ।

रात को कुछ काल तक भजन होते रहे। यहाँ की स्वतंत्र
भूमि में किसी टिकटिकी का 'भय' तो था ही नहीं, मैंने शुद्ध
और स्वच्छन्द वायु से अपने फेफड़ों को भली प्रकार भर
लिया । रात्रि बड़े सुख से कटी ।

१६ जौलाई शुक्रवार—सवेरे उठ कर चले । तुकपु नदी पार
कर उत्तर पूर्व की तरफ हो लिये । धीरे धीरे धूप सेकते हुये
सचचरों पर जा रहे थे । एक पहाड़ी पर चढ़े, उस पर बर्फ
पड़ी हुई थी । यहाँ हमें दो चार बादलों ने घेर लिया । थोड़ी देर
में धुनकी हुई रुई की तरह हिम ऊपरसे आने लगा । अमरीका
छोड़ने के बाद आज फिर इन रुई के गाला का मज़ा लूटा ।
घूमते घूमते; पहाड़ियों के मामूली उतार चढ़ाव देखते हुये
एक बड़ी घाटा में घुस गये । यहाँ डाकुओं का डर रहता है,
इस लिये सावधानी से इधर उधर देखते भालत आगे बढ़े ।
वास और पौधे यहाँ बहुत थे । सचचरें चलती इनमें मुंह
मार लेती थीं । नरम नरम वास जे दो चार त्रासों से मुंह भर
लिया और दौड़ पड़ी । रास्ते में कहीं किसी प्रकार की आवादी
देखने में नहीं आई । पहाड़ियां, पर्वतों नाले, घाटे, सोने देखते
हुये दस बजे के करीब ठाजंग पहुँचे । यहाँ दोचार डेरे थे,
बाकी भुटिया व्यापारी आगे चल दिये थे । एक पानी के नाले
के पास डेरा डाला । रात भर यहीं रहे; न्यू सरदी थी ।

१७ जौलाई शनिवार—भोर होने ही यहाँ से नगे । इन
पहाड़ी से निकल कर, जब ऊपर पहाड़ी मैदान में जाये तो

पीछे और दहिने हिमालय की श्वेत चोटियों की कतार क्या भली मालूम होती थी। ऐसा रमणीक भूप्रदेश मैंने पहिले कभी न देखा था। हिमालय की पर्वत माला का ऐसा विचित्र सौन्दर्यनिव्वत से हां देखा जा सकता है। मैदान में खड़े होकर सामने दृष्टि दौड़ाइये, दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जिधर आपका मन चले, उधर ही हिमालय की पर्वत-माला दौड़ती हुई बोध होगी। बर्फानी चीटियां बराबर एक के बाद एक सूर्यके प्रकाश में जगमग जगमग कर रही हैं। नैपाल, व्यास, चौन्दास, दारिमा, कुङ्गरीविङ्गरी, बलच, शेलशेल, नंती, माना के घाटे सब अपनी अपनी जगह पर दिखाई देते हैं। यहाँ किसी बड़े कुशल चित्रकार की आवश्यकता है। ऐसा सुन्दर सुहावना विशाल चित्र हिमालय का शायद ही कहीं से दीख पड़े। प्यारे पाठक, यदि आप केवल इसी विचित्र चित्र का आनन्द लाभ करने के लिये यहाँ की यात्रा का कष्ट उठावें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी यात्रा सार्थक हो जाय।

शुद्ध निर्मल जल की नदी पारकर छिनकु पहुँचे। छिनकु ठार्जग से चार मील होगा, यहाँ बहुत से पाल खड़े थे। छिनियों की भेड़े भां ! भां !! कर रही थी। नदी के स्वच्छ जल में स्नान करने की ठानी: बडा आनन्द आया। आज डण्ड पेल कर व्यायाम भी किया।

मीलम ने जो यात्री मुझसे पहले चल पड़े थे, वे यहीं से तीर्थपुरी होकर जानेवाले थे। यहाँ से तीर्थपुरी का सीधा रास्ता जाता है। यद्यपि मुझे तीर्थपुरी जाना था, लेकिन मेरी इच्छा ग्यानिमा मण्डी की चहल पहल देख, अपनी कैलाश यात्रा का पूरा प्रबन्ध कर, तब उधर जाने की थी ताकि मार्गमें

खाने पीने का कष्ट न हो। अब इसके आगे भुटियों से अलग होकर यात्री को कुछ खाने को नहीं मिलता। भुटिये व्यापारी ग्यानिमा तक जाते हैं; जो अधिक उत्साही हैं वे गरतोक भी पहुंचते हैं; कोई किसी कार्यवश कभी कैलाश भी जी चला जाता है, अतएव भारतीय यात्री को कम से कम पन्द्रह दिन का भोजन अपने साथ बांधना आवश्यक है। श्री कैलाश और मानसरोवर के मार्ग में भोजन छीनने वाले तो बहुत मिल जाते हैं पर देने वाला कहीं दिखाई नहीं देता। कोई दुकान भी नहीं, जहां से कुछ खरीदा जा सके। पेंसी दशा में यात्री इकट्ठे एक दूसरे की सहायता करते हुये चलते हैं, और यही उचित भी है। कुछ पहाड़ी यात्रियों ने सत्तू गुड़ भुटियों से खरीद लिया था। वे अपनी अपनी गठरी मुठगी बांध दूसरे दिन चलने को तय्यार बैठे थे। कइयों ने भिजा मांग कर अपनी रूढ़ इकट्ठी की थी।

यहां छिनकु में उस लम्बे उदासी साधु की दुष्टता का पूरा परिचय मिला। जिन यात्रियों के साथ वह आया था वे सब उसके हाथ से तंग थे। सब ने उसकी शिकायत की। वे उस उदासी को अपने साथ तीर्थपुरी लेजाना नहीं चाहते थे, और वह हुरदका उन्हीं के साथ जाना चाहता था। मेरे समझाने बुझाने पर वह रुक गया और पहाड़ी यात्री दूसरे दिन आनन्द से अपने मार्ग पर टोलिए।

१२ जौलाई रविवार—आज सवेरे पांच चार मील चल कर एक बड़ी नदी पार की। इस नदी का नाम गुणवन्ती है। यह सततज की सहायक नदी है। इसी के किनारे रेत में उरा किया।

२६ जौलाई सोमवार—नरेरे चले। बड़े बड़े वाग के मैदान देखने में आए। जहली बाड़े हमारे बायें हाथ दूर घर

रहे थे। एकधर कुछ फासले पर मैंने तीन चार हुणिए सवारों को आते देखा। मेरे साथी भुट्टिए सब पीछे थे; विजयसिंहजी भी पीछे आरहे थे। मैं उन हुणियों को डाकू समझ अपनी खच्चर रोक कर खड़ा होगया, और जब वे सौगड़ पर रह गए तो तेज़ी से अपनी खच्चर को चलाकर—“खमजम भो ! खमजम !” कहकर उनकी ओर दौड़ा ! वे भी ‘खमजम’ कह कर मेरे पास से निकल गए।

सामने दमयन्ती नदी चमक रही थी। उस के किनारे पहुंच मैं अपने साथियों की वाट जोहने लगा। जब सब लोग आगए तो उस पहाड़ी नदी को पार किया। इसमें कमर तक जल था। खच्चर इसको आसानी से पार कर गए आज दिनभर इसके किनारे रहे। शाम को मैं दो घंटे नदी के किनारे बैठकर ‘दमयन्ती’ नदी के पत्थरों के साथ अकेला खेलता रहा। सामने तेज धार बह रही थी। उसको देखकर क्या क्या भाव मेरे हृदय में उठे—

“दमयन्ती ! कैसा सच्चा भारतीय नाम है। इस नाम के उच्चारण करने से सती, साध्वी, भारतीय पतिव्रता रमणी ‘दमयन्ती’ का स्मरण होआता है। पति प्रेम से विह्वल उस विदर्भ राजकुमारी की मनमोहिनी मूर्ति सामने खड़ी होजाती है। पति विरह से आतुर वह, भारतीयवाला, अपने प्यारे नल को जङ्गल में तलाश करने निकलती हैं; वह देखो, जङ्गल के निर्जन स्थल में कामान्ध व्याध उसके रूप लावण्य पर मोहित होकर उसको पकड़ना चाहता है; शुद्ध पातिव्रत धर्म की तीव्र गण्डग से सुसज्जित दमयन्ती अपने प्रभु की ओर निहारती है। आहा ! वह दृश्य—पातिव्रत धर्म की विजय और कामानुरता का पतन, सत्य की विजय और अधर्म का नाश—यह

उपदेशप्रद शिक्षा इस एक 'दमयन्ती' शब्द में भरी है।"

* * * * *

रातको भजन कीर्तन हुआ। प्रभुके गुणानुवाद गाये; भारत-माता की विजय के लिए प्रार्थना की गई। सुख से रातबीती।

२० जौलाई मङ्गलवार—आज बहुत सवेरे उठे। सामने की पहाड़ी रात को बर्फ पड़जाने के कारण, श्वेतावरण विभूषिता, बन गई थी। आज ग्यानिमा पहुंचने का निश्चय था। यहां से ग्यानिमा केवल दस मील है। रास्ता सीधा मैदान ही मैदान है। छोटे छोटे भाड़ों से ढके हुए मैदान में से पगडन्डी जारही थी। दूर तक ऐत्साही मैदान चला गया है। आगे ग्यानिमा के निकट मैदान रुगड मुगड सा था। यहां घास कम थी; शोरा अधिक है; भूमि सफेद है।

दस बजे ग्यानिमा पहुंच गए। यहां विलकुल रही, कच्चे मकानों से भी बदतर, हुणियाओं के कबूतर खाने बहुत से बने हुए थे। पाठक, बहुत से हमारा अभिप्राय तीस चालीससे है। यहां थोड़ी २ भूमि जुदा जुदा व्यापारियों के लिए निश्चित है। विजय सिंह जी ने अपने निश्चित स्थान पर पहुंच डेरा डाल दिया। सब सामान उतारा; जगह भाड़ बुहार कर ठीक की। गन्दा! शिवशिव !! इतने मैले ये लोग होते हैं। इनके नरों के आगे झुड़ा कर्कट, भेड़ों के सिर, बकरियों की हड्डिया, लीद, गोबर, अला बला, सब कुछ पड़ा था। उर्नी में "गम-जम ! खमजम !!" करते हुए हुणिए इधर उधर जा आरहे थे।

पाठक महोदय, ग्यानिमा में हमें कई दिन रहना है। आइए पहले आपको ग्यानिमा मगड़ी का कुछ तात्वात् सुनावें ताकि आप अपने मन में इसका चित्र गेच सकें।

ग्यानिमा मंडी

पश्चिमी तिब्बत में, भारतीय व्यापारियों के लिये, ग्यानिमा बड़ी मंडी है। यह दक्षिणी भारतीय सीमा से ३५ मील दूर होगी। इसके उत्तर में तीर्थपुरी और कैलाश की पर्वतमाला, दक्षिण में भोट का इलाका, पूर्व में मानसरोवर और मान्धाता पर्वत, पश्चिम में तोलिङ्ग मठ, द्रावा और नेती है। यह मण्डी ग्यानिमा के बड़े चौड़े समतल मैदान में स्थित है। ग्यानिमा प्लेटो (अधित्यका) १५००० फीट की ऊंचाई से आरम्भ हो कर, धीरे धीरे १४००० फीट ढलवान की ओर, सतलुज घाटे के किनारे, किनारे पश्चिम की ओर, चला गया है। इस अधित्यका में पत्थर बिलकुल नहीं है; यात्री को चलने में बड़ा सुभीता रहता है; भूमि में से स्थान स्थान पर पानी फूटता है, इस लिये भूमि रात को बड़ी ठंडी होती है; हिमालय की बर्फानी चोटियां भी निकट हैं।

यहां डेढ़ दो महीने तक मण्डी भरती है। दूर दूर से व्यापारी आते हैं। रामपुर बगदरी, लद्दाखी तुर्किस्तानी, यागकन्दी, चीनी, भुटिए व्यापारी अपना अपना माल पशुओं पर लाद कर लाते हैं। गधे, याक, भेड़, खच्चर, भेड़, बकरी, घोड़े, जैसी जिसकी हैलियत हो, वैसा ही लह पशु काम में लाया जाता है। दूर दूर के भिन्न भिन्न भाषाभाषी, विचित्र वस्त्र धारण किये द्युये, यहां दीग्य पड़ते हैं। सभी तिब्बती भाषा जानते हैं; इनमें बातचीत कर एक दूसरे के हाथ अपना सांदा देचते हैं। कृषि सादे चार लाख रुपया का व्यापार इस मण्डी में होता है। सादे चार लाख रुपया क्या है? कुछ भी नहीं। जितना काट ये लोग उटाने हैं उनके मुद्राधिक में

साढ़े चार लाख का व्यापार क्या है, परन्तु बात यह है कि व्यापार हो नहीं सकता जहां हानि का भय अधिक और लाभ के साधन कम हों। एक तो विकट वादों से गुज़रना, दूसरे रास्ते की सरदी, तीसरे अच्छी बनी हुई सड़क नहीं, चौथे नदियों पर पुल नहीं, पांचवे डाकुओं का भय; कोई कहां तक हानि सह सकता है—तिस पर भी धन्य है इन लोगों को, जो सब प्रकार के दुख सहकर अपना पेट पालने के लिये इतना उद्योग करते हैं। ग्यानिमा के पश्चिमी मैदान में जहां घाटियां हैं वहां जिकपा डाकुओं का बड़ा डर रहता है। इक्के दुक्के आदमी को वे छोड़ते थोड़े ही हैं। व्यापारी लोग इसी कारण मिलकर चलते हैं, और अपने पास हथियार रखते हैं।

ग्यानिमा मण्डी में पक्के मकान बनाने की आज्ञा नहीं है। कच्ची ईंटें पानी के किनारे से काट काट कर उनकी दीवारें खड़ी करते हैं। उन दीवारों के ऊपर कपड़े, टाट, दरी आदि लगाकर मजदून आलतीनुमा छतसी बना लेते हैं। यहां बड़ी तेज़ हवा चलती है, उससे बचने के लिये अपनी गठरिया की दीवारें अन्दर से बना लकड़ के छेदों की पुर्ति करते हैं। जो व्यापारी लाना से आते हैं उनके तम्बू बड़े शानदार और दृढ़ होते हैं। आज कल जोलाई के आग्नीय में दोपहर को यहां तम्बू के अन्दर बड़े बड़े गन्नी गाजूम होती थी। न्यूनी किरण बड़ी तेज़ जलाने वाली होती हैं। गन् जो ऐसी नरदी कि बाहर कोहरा जम जाता है और भूमि नरुद हो जाती है जग सा पर्वतों पर रक्त गिरी और पड़ी ठडी हवा चर्नी ऋतु का कुछ ठिकाण नहीं। सवेरे जग में बाहर भिन्य रम के लिये जाया करता था तो पानी में लथ डालने में लथ उन ही जाता था।

जहाँ मण्डी लगती है वहाँ पास ही पहाड़ी के ऊपर किसी प्राचीन किले के खंडहर हैं । कहते हैं यहाँ किसी राजा का स्वतन्त्र राज्य था और ग्यानिमा का मैदान जल से भरा था । उस भील के होने से दुर्ग बड़ा सुरक्षित समझा जाता था । इसी मैदान में एक ऊँचा टीला है, जिसके इर्द गिर्द ग्यानिमा मण्डी लगती है । इस टीले पर बहुत से पत्थर एक कुंड में इकट्ठे किये हुये हैं, जिन पर 'श्रोम माने पदमे हुं' का मन्त्र खुदा है । ये अक्षर देखने में बंगला लिपि जैसे मालूम होते थे । ग्यानिमा का लामा प्रतिदिन उस टीले पर चढ़कर पवित्र कुंड की पूजा किया करता था । हुणिए रंग विरंगी भाँडियाँ यहाँ चढ़ाते हैं और मिन्नत माँगने आते हैं । इसी कुंड में पशुओं के सींग भी पड़े थे, जो किसी श्रद्धालु ने चढ़ाये होंगे ।

व्यापारी लोग यहाँ अपने अपने डेरों में दुकानें लगाते हैं । कत्कत्ता, बम्बई कानपुर से विलायती और देशी कपडा खरीद कर ले जाते हैं । सूखे फल, चीनी, लालटैनें, मंगे, मांती मालायें, घोडों की जीनें, खिलौने आदि सामान लेजाते हैं । तिब्बती लोगों के सिक्के का नाम टंका है, इसका मूल्य छः आने के बराबर होता है, कभी बढ़ घट भी जाता है । भुटिए लोग इन्हीं टंकों को दाम में ले लेते हैं और जब तिब्बत से चलने लगते हैं तो यही टंके हुणियों को देकर उनसे उनका माल घोड़े, परमीने, खुटके—आदि खरीद लेते हैं । तिब्बत का व्यापार अधिकांश श्रद्धालु बंदले का है । टंके भारत में तो चल नहीं सकते पर अङ्ग्रेजी भिक्का-रूपया, दोश्रती, चाँश्रती, अटनी—तिब्बत में खूब चलती है । इस कारण भुटियों को सिक्कों में प्रायः कम्बर गानी पड़ती है, जो भी वे किमी न किसी प्रकार उस कम्बर को निजाल लेते हैं ।

अपने व्यापार को सुरक्षित रखने तथा अपना उधार बसूल करने के लिए भुटिए व्यापारियों को तिब्बती हाकिमों को प्रसन्न रखना पड़ता है। उनको कोई न कोई भेंट प्रत्येक वर्ष देनी पड़ती है, उनकी हर प्रकार खुशामद करते हैं। जो व्यापारी मिलनसार है, आदमी पहचानकर उधार देता है, हाकिमों को मुट्ठी में रखता है, वह अच्छा लाभ उठाता है। दुकानों पर दिन भर तांता लगा रहता है; हुणिए माल देखते फिरते हैं। जो सिर मुंडे हों, वे लामा हैं; यही लामाओं की पहचान है, कम से कम मुझे तो यहां यही देखने में आया। लासा के व्यापारी गोरे और खूब सूरत होते हैं, वे पश्चिमी हुणियों की तरह भड़े और काले नहीं होते।

प्रायः रोज मैं उस टीले पर चढ़कर मान्धाता पर्वत की चोटीयों को देखा करता था; संध्या को मैदान में घूमने जाता था। जहाँ जहाँ तिब्बती व्यापारियों के तम्बू थे, वहाँ कुत्ते, रुद्ररूप धारण किए, अपने मालिकों के असवाव की रक्षा करते थे। जहाँ किसी को उन्होंने देखा, भट उसपर लपके। यदि मनुष्य सावधान न हो तो टांग चीर डालना तो उनके लिए साधारण बात है। मैं इनसे बड़ा होशियार रहना था। ये कुत्ते पशुओं की रक्षा करते हैं और उन्हें भेड़ियों से बचाते हैं।

इस साल मण्डी अभी भरी न थी। बहुत थोड़े व्यापारी आए थे; धीरे धीरे उनके आने की आशा लोग कर रहे थे। मेरा चित्त यहां नहीं लगा, ग्यानिमा की गन्दगी के मारे मैं परेशान रहता था : जिधर जाओ उधर ही दुर्गन्ध ! डेरों के आसपास कुड़े के ढेर थे। मैंने शीघ्र चलने का निश्चय किया, विजयसिंह जी से सलाह कर चलने की ठानी। जाने की

सामग्री इकट्ठी की। सब पांगटी भुटियों ने इस कार्य में हाथ बटाया। उनका मैं बडा कृतज्ञ हूँ। वेचारों ने ज़रूरत से अधिक सामान इकट्ठा कर दिया और उसको कैलाश जी पहुंचाने का ठेका भी ले लिया। सलाह यह ठहरी कि खाने का सामान सीधा ग्यानिमा से कैलाश जी भेजा जाए और मैं अपने दो चार साथियों के साथ पाँच दिनों के खाने के लायक सत्तू लेकर तीर्थपुरी चल दूँ और वहाँ से आगे कैलाश जी चला जाऊँ; कैलाश जी पहुंच कर सब सामान मिल ही जायगा। पाठक शायद शंका करें कि सारा सामान साथ ही क्यों न ले गये? बात यह थी कि तीर्थपुरी की ओर दो स्थानों पर डाकुओं का बड़ा भय रहता है, कोई भ्रष्टू वाला हमारे साथ जाने को उद्यत नहीं होता था इस लिये लाचार होकर ऐसा ही करना पड़ा। जाने का निश्चय होगया, सब ठीक ठाक कर लिया।

ग्यानिमा तक तो मैंने धिजयसिंहजी के कम्बलों से गुजारा किया था, अब आगे चलने के लिये वे अपने कम्बल दे नहीं सकते थे। केवल एक मोटा काला कम्बल उनसे मंगनी ले लिया और थोड़ा खाने का सामान बांध बंध दूसरे दिन चलने की ठानी।

—:०:—

तीर्थपुरी चलते हैं

२५ जौलाई रविवार—सवेरे ही अपने प्रेमी भुटियों से विदा होकर हम लोगों ने तीर्थपुरी की ओर मुंह किया। मील भर दो चार सज्जन पहुंचाने आए। दो रुपये तनख्वाह पर एक पथप्रदर्शक को तीर्थपुरी तक साथ लिया। मेरे साथ जो और

यत्री थे, उनका जिक्र मैं विशेष कारण वश नहीं करूंगा। पाठक बुद्धिमान हैं, वे मुझे इस छोटी सी बात के लिये क्षमा करेंगे।

आठ वज चुके थे। सामने मैदान ही मैदान दिखाई देता था। इधर की हवा ऐसी साफ है कि दूर की चीज़ स्पष्ट दीख पड़ती है और देखने वाले को उसके निकट होने का भ्रम हो जाता है। जब चलते चलते अधिक समय लग जाता है और निर्दिष्ट वस्तु फिर भी सामने ही दिखाई देती है तब अपनी भूल का ज्ञान होता है।

दो तीन मील चलकर एक भील के किनारे पहुँचे। यह भील ऊंची भूमिपर है। मालूम होता है, इसीका जल ग्यानिमा मंडी के इर्द गिर्द फूटकर निकलता है, या कोई और कारण होगा। यहाँ कुछ देर सुस्ता लिया। फिर मैदान मैदान चलकर एक नाला पारकर घास वाले मैदान में पहुँचे। यहाँ बहुत सी चँवर गाये, भेडे चर रही थीं। इनके स्वामी दुसियों का डेरा भी पास ही था। पहले विचार किया यहाँ ठहर जाय, क्योंकि आगे डाकुओं का भय था, किन्तु बाद में ईश्वर पर भरोसा कर चल पड़े। इस चौरस मैदान को पार कर एक खुष्क पहाड़ी के नीचे पहुँचे। इधर उधर पानी तलाश किया, कहीं नहीं मिला। प्यासे ही पहाड़ी पर चढ़ गये।

इस पहाड़ी को पार कर जब दूसरी ओर पहुँचे तो सामने घाटी दिखाई दी। छोटी छोटी खुदक पहाड़ियों के बीच यह ऐतिली घाटी है। डाकुओं के लूट मार करने योग्य इससे अच्छा स्थान कहीं मिलेगा। उड़ विश्वास का अमृत पानकर घाटी में घुसे। इसको पार करते करते सूर्य डल गया। उसके हारे प्यासे एक साते के पास पहुँचे। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा

था। इसी के पास सूखे पहाड़ी नाले में ठहर गये। इधर उधर से उपले इकट्ठे कर लिये। जो पथप्रदर्शक था वह वेचारा लकड़ी ले आया। रात को सत्तू खाए और सारी रात आग तापकर काटी; मैंने घंटा भर भी नींद नहीं ली।

२६ जौलाई सोमवार—पांच बजे सबेरै चल पड़े। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। बड़ी कठिनाई से पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। यहां बहुत से भूबू लदे हुये आरहे थे। दोतीन जोहारी व्यापारी साथ थे, इनकी इच्छा ग्यानिमा जाने की थी।

इस पहाड़ी के शिखर से उतार आरम्भ हुआ। एक तंग घाटी में पहुंचे। यह भी किसी पहाड़ी नाले का रास्ता है। वर्षा ऋतु में इसमें कहीं से जल आता होगा, आज कल तो मानो अपने भाग्य को रो रहा था। इस घाटी का रूप बड़ा भयानक है। तग खुशक घाटी, इर्द गिर्द दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां मानो काट खाने को दौड़ती हैं। कोई पशु पत्नी यहां दिखाई नहीं दिया। दो घंटे में इसे पार कर एक तिमहानी पर पहुंचे। सामने पानी की गज भर चौड़ी धार बहरही थी। यही बैठ गये और हाथ मुंह धोकर सत्तू फांकने लगे। घण्टे भर में निश्चिन्त होकर फिर बढ़े। अब चढाई चढ़ना था। १६००० फीट घाटे पर ऊंचे चढ़ गये। यहांसे पूर्वकी ओर पहाड़ पहाड़ जाना था; सामने सतलुज चमक रहा था। देखने में मानो यह पास ही था, पर चलते २ प्यास का कण्ट सहते हुये, पाँच बजे सन्ध्या के करीब नदी के किनारे पहुंचे। सतलुज घाटी में बैठे हैं; सामने सतलुज नदी के पार तीर्थपुरी दिखाई देती थी; श्वेत श्वेत टीले धूप में चमक रहे थे। कुछ सुस्ताकर सतलुज का टण्डा जल पिया। प्यास मिटाने के बाद नदी पार करने की तय्यारी की। नदी तेज बह रही थी अतएव बड़ी सावधानी से लकड़ी के सहारे

सतलुज की तीनों धाराओं को पार किया। तीर्थपुरी पहुँच गए आज की यात्रा में जल बिना बड़ा कष्ट हुआ। सारे रास्ते में केवल दो जगह जल मिला।

यहां रहने के लिए पहाड़ी टीलों में गुफायें खुदी हैं, कमरे से बने हुए हैं। एक ऐसी ही गुफा में रात बितानी पड़ी। तीर्थपुरी के लामा लोगों ने अपने रहने के लिए इसी प्रकार की गुफायें बनाई हुई हैं। जो यात्री तीर्थपुरी में बुद्धभगवान के मन्दिर के दर्शन करने आते हैं, उन्हीं को ये सब ठगते हैं। हमारे पीछे भी लग गए थे, बार बार सत्तू मांगते थे। रात किसी प्रकार कट गई।

२७ जौलाई मंगलवार— प्रातःकाल में गरमजल के चश्मे देखने गया। एक सफेद पहाड़ी पर कई जगह पानी उबल उबल निकल रहा था। दो एक स्थान पर जल ऐसा उष्ण था कि उसमें हाथ नहीं डाल सकते थे। इन गन्धक के चश्मों में से जो जल उबल उबल कर निकलता है वह पृथ्वी के नीचे नीचे राक्षसताल से आता है। यात्री लोग इस स्थान को "भस्मासुर की ढेरी" कहते हैं। दन्त कथा है कि किसी भस्मासुर नामी राक्षस ने श्रीशिवजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या की थी। भोले देवता उसके प्रेमपाश में बंध गए और उससे वर मांगने के लिए रुहा। भस्मासुर बोला "भगवन् ! मुझे ऐसी शक्ति दीजिये कि जिनके सिर पर मैं हाथ रखूँ वह उसी क्षण भस्म होजाए"। महादेव जी ने कहा "एवमस्तु"। जब भस्मासुर के हाथ में भस्म करने की शक्ति आ गई तो उसने दुष्टता बश उसका प्रयोग शिवजी पर ही करना चाहा। महादेव जी भागकर पृथ्वी के नीचे निपट गए। भस्मासुर ने देवी पार्वती जी को घेरा और उनसे अपना

श्रेय प्रगट किया । पार्वती जी ने कहा—

“बहुत अच्छा । तुम पहले शिवजी का ताण्डव नृत्य कर के दिखलाओ, विना उस नृत्य को जाने कोई भी भगवान की वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता ।”

भस्मासुर उन्मत्त हो नाचने लगा, और उसने ताण्डव नृत्य करते करते अपने हाथों से अपने ही सिर को भूल से छू दिया, वस उसकी दुष्टता का वही अन्त हुआ । इसी कारण इस स्थान को भस्मासुर की ढेरी कहते हैं, और यात्री लोग यहां की सफेद मिट्टी अपने साथ लेजाते हैं और उसको पवित्र मान अपने शरीर पर लगाते हैं ।

शतद्रु नदी के किनारे, तीन घाटियों के संगम पर, तीर्थपुरी का मन्दिर विराजमान है, इर्दगिर्द सुन्दर सुहावना घास, लडखहाते हरे मैदान, मीलों लम्बे चले गए हैं । पहाड़ी पर खड़े होकर दृष्टि डालने से प्रकृति का विचित्र चित्र दिखाई देता है । चारों ओर हरी हरी दूब पशुओं के श्रित्त को प्रसन्न करनेवाली है । पहाड़ियां खुशक हैं पर मैदानों में घास बराबर चला गया है और मैदान भी बड़े बड़े लम्बे हैं । इन मैदानों के बीच बीच कैलाश पर्वतमाला से आने वाले पहाड़ी नाले गड गड करके बह जा रहे हैं । इन नालों की शक्ति बढ़ाते हैं, ये नाले पर्वतों पर तीर्थ हैं, किन्तु तिव्वत वासी इन नालों के सौन्दर्य का ही उठाते । मरे हुए पशु, नदी के किनारे पड़े हैं, ह बहुत फिरोक हैं, लेकिन का त नही दे

दिनों का दरिद्र दूर किया। दोपहर को मन्दिर देखने गए। अंधेरी गुफा में मन्दिर है। मैं तो अच्छी तरह देख भी नहीं सका। घी के छोटे छोटे चिराग बुद्ध भगवान की मूर्ति के आगे जल रहे थे। इन मन्दिरों में घी बहुत चढ़ाया जाता है। कई लामाओं के चित्र यहां टंगे थे।

रात को इधर का जंगली साग बनाकर खाया। चश्मे के पासही खुले में सोए। आग सारी रात जलती रही।

२८ जौलाई से ३० जौलाई तक—सबेरे बड़ी कठिनाई से कुली का प्रबन्ध कर सके। हमारा पथ प्रदर्शक तो ग्यानिमा लौट गया, उसकी ज्यूटी तीर्थपुरी तक की थी। तीर्थपुरी में एक लामा आया हुआ था, वह हिन्दी भाषा कुछ कुछ बोल सकता था, उसी की सहायता से दो कुली मिले। ये दो कुली तीर्थपुरी के छोटे लामा थे, जो श्री कैलास प्रदक्षिणा के लिए जा रहे थे। इन दोनों को असवाव उठाने तथा मार्ग दिखलाने के दो रुपये छः आने दिये।

तीर्थपुरी से कैलाश जी तीन दिन का मार्ग है। इन तीन दिनों की यात्रा में हमें रास्ते में घास के मैदान, पहाड़ी नदियां, और भेड़ चराने वाले हुएिए मिले। कई नदियां पार करनी पड़ती हैं; बड़ी सावधानी चाहिये। जरा कहीं पैर फिन्सल गया तो नदी अपने साथ ही ले जाती है। मैदानों में घास बहुत है, बजारों भेड़ बकरों आनन्द से खर सरुने हैं। हवा बड़ी तेज और ठण्डी चलती है। यात्री को हवा से बचने के लिये गरम कन्टोप का अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये। रात को हम लोग खुले में जल के पास डेरा करते थे। अपने सोने लायक भूमि साफकर पत्थरों की दो फीट ऊंची दीवारें गड़ीं, फिर पासही आग जला विस्तरे बिलाकर सो रहने थे। रात चलते,

किसी प्रकार समय काटना था। तिब्बती लोग ऐसे पत्थरों के घेरों को डोंगे कहते हैं। सारे तिब्बत में इसी प्रकार के डोंगे पांच पांच चार चार मील पर बने रहते हैं। यात्री लोग इन्हीं से मार्ग की पहचान करते हैं। इस देश में न सड़के हैं, और न पुल ही हैं, सब सफर 'अभ्यास' पर निर्भर है। जो नित्य के धुमकड़ हैं वे ही पथ-प्रदर्शक का काम दे सकते हैं। तिब्बती पथ-प्रदर्शकों का मुख्य भोजन चाय है। चाय बनाकर सन्तुओं के साथ खाते हैं, जैसे गरमदेश में जल पिया जाता है, ऐसे ही इधर चाय का व्यवहार होता है। जहां जाकर पहुंचे, लकड़ी उपले इकट्ठे किये, दियासलाई हो तो अच्छा, नहीं तो चकमक पत्थर की रगड़ से आग पैदा कर धुकनी से भट आग सुलगा लेते हैं। इधर की हरी लकड़ी भी खूब जलती है। छोटे छोटे भांड, आधे भूमि के अन्दर आधे बाहर, होते हैं। इनको उखाड़ कर तत्काल जला लिया जाता है। ईश्वर की माया है।

तीस जौलाई को सबेरे हम श्रीकैलाश के नीचे सिन्धु नदी के किनारे पहुंच गये। यहीं से कैलाश जी को मार्ग जाता है। सिन्धु नदी कैलाशपर्वतमाला से निकल कर आती है। इसी के किनारे किनारे कैलाशजी की ओर हमको जाना था। सामने पर्वतों के बीच मार्ग फटा हुआ है, सिन्धु नदी ने इस मार्ग को पर्वत फोड़ कर बनाया है। इसी में हम सब घुसे। यहीं से कैलाश परिक्रमा का आरम्भ होता है।

विजयसिंहजी ने मेरे खाने पीने का सामान लैन्डी गुनवा (मुख मन्दिर) में भेजा था इसलिये आज इसी मन्दिर में ठहर गये। परिक्रमा के पांच छः मील चलने पर यह मन्दिर मिलता है। यह भी गुफा खोदकर बनाया गया है। नदी की घाटी में पांच सौ फीट ऊंचे टीले पर अच्छा बड़ा मन्दिर है।

उसके अंदर एक कोने में, जहां जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं, हम लोगों को ठहरने का स्थान मिला। उसी को साफ करके वहीं रोटी बनाई और पेट-पूजा की। ग्यानिमा छोड़ने के बाद आज रोटी और बड़ियों का शाक खाने को मिला। भोजन के बाद मन्दिर देखने गये। यहां अच्छा बड़ा पुस्तकालय है। तिब्बती भाषा के बहुत से ग्रन्थ देखने में आए। उनको कपड़ों में लपेट कर सावधानी से रखते हैं। लामा लोग हर समय 'ओम माने पद्मे हुं' का जाप करते रहते हैं। स्त्रियाँ भी संन्यासिनी की तरह इन मठों में रहती हैं, और अपने समय को बुद्ध भगवान की सेवा में खर्च करती हैं।

कैलाश जी की प्रदक्षिणा करनेका घेरा २५ मीलका है और तीन दिन लगते हैं; कई यात्री दो दिन में ही मार्ग तै कर लेते हैं; तिब्बती लामा तो रात दिन चलकर इसे पूरा कर सकते हैं, जैसी जिसे सहूलियत होती है वैसा ही वह करना है। जो अमीर यात्री हैं, जिनके साथ नौकर तथा खेम हैं, वे आनन्द से पांच चार दिन में अपने सुभीते अनुसार यात्रा का मज़ा लूटते हैं। जिनके पास नौकर नहीं हैं वे जहां तक जल्दी हो सकती है करते हैं, क्योंकि सामान पीठ पर लाद कर इन पहाड़ों की यात्रा नहीं हो सकती। जिनको अभ्यास है वे कर भी सकते हैं। मैं तो अपनी कहता हूं, मेरे लिये तो पांच सेर बोझ लेकर चलना भी कठिन था। इसी कारण यहां मुग्म-मन्दिर से टूलरा कुली दरचन तक तलाश किया। अब मेरे पास बोझ अधिक होगया था। विजयसिंह जी ने जो सामान भेजा था वह और मेरे कपड़े लचो-इन सब की एक गठरी बना-मुग्ममन्दिर के लामा के मुहूर्द करदी। गठरी का प्रचाली तरह सीकर, उसपर लाय की मुहरें लगा दी ताकि लामा के

शुरुभाई रात को सामान निकाल कर हज़म न कर जायँ। दर-चन चौथा और आखरी पड़ाव है। परिक्रमा करने वाले दर-चन से शुरु करके दरचन ही लौट आते हैं; यही पूरी पच्चीस मील की परिक्रमा है।

३१ जौलाई शनिवार--सवेरे पांच मील तक सिन्धु के किनारे किनारे चले गये। रास्ते में कई जगह बनेले कबूतरों को कलोलें करते देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। इन बर्फानी पर्वतों में यह भोला भाला पच्ची कहां से आगया। रास्ते में दोनों ओर जलप्रपात देखे। कैलाश जी की चोटी मेरे दहिने हाथ थी और बायें हाथ दूसरी पहाड़ियां, दोनों ओर से हिम ढल ढल कर आरही थी। आगे बढ़े। सामने कैलाश जी के भव्य दर्शन हुए।

—:o:—

श्री कैलाश दर्शन

क्या ही अलौकिक दृश्य था। यह अनुपम छटा! श्री कैलाश जी का पर्वत सचमुच ईश्वरीय विभूति का अनोखा चमत्कार है। मैंने मन्दिर शिवालय बहुत से देखे हैं पर ऐसा प्राकृतिक शिवालय इस भूमण्डल पर कहीं नहीं है। जिस कुशल शिल्पी ने प्रथम शिवालय की रचना विधि का नकशा तय्यार किया होगा, उसके हृदय पट पर तिब्बत स्थित इस नैसर्गिक शिवालय की प्रतिकृति अवश्य रही होगी, इसके बिना वह कदापि शिवालय बना नहीं सकता था। प्रकृति ने हिम द्वारा वही ऋट, वही लुंठ, वही घेरा, वही चिनाई, वही सजावट इस कैलाश पर्वत के निर्माण में खर्च की है। भारत में नकली शिवालय देखा करने थे, आज यहां शिवजी का असली

स्थान देख लिया। २१८५० फ़ीट ऊंचे इस कैलाशजी की महिमा का वर्णन क्या तोड़े कर सकता है ? किस गौरव के साथ उन्नत मुख किये, यह चारों ओर देख रहा है। इसकी दृष्टि अपने प्यारे भारत पर पड़ रही है, जहाँ उसकी प्रतिकृति बनाकर करोड़ों आत्मयों "हर हर महादेव !" की ध्वनि कर अपने ओ धन्य मानती है। दूर-चीन, जापान, स्याम, ब्रह्मा, लका-आदि देशों से बौद्ध धर्मावलम्बी इसकी परिक्रमा करने आते हैं। श्रीकैलाश जी का यह विश्वकर्मा रचित मन्दिर उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ स्वच्छो न भारत के बच्चे, चीन, जापान, के बच्चों के साथ प्रेमालिङ्गन करने लुये, इसकी परिक्रमा करेगे।

जिस कैलाश जी की महिमा पुराणों ने गाई है, जिसकी प्रशंसा में तिव्वती ग्रन्थ भरे पड़े हैं, उस श्रीकैलाश के दर्शन कर आज मैंने अपने आपको धन्य माना। यद्यपि इन् पवित्र दर्शन के लिए बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े, गन्दे तिव्व-तियों के साथ रहना पड़ा, लामाओं की घुड़कियां सुनीं, तो भी क्या, इस आनन्द के सम्मुख वे सब दुःख हवा हो जाते हैं ! सिन्धु नदी के किनारे जा रहे थे पर आंग्रे कैलाश जी पर थी। दूसरा मन्दिर आ गया। इसको डुरफू कहते हैं। यहाँ सिन्धु पार कर गौरीकुण्ड की ओर चले। कैलाश जी यहाँ बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास है। चढ़ाई बड़ी कठिन है। धीरे धीरे चढ़ा। रास्ते में वर्षा होने लगी, फिर साफ होगया। ऊंचे ऊंचे चढ़ते हैं। कैलाश जी के ठीक पीछे, ऊपर की ओर गौरीकुण्ड है। यह चारह महीने जमा रहता है। चार बजे के करीब यहाँ पहुँचे। कुण्ड बरा है, गानी भील है। आजकल जीतार में इनपर वर्षा जपी थी। गौरी कुण्ड के किनारे बैठकर लक्ष्मी गाने श्रोए

वर्षानी जल पिया ।

चलने की शीघ्रता की, क्योंकि वर्ष गिरने का भय था। श्रीकैलाश जी को तीन बार नमस्कार किया, फिर 'वन्देमातरम्' का जाप कर 'हरहर महादेव !' की ध्वनि से श्री कैलाश जी को प्रसन्न कर चल पड़े।

यहां से नीचे वेढ़व उतार है। जैसी वेढ़व चढ़ाई से ऊपर आए थे, वैसेही नीचे साढ़ेतीन मील जाना था। एक प्रेमी की सहायता से साढ़े तीन मील वेढ़व उतार को पूरा किया।

नीचे पहुँचे ही थे कि बादल फिर घिर आया। मूसला-धार वर्षा घंटे भर तक होती रही। एक बड़े ढोंके की आड़ में देर तक बैठे/रहे। चारों ओर जलही जल दिखाई देने लगा। जब वर्षा थम गई तो नदी के किनारे तीसरे मन्दिर की तरफ चले। पाठक अब हम लौटते हैं, सुनिए; उस घाटेके पास से जहाँ पर्वत माला फोड़कर सिन्धु नदी मैदान में आई है, हम लोगों ने परिक्रमा आरंभ की थी। धीरेधीरे नदीके किनारे ऊपर चढ़ते हुए डरफू पहुँचे थे; वहाँ कैलाश जी की पूर्णकलाके दर्शन कर दहिने हाथ गोरी कुण्ड की ओर घूमे, इस धुमाव से गोरी कुण्ड तक विकट, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई पूरी कर, कुंड का अमृत रूपी जल पान किया। वहाँ से उतरे। डरफू, से लेकर इस उतार के पूरा होने तक जो मार्ग है उसको आप श्रीकैलाश जी की पीठका शास्ता समझिये। डरफू के पास हमने सिन्धु नदी को छोड़ दिया था. उतार खतम होने पर कैलाश पर्वतमाला से निकलने वाली दूसरी धाराको पकड़ लिया। अब इसके किनारे किनारे चलकर पीछे लौट पड़े।

संध्या होगई। पानी में "छल ! छल !!" करते हुये जारहे थे। जूता टूट गया, उसको फेंक देना पड़ा। वाईं ओर भयानक पर्वत-माला, दाहिनी ओर कैलाशजी, सामने विकट मार्ग चले जारहे हैं; साथी सब आगे चले गये, केवल दो जनेमेरे साथ थे। एक साथी की गलती के कारण रास्ता भूल गये। बिलकुल अन्धकार छा गया। श्रधेरा ! मुझे दिनाई नहीं देता, टटोल टटोल कर पहाड़ी दुर्गम पथ पर जा रहा हूं। वाये हाथ नदी भीषण नाद करती हुई जा रही है, दाहिने हाथ कैलाश जी की पर्वतमाला चली गई है। रान्ता नहीं सूझता। इस घटाटोप अन्धकार में दाहिने हाथ के पत्थरों के पास बैठ जाते हैं। जिस साथी की भूल का यह परिणाम था वह बेचारा पछुताता है, पर " अब पञ्च-ताये क्या होत है जब चिड़ियां चुग गईं खेत"—आज इसी विकट घाटी में, बर्फानी पर्वतों के बीच, गुले में रात काटनी पड़ी, परन्तु एक सहारा उस सर्वशक्तिमान का था जिसने सदा अपने प्रेमियों की मुसीबत में रक्षा की है।

भीगे हुए पत्थरों पर बैठे हैं; काला कन्वल ओटा हुआ है, छाता लगा रखा है; आकाश में से आच्छन्न है। सामने मे नदी की गर्जना की आवाज़ आरही है; इर्द गिर्द काला अन्ध-कार, सामने ऊंचे पर्वत पर बर्फ पड़ी है। बैठे हैं; चुपचाप बैठे हैं; अकडा हुआ बैठे हैं; ज़रा इधर उधर नहीं डोड़ता ताकि कपड़े मिट्टी से लतपत न होजायें, ऊपर से बर्फा होराही है। ऊबता हूं। वह क्या ? पीछे से पानी आरहा है। दोनों पैरों को अच्छी तरह ऊपर पत्थरों पर रखता हूं, करडे नन्भातता हूं ताकि पानी नीचे नीचे से चला जाए। बर्ग बन्द होगई, प्रभु का गाय होता हूं; कुछ ध्यान करता हूं। धीरे धीरे रात बीतनी है—एक, दो, तीन, चार, पांच—यह सालो सूर्य उगवान का

देदीप्यमान रथ आरहा है। अन्धेरा भागता है, वह प्रकाश के सामने कैसे ठहरेगा। दिन होगया। आह ! ३१ जौलाई १९१५ शनिवार की रात इस प्रकार कटी। आयु भर यह रात भी याद रहेगी।

१ अगस्त रविवार—सवेरे छुड्डुलपु मन्दिर में पहुंच गण* यहां मन्दिर के आगे बहुत सी भण्डियां लटकवाई हुई थीं। मन्दिर वैसा ही गुफा की तरह है; दरवाजे, और छतें भी होती हैं; दो तीन मंजिले मकान बनाते हैं। यहां दो रूप देकर मैंने टाट का जूता खरीदा। जूता क्या था खाली मोटे टाट का तलाही तला था। उसी में रस्सी डाल पैर के इर्दगिर्द जकड़ लेते हैं, उसी भद्दे तले को पहिर कर आगे बढ़ा। नदी के किनारे किनारे चलकर चार घंटे में घाटी से बाहर निकले; मैदान में पहुंचे; सामने है दरचन। पूरी परिक्रमा होगई।

दरचन कैलाशजी के उपत्यिका में छोटा सा ग्राम है; यह भी नदी किनारे बसा है। यहां एक दुकानदार के आंगन में ठहरने का प्रबन्ध किया। जब धोरा खोलकर अपने रसद सामान ठीक करने लगे तो दरचन मन्दिर के मेनेजर को पता लगा। वह हमें अपने साथ लेगया हमने उसके यहां ठहरने का प्रबन्ध कर लिया। तिव्वती लोग हमारे असबाब—आटा दाल चावल-आदि को किसी धोके से ठगना चाहते थे; सभी की लालसा थी कि इनसे कुछ न कुछ ठग लें। जिस प्रकार हमारे तीर्थों पर पण्डे गिद्धों की तरह यात्रियों पर झपटते हैं ऐसे ही यहां भी देखने में आया।

दारिमा के दो तीन व्यापारियों की सहायता से मैंने भ्रष्ट किराए पर क्रिया। यहां का दुकानदार हुणिया तकलाकोट जा

* यहां से कुछ साथी कहीं चत्र दिये-लेखक

रहा था, उसी का भ्रष्ट रूप पर किराए कर लिया ।

यहां से मानसरोवर और मानसरोवर से तकलाकोट जाना था, वहां से भारतीय सीमा अति निकट है । उस दुर्गिण की सलाह तीन अगस्त को चलने की थी, इसलिए मुझे दो दिन यहां ठहरना पड़ा ।

दरचन मन्दिर में तिब्बती क्रूरता की भयंकर व्यवस्था मालूम हुई । लामाओं ने एक बकरे को पकड़ कर उसका मुंह और नाक कसकर बांध दिया; दम घुटने से पशु छुटपटाने लगा; बेचारे ने तड़प तड़प कर प्राण दिए । अपनी इस क्रूरता का कारण इन्होंने यह बतलाया कि बौद्धधर्म के अनुसार लामाओं को जीवहिंसा का निषेध है, इसलिए उस नियम की रक्षाहित पशु को शस्त्र से नहीं मारते, केवल दम बन्द कर देते हैं, पशु आपही मर जाता है ! यह फिलासफी इन लामाओं की है । आज रात को कड़ी और चावब बनाकर लाया । थके हारे सो गए । रात भर वर्षा होती रही ।

२ अगस्त सोमवार—जिस दुर्गिण के साथ हमें जाना था, उसका नाम मैं 'बूझी' रखता हूं, क्योंकि वह बातें करते करते 'बूझी ! बूझी !! " कहकर चिल्लाता था । 'बूझी' आज कैलाश की परिक्रमा करने गया था । हमें भी यहीं ठहरना पड़ा । दरचन में पक्के मकान बने हैं । जिस मन्दिर में हम ठहरे थे वह दो मंजिला और पक्का बना हुआ है । आज नमकीन रोटी बनाकर मन्त्रज के साथ खाए । तीन रोटी बूड़े लामा को दे दी, इस पर मैनेजर हमपर बड़ा विगड़ा और हमारा असबाब उठाकर बाहर फेंकने लगा । किसी प्रकार उसको मनाया, मिनत नुरामद की, उसे भी रोटियां दी, तब वह धूर्त करीं मान्त हुआ । जिस दरिद्रा पावे

व्यापारी ने झूठे किराये करा देने में सहायता की थी वह भी 'बखसीश' मांगने आया। किसी प्रकार उसको भी रफादफा किया। आज दिनभर वर्षा होती रही। रात को उसी मन्दिर में सोए।

१००

मानसरोवर प्रस्थान

३ अगस्त मंगलवार—साढ़े आठ बजे के बाद 'बूभी' ने चलने की तय्यारी की। चल पड़े। सामने मैदान में नदियों की भरमार है। दो दिन जो वर्षा होगई थी, उसके कारण पर्वतों से जल उमड़ आया था। बरसात में तो दरचन से राक्षस ताल तक एक खासी बड़ी भील बन जाती होगी। यदि पिबुली रात वर्षा बन्द न रहती तो आज हम किसी प्रकार मानसरोवर नहीं जा सकते थे। नदियों को लांघते, धाराओं को पार करते हुये निकल गये। सूखे ऊंचे मैदान में पहुँचे, यहाँ दारिद्र्य वाले व्यापारियों के कुछ पाल खड़े थे। उनसे मिले। एक व्यापारी के १२०० रुपये चोरी होगये थे; वह गरीब बड़ी दीनता से चोर के पता लगाने में मेरी मदद मांगने लगा। उसने समझा कि शायद यह साधू ज्योतिष विद्या, द्वारा उस चोर का पता लगा सके। मैंने उसे बहुतेरा समझाया कि मुझमें यह योग्यता नहीं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उस दुस्ती पर मुझे बड़ी दया आई लेकिन मैं कर क्या सकता था।

सामने राक्षसताल सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। उसी की ओर बढ़े। रास्ते में पानी की दिक्कत रही। 'बूभी' राक्षसताल के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके विलकुल निकट जाने से पाँच चार मील का फेर पट जाता और मानसरोवर पहुँचने में रात हो जाती, इस लिये राक्षस

ताल से डेढ़ मील फासले पर जो पगडण्डी मानसरोवर जाती है उसी को धर कर चले। आज भी डाकुओं का बड़ा भय था और रास्ता उजाड़ बियावान ! इधर उधर देखते हुये, बड़ी तेज़ी से बढ़े चले गए। मेरे पात्रों को रस्ती ने काट दिया था, चलने में कष्ट होता था, तो भी क्या, उन्हीं टाट के तलों को फिटफिटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे दहिने हाथ डेढ़ मील पर रात-सताल लहरे मार रहा था ; उसका दृश्य देखते हुए एक घास के मैदान में घुसे। मैं सब से पीछे रह गया। यहां रास्ता पहचानना दुस्तर है; अनजान आदमी कहीं का कहीं निकल जाय। 'बूझी' तो भ्रू पर सवार था इस कारण उसे रास्ते की कठिनाई क्या मालूम होती; उसने हम लोगों की कुछ भी परवाह नहीं की। मरता क्या नहीं करता, लाचार होकर उसके पशुओं के साथ साथ भागना पड़ा। अत्यन्त कष्ट सहकर मानसरोवर के निकट पहुंचे। पांच बज गये थे। एक नाला सा सामने दीख पड़ा। मैंने उसके जल से प्यास बुझाने की ठानी किन्तु 'बूझी' ने मना कर दिया। वाद में पता लगा कि उसका जल नमकीन और हानिकारक है।

इस नमकीन नाले के पास ऊंचे टीले पर चढ़े। यहां गरम जल के चश्मे हैं उन्हीं के पास गुफा में डेरा डाला। थकान के मारे मुझसे चला नहीं जाता था ; पात्रों में झाले पड़ गये थे। वहीं गरम जल से मैंने अपने पात्रों को धोया, तत्पश्चात् मानसरोवर देखने के लिये चला।

मानसरोवर

गुफा से थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर मानसरोवर के पुनीत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस मानसरोवर की महिमा बालकपन से सुना करता था; जिसके दर्शनार्थ भारत की करोड़ों आत्मायें लालायित हैं, जिसको देखने के लिये योरप के धुरन्धर विद्वान दूर दूर से आते हैं, जिसकी नैसर्गिक शोभा की प्रशंसा सब विदेशियों ने मुक्त कंठ से की है, उस मानसरोवर के दर्शन कर मैंने अपने आपको करोड़ों वार धन्य माना।

पाठक ! पूर्व की ओर मुंह कर अपने आपको एक पहाड़ी पर खड़ा कीजिये। वह पहाड़ी टूटी दीवार की तरह ऊची नीची आपके दहिने बायें चली गई है। आपके पीछे सूर्य देव अपने दिन का कार्य पूराकर धीरे धीरे अपनी शक्तियों को समेट रहे हैं। कृपाकर अपनी दृष्टि दौड़ाइये। आपके सामने सत्तर* मील परिधि की एक वृहत् भील है। उसके चारों ओर पर्वत-मालाएं हैं। है। वह देखिये दक्षिण की तरफ मान्धाता पर्वत की बर्फानी चोटियों का प्रतिविम्ब जल में कैसा मनोहर दीख पड़ता है। सामने, भील के पूर्वी किनारे पर, नीले पर्वतों की कतार कैसी शोभा बढ़ा रही है। उत्तर में कैलाश जी अपने साथी संगियों के साथ विहार कर रहे हैं। सरोवर का जल नीला नीला आंखों को क्या ही सुख देता है। वह देखिये, राजहंस, श्वेत बिलकुल श्वेत, अपनी सुन्दर पतली चोंचों से जलमें क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका आलाप सुनिये; मस्ताना चाल

*अङ्गरेज़ी लेखकों ने मानसरोवर की परिधि पैंतालीस मील लिखी है लेकिन परिक्रमा करने वाले भुटिया लोग इसकी सत्तर मील से कम नहीं मानते।

देखिये ; स्वच्छन्दता का विचरना निहारिये; किस निर्भयता से ये वाते कर रहे हैं। क्या इनको किसीका डर है ? विलकुल नहीं। यहां इन्हें पूरी स्वतन्त्रता है, किसी शिकारी के निशाने का भय नहीं। ये मनुष्यों की तरह वाते करते हैं, कैसी बड़ी आवाज़ है, इनके झुंड जलपर क्या मजे में तैर रहे हैं। आहा ! हा !! हा !!! क्या ही अनुपम छवि है।

* * * * *

अब संध्या होना चाहती है। आइए चलें, कल सबेरे इस पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी यात्रा सफल करेंगे। तौटकर गुफा में आगये। सत्तू खाकर पेट पूजा की। इस गुफा में विस्तरे लगा दिये; सारी रात होश नहीं रहा।

४ अगस्त बुधवार— भोर होते ही गुफा से निकले। 'बूभी' ने भ्रुवुओं पर असवाव लादा और चल पड़े। मानसरो-वर के किनारे किनारे चार मील तक चले गए। एक स्थान पर किनारा स्नान करने योग्य था, वहां उठर गये। सामने भास्कर महाराज खिले चेहरे से हंस रहे थे। निर्मल, न्यच्छु जल की लहरें मेरे पांश्रों के पास खेल रही थीं। यद दिन भी मेरे जीवन में बड़े पुरय का था। कपडे उतार दिये: मानसरो-वर के शीतल जल में प्रवेश किया। आज बहुत बर्षों की बच्छु पूण दुई, परमात्मा को वार वार धन्यवाद दिया। भील बहुत गहरी है: जल विलकुल साफ है।

यहां हमारी इस बारह चौन्दामी बुट्टिये यात्रियों से भेट दुई। इनमें रियां अधिक थीं। ये लोग नरुताकोट के लीण-लेण वाटे से तिन्वत में आए थे। इनकी इन्ग शीकेनाग दर्शन की थी। मैंने इनसे तकलाकोट के सनानाग पूरे। तरुलाकोट वाला यादा, जोहारी कुंजरीदिंगरीवाले वाटे जैसा

भयानक नहीं, यह केवल साढ़े सोलह हजार फीट ऊंचा है। मेरी इच्छा भी पहले इसी रास्ते तिव्वत प्रवेश करने की थी, किन्तु वागेश्वरी व्यापारियों के कहने से मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया था। इन धर्मात्मा चौन्दासी स्त्रियों ने संतुष्टों से हमारी सहायता की।

स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया*। वूभी आगे बढ़ गया था। सामने ऊंची घास से लदी हुई पहाड़ी पर चढ़े। तीन चार मील चलकर उस पहाड़ी से पूर्व की ओर रास्ता घूमता है। यहां पत्थरों का ढेर है। यह ढेर भुलकड़ यात्रियों को रास्ता बतलाता है। यहां खड़े होकर मानसरोवर की तरफ पुनः दृष्टि दौड़ाई। भील का दृश्य यहाँ से और भी बढ़िया है। मीलों लम्बे हरे हरे मैदान मानसरोवर के इर्द गिर्द है, जहां हज़ारों भेड़ बकरी मजे में चर सकते हैं। दहिने हाथ की तरफ राजसताल की सुन्दरता भी कम नहीं, यहां खड़ा हुआ मनुष्य दोनों सरोवरों की वहार मजे में देख सकता है। श्री कैलाश जी से मानसरोवर आने में भूमि नीची होती जाती है और मानसरोवर अधित्यका १५००० फीट की ऊंचाई पर है, इसका फैलाव बहुत दूर तक है। मानसरोवर से तकलाकोट की ओर जाने में फिर ऊंचाई शुरू होती है।

यहां मैं और एक प्रेमी रास्ता भूल गये। 'वूभी' न जाने कहां चल दिए। दोनों अने इधर उधर भटकते रहे। आज मेरे पाश्र्वों में दर्द था। धूपमें चलने से प्यास लग गई। राजस-

*डाकुओं के कारण अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। यदि मेरे पास राख, कार्फा भोजन का सामान तथा खेमा आदि होता तो यहां पांच रत्न दिन अग्रय ठहरते। दुबारा जब जाऊंगा तो सब प्रबन्ध ठीक रहेगा-लेमक

ताल के किनारे आकर उसका जल पिया यहां ताल के किनारे
हुण्डियों के खेमें गड़े थे; उनसे तकलाकोट का मार्ग पूछा ।
उनके बतलाने पर पूर्व की ओर मुंह कर चल दिये । एक बज
चुका होगा । दहिने हाथ घास का मैदान है और बाएं हाथ
वर्फानी पहाड़, यही मान्धाता पर्वत है, इसी के साथ साथ जा
रहे हैं । बड़े चक्र काटने पड़े; ऊंचे नीचे मैदानों को तै किया;
पांव छुलनी होगये; नंगे पैर चलना पड़ा; रस्सियों ने पावों में
घाव कर दिये ।

गुरला मान्धाता पर्वत के पास

संध्या होगई । पत्थरों से भरी हुई करनाली नदी के गल
के पास एक चौड़े मैदान में पहुंचे हैं । करनाली यहां अपने
वर्फानी घर से निकल कर मैदान में आई है । इसको पार कर
इसके दूसरे किनारे पर रात काटनी थी । शीत वर्फानी जल में
पांव डालता हूं, नदी का वेग पांशों के ज़रमों में नमक का
काम करता है । पांव उखड़ते हैं, इनको अपनी मानसिक शक्ति
से पत्थरों पर जमाता हूं । एक धार पार कर ली, दूसरी में
अधिक जल है : परब्रह्म का नाम लेकर इसमें पांव रखता हूं ;
वर्फानी जल पांशों को काट रहा है; उनको सुन्न कर रहा है ।
लफड़ी को ज़ोर से दवाकर पांव उठाता हूं । धीरे धीरे, एक
कदम दो कदम, नदी पार करता हूं । सामने पास की ओर में
'बूझी' चाय बना रहा है; वहीं रात काटनी है ।

रात को करनाली के किनारे रहे । यह रात भी रुमी न
भूलेगी । गुरला की वर्फानी चोटियां चमक रही हैं । रात को
रोटी बनाकर खाई । सुटने जोड़कर लेट गया; तरदी के मारे नींद
नहीं आई । कपड़े ओस से भीग गये हैं । सुन्न चांशनी निद्र करने

लगी है। आहा ! चन्द्रदेव के दर्शन हुए; क्या ही रम्य दृश्य था। घंटों बैठा इसी को देखता रहा, नदी की गड़गड़ के सिवाय भन्वुओं के जुगाली करने की आवाज़ आती है; साथियों में से कोई खुराटे भर रहा है। चन्द्रदेव धीरे धीरे हलके पड़ रहे हैं; सूर्य भगवान की सवारी आ रही है। कुछ प्रकाश हुआ; चलने की तैयारी कर ली।

तकलाकोट पहुंचते हैं।

५ अगस्त रविवार—आज कई नदियां पार कीं। करनाली की सहायक नदियों का आनन्द देखते हुए कभी ऊंचे कभी नीचे के चढ़ाव उतार पूरे करते हुये, ग्यारह वजे के बाद एक पहाड़ी नाले के किनारे पहुंचे। यहां कुछ नाश्ता किया। फिर चले। कंकड़वाले मैदान तैकर लिये, अब नीचे उतर रहे हैं। दो वजे के करीब करनाली की घाटी में पहुंचे। यहां पहली बार लहलहाते खेत देखने में आए। जौ का खेत लहरें मार रहा था। छोटी छोटी नहरें काट कर स्थान स्थान पर भूमि सीची गई है। इधर उधर चारों तरफ हरे भरे मटर के खेत दिखाई देते थे। नीचे नीचे उतर रहे हैं; बहुत नीचे आगये। गुरला के १६००० फीट ऊंचे घाटे से चले थे, धीरे धीरे १३००० फीट तक आगये होंगे। छोटे छोटे ग्राम सामने हैं। बुधियाँ की औरतें खेतों में काम कर रही हैं। ग्राम के बाहर भूत भगाने के सामान हैं; 'ओम माने पदमे हुं' की कतारें लगी हैं; झंडियां गड़ी हैं; मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं।

बार वजे के बाद तकलाकोट की पहली मण्डी में पहुंचे। यहां हज़ारों भेड़ें जमा थीं, दुकानें लगी हुई थीं। हमने ककना उचित नहीं समझा। एक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद दुमरा मंडी में पहुंचे। यहां श्रीलालसिंह जी के यहां ठहरने का प्रबन्ध

क्रिया । भोजन बनाकर खाया, और मुर्दों की तरह सो रहे ।

तकलाकोट

मान्धाता पर्वत के ठीक नीचे तकलाकोट मण्डी है । व्यास, चौदास, दारिमा नेपाल के व्यापारी इस मण्डी में अपना माल बेचने आते हैं । इधर के भारतीय घाटे का नाम लीपू लेख है । तकलाकोट से यह सात मील पर होगा । यह मण्डी यहां की तीन नदियों के संगम पर बसी है और इसके तीन तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं । भूमि अत्यन्त फलदा है । नदियों के जल का नहरों द्वारा सदुपयोग किया गया है, चारों ओर भूमि सिंचकर अन्न बोया जाता है । जहां जल नहीं पहुंचा वहां की भूमि तो गंज रूप धारण किये बैठी है । वर्षा इधर अधिक नहीं होती, जो कुछ अनाज उत्पन्न होता है वह सिंचार्द द्वारा ही होता है ।

तकलाकोट के जिले में सैंतीस ग्राम हैं । ये नदियों के किनारे बसे हैं । यहां के घर पत्थर के होते हैं ऊपर से मिट्टी पुती रहनी है; काम लायक अच्छे होते हैं । प्रत्येक ग्राम के पास जौ और मटर के खेत देखने में आए । श्रीगोचरनाथ* मठ की ओर रास्ते में बराबर हरियाली ही हरियाली है । भूमि बड़ी उपजाऊ है । वृक्षों का सर्वथा अभाव न जाने क्यों है ? जिस भूमि में जौ और मटर हो सकते हैं वहां फलों के वृक्ष क्यों न होंगे ; मालूम होता है किसी ने यत्न ही नहीं किया ।

भुटिया लोगों ने अपने घर दीवारें खड़ी कर बनाये हुए हैं; ऊपर से कपड़े तान लेते हैं । जब मण्डी का आयु होचुकता है तो कपड़े की छतों को उगाड़कर अपने अपने

* श्री गोचरनाथ मठ तरुणाकोट से प: तान मीनपर है । रायो रहने दिन में उसे देख ला सकता है—लेखक

घर ले जाते हैं। दीवारें खड़ी रहती हैं। बहुत से घर गुफाओं के अन्दर हैं। जहाँ जिसको थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, वहीं उसने खोदखाद, लीप पोत, घर का स्वरूप खड़ा कर लिया है। ग्यानिमा से यह मण्डी बहुत अच्छी जगह पर है, यहाँ न तो उतनी सरदी ही है और न हुण्डीयों का उतना जङ्गलीपन, करनाली नदी इनकी बहुत कुछ सफाई कर देती है। नदी के दोनों तरफ ऊँचे किनारे हैं। इन्हीं किनारों पर, चौरस भूमि में तकलाकोट की रौनक के सामान है।

यहाँ एक मठ है जहाँ लामा लोग अपने चले चेलियों के साथ रहते हैं। छोटे छोटे लड़कों को चेला करते हैं। उनमें सिर मूँड़ कर उनका नाम 'चुंग चुंग' धरते हैं। सोलह वर्ष की अवस्था में उन लड़कों की परीक्षा लेकर उपाधियाँ दी जाती हैं। जो ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत लेकर दीक्षित होते हैं उनके 'गिलो' कहते हैं। साधारण लामाओं को कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, ऐसे लामा तिब्बती भाषा में दाबा कहलाते हैं।

तकलाकोट से दो मील के फासले पर टोओ नाम का ग्राम है। यहाँ सरदार ज़ोरावरसिंह की समाधि है। १८४१ में कश्मीर नरेश गुलाबसिंह जी की आज्ञा से सिक्ख सेना नायक ज़ोरावरसिंह ने १५०० सैनिकों को साथ लेकर तिब्बत पर हमला किया था। कैलाश जी के पास वरखा के मैदान में उस शूरवीर ने ८००० तिब्बतियों को पराजित कर तकलाकोट में आकर डेरा जमाया। बाद में चीन सरकार ने तिब्बती लामाओं की सहायता के लिये फौज भेजी। ज़ोरावरसिंह, अपने बहादुर कप्तान वस्तीराम के सुपर्दे अपनी फौज कर आप मुट्ठी भर आदिमियों के साथ अपनी धर्मपत्नी को लड़ाई

छोड़ने चला गया ताकि लौट कर निश्चिन्तता से युद्ध कर सके। वही उसके नाश का कारण हुआ। चीनी फौज तिब्बतियों की मदद के लिये आ पहुँची और उसने ज़ोरावरसिंह को रास्ते में आघेरा। इतनी बड़ी फौज के सामने मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे, सब घिर गये और उनकी बोटी बोटी नोच ली गई।

अब वस्तीराम के लिये क्या रह गया, वह अपने साथियों के साथ भारत की ओर भागा। सामने लीपूलेख बर्फ़ से ढका था उसको पार करने में बहुत से सिक्ख सिपाही वीरगति को प्राप्त हुये; थोड़े से असह्य कण्ठ भेलकर जीते घर पहुँचे। और दूसरों का देश छीनने के पाप को आजन्म न भूले।

उसी सिक्ख सेना नायक ज़ोरावरसिंह की समाधि टोप्री में है। तिब्बती लोग उस भारतपुत्र के वीरत्व की अब तक प्रशंसा करते हैं और उसकी समाधि को पूजते हैं।

मंडी में मैं छः अगस्त से नौ अगस्त तक रहा। अपने थके हुये शरीर को आराम दिया, भुटिया भाइयों को उपदेश भी सुनाया। इन में शिक्षा का विलकुल अभाव है, शरात्र व्यभिचारादि दोष अधिक हैं। ये लोग हिन्दूधर्म से दूर हैं; इनमें तिब्बतीपन अधिक युत्ता हुआ है।

गगनिमा मंडी की तरफ़ वहाँ भी भुटिया व्यापारी दुकानों के साथ माल का अदल बदल करते हैं। मानसरोवर के शर्द गिर्द नाल के बड़े बड़े मैदान हैं इन लिये अधिकतर जन उधर से आती है। तन्नाकोट के बहाजन इस जन को परीक्षार तनकपुर भेजते हैं। वहाँ पम्बर्, पलाकता, तानपुर, धारीवान् आदि नगरों में स्थित पुतलीरों के एजन्ट सरदारों में शकृते होते हैं; तिब्बती जन यहाँ वपती है।

आजकल मंडी ज़ोरोंपर थी, खूब माल बिक रहा था। श्री-लालसिंह जी होशियार व्यापारी हैं; इनकी साधु महात्माओं पर भी बड़ी श्रद्धा है। आपके यहां ठहरने से मुझे सुख मिला, इसके लिये उनका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ।

१० अगस्त मंगलवार—खच्चर की सवारी का प्रबन्ध कर लिया था। आठ बजे सबेरे चल पड़े। नदी पारकर दक्षिण दिशा की ओर चले। रास्ते में पांच चार मील तक मखमली हरियाली आंखों को आनन्दित करती है। स्थान स्थान पर छोटी छोटी नालियां खोद कर पानी खेतों में पहुंचाने का प्रबन्ध है। सामने हिमालय है—इस तरफ तिब्बत और उस ओर प्यारा भारत-बढ़े चले गये। एक पथ-प्रदर्शक मेरे साथ था। हिमाचल के निकट पहुंचने पर ज़ोर की वर्षा आध घंटा भर हुई; नदी बढ़ गई; खच्चर ने उसको कठिनाई से पार किया।

अब लीपूलेख की ओर चलते हैं। एक छोटी नदी के किनारे किनारे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ते में कई जगह भुटिये चरवाहे पशु चरा रहे थे। ऊपर चढ़ते हैं। हिमाचल पर बादल छाया हुआ है। सामने ऊंचे दाहिने हाथ नदी का ग्लेशियर है। खच्चर पर से उतर कर पैदल चढ़ रहा हूँ। बाईं तरफ ऊंचे पर्वतों पर धुन्ध अपनी अठखेलियां दिखा रही है। गल पर पहुंच गये। यह छोटा ग्लेशियर है, इसको लांघ कर बाईं ओर चलते हैं। दोनों ओर गरही गल हैं, सीधे जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर दाहिने हाथ ऊंचे चढ़ना है। उधर दृष्टि डालने से दरवाज़ा सा मालूम होता है। यही घाटा है। खच्चर पर सवार आहिस्ते आहिस्ते ऊपर चढ़ रहा हूँ; पथप्रदर्शक ऊपर पहुंच गया। मैं भी खच्चर को

चलने के लिये कहता हूँ। चला, दस कदम और बाकी हैं ; ऊपर लीपूलेख घाटे पर पहुँच गया।

तिब्बत की ओर एक दृष्टि ।

१६७५० फीट ऊँचे इस घाटे पर खड़ा हूँ। मेरे दाहिने हाथ की ओर जो उतार है यह मातृभूमि की सीमा का आरम्भ है ; बायें हाथ का उतार, जिसको चढ़कर आया हूँ, तिब्बत की ओर जाता है। इधर ही एक दृष्टि दौड़ाता हूँ। उत्तर पूर्व तरफ मान्धाता की चोटियाँ अपनी शान दिखा रही हैं। यहाँ कुंगरीविङ्गरी जैसी भयानक सरदी नहीं। अपनी यात्रा पर विचार करता हूँ।

कुंगरी विङ्गरी घाटे द्वारा पश्चिमी तिब्बत में प्रवेश करने के बाद भोजन के कैसे कैसे कष्ट भेलने पड़े, लेकिन मेरी यात्रा का मूल्य मुझे मिल गया—मैंने वे दृश्य देख लिये जो संसार में अद्वितीय हैं। जिस तिब्बत का नाम ही सुनते थे उसे देखा लिया, जिन लामार्थों की कथा पढ़ते थे उनसे भेंट करी ; जिस कैलाशजी के गुराणुवाद् पुराणों ने गाए हैं उसके साक्षात् दर्शन कर लिये ; जिस मानसरोवर की महिमा योगी लोग बखानते हैं उसकी सुन्दरता देखा ली ; उसमें स्नान भी कर लिया ; पात्रों को बेशक बड़ा कष्ट हुआ परन्तु वह कष्ट थोड़े ही दिनके लिये था। तिब्बती दृश्यों की शोभा का आनन्द सारी आयु न भूलेगा।

वाहरे तिब्बत ! तूभी एक विचित्र देश है। संसार में नव से ऊँचा और सम से निगला है। पानी अच्छा हो यदि तेरे बचे भी जाग उठें और संसार की गति के अनुसार अपने जीवन को बनालें। मेरी पड़ी इच्छा तेरे एक तिरें से दूसरे तिरें तक

धूमने की है। मैं मानसरोवर के किनारे महीनों रहना चाहता हूँ, किन्तु तेरी वर्तमान स्थिति में ऐसा करना असंभव सा है। जब तक चीन और भारतवर्ष सोते हैं तू भी तब तक खुर्राटे ही लेता रहेगा; चीन और भारत के भविष्य पर तेरा भी भविष्य निर्भर है।

तू धातुओं से परिपूर्ण तो है, पर वे तेरे लिये कुछ लाभदायक नहीं। तेरे वच्चे मुश्किल से पेट पालते हैं। तेरे यहां जब तक शिक्षा जोर शोर से न फैलेगी तब तक तेरी संतान की दशा भी सुधर नहीं सकती।

बुद्धदेव ने जो धर्म तेरे वच्चों को सिखलाया था वह बड़ा शुद्ध और निर्मल है। जब तेरे शिक्षक भारतवर्ष की धार्मिक अवस्था बिगड गई, तो तू कैसे अच्छा रह सकता था, अब भारत की दशा बदलने लगी है। क्या भारतपुत्र अपने प्यारे शिष्य तिब्बत को भूल जायेंगे? कभी नहीं। तिब्बत पर हमारा धार्मिक अधिकार है; हमें तिब्बत को धर्म सिखलाना है। हमें अपने पूज्य तीर्थों—श्री कैलाश और मानसरोवर—पर अपने धार्मिक झण्डे गाड़ने चाहिये। आवश्यकता है कि यहां हमारे मठ बनें, और हमारे धर्मोपदेशक अपने पुराने काम को नये उत्साह के साथ आरम्भ करें। क्या भगवान् बुद्ध का परिश्रम बृथा ही जायगा? कभी नहीं।

आर्य संतान! उठो, भगवान् शक्य मुनि के पदों का फिर अनुसरण करें, तिब्बत हमारी बाट जोड़ रहा है; वह आर्य सभ्यता से परिष्कृत होना चाहता है। आओ, एकवार फिर तिब्बत में आर्यसभ्यता का डंका बजायें।

चतुर्थ खण्ड

—:०:—

भारत में प्रवेश

२० अगस्त मङ्गलवार—तीन घंटे के करीब भारत में प्रवेश किया। हिमालय का यह द्वार लीपूलेख बड़े सुभांते का है; उतार की पगडण्डी नदी के किनारे किनारे चली गई है। यद्यपि उतार कहीं कहीं कठिन है मगर मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं लगना। न इधर ऊंटाधुरा जैसे ग्लेशियर ही हैं, और न वैसी विकट चढ़ाई—सुन्दर, सुहावनी हरियाली को देखता हुए यात्री मजे में चला जाता है। काली नदी यहीं से निकलती है; इसकी धार यहां बिल्कुल छोटी सी है। घाटी में खच्चर पर चढा हुआ जा रहा है, पथप्रदर्शक साथ है। दोनों ओर पहाड़ी दीवारों पर कहीं कहीं हिम पड़ी है; वह पिघल पिघल कर नीचे आ रही है। रास्ते में व्यापारी लोग जाते हुए मिले। इधर इस घाटे में जगह जगह धर्म-शालाएं हैं, ठहरने के स्थान बने हैं। पहाड़ी धर्मशाला मामूली एक मंजिल की, पत्थरों से छाई हुई, छोटे छोटे दरवाजों वाली होती है। दरों में किवाड़ नहीं लगाए जाते; जितने दर उतनी ही कोठरियां बनी रहती हैं। उनके बनाने में पहाड़ी तेज़ हवा से बचने का ध्यान रखा जाता है। छतों की ऊंचाई इतनी कम होती है कि मनुष्य कोठरी में सीधा नड़ा नहीं हो सकना, साथ ही कोठरियां तड़ भी बनाई जानी हैं ताकि उनके गरम रंगने में अधिक ईंधन की जरूरत न पड़े।

आज शाम को काली के किनारे ऐसी ही धर्मशाला में डेरा किया। एक यात्री उस धर्मशाला में पहले से आया हुआ

था। उस ने रोटी बनाई। पेट पूजा कर आनन्द से सोरहे।

११ अगस्त बुद्धवार—कालापानी ग्राममें पहुंचे। यहां कई चश्मों से जल निकल निकल कर काली में गिरता है। भुटिया इन चश्मों के जल को कालीका स्नान समझ यहां बड़ी श्रद्धा से स्नान करते हैं। काली के किनारे किनारे जा रहे हैं। काली नदी अल्मोड़ा जिले को नैपाल से अलग करती है—इस तरफ अल्मोड़ा है और नदी पार नैपाल—इधरसे अपराधी उधर नैपाल के जङ्गलों में भाग जाते हैं। नदी का पाट तो बड़ा छोटा है किन्तु स्वरूप चामुण्डा जैसा है। अथ हमको बराबर इसके किनारे बड़ी दूर तक जाना है। जैसे गोरी ने जोहार का रास्ता पर्वतों को काट कर बनाया है ऐसे ही कालीने इधर के पर्वतों को फोड़ कर बड़ी मुश्किल से अपना मार्ग निकाला है। आज कई दिनों के बाद देवदारु के वृक्षों की कतारें देखने में आईं; हिमालय के वन्य दृश्य फिर आरम्भ होगये। तिब्बत की रुंड-मुण्डता दूर हो गई। चिन्त में कैसी प्रसन्नता होती है। वृक्षों की डालियां समीर के झोंकों से आनन्दित हो पहाड़ी राग गारही हैं। अपने हितकर, अपने अनुकूल जल वायुमें आगए, यह बड़ा सुखदायी है। पवन के झकोरों में पास के पहाड़ी खेतों की सर सर ध्वनि सुनता हुआ जा रहा हूं। मातृ भूमि किस प्रेम से स्वागत कर रही है; अपने बच्चे को गोद में ले रही है। आहा! इस आल्हाद का क्या वर्णन करूं।

तकलाकोट से गर्वाङ्ग २६ मील है। आज मुझे वहीं जाना था। आधे से अधिक मार्ग तो पहले दिन ही आबुके हांगे, आज का रास्ता आसान, दृश्य मनोहर, निर्मल आकाश, अनुकूल जलवायु—हंसता हुआ जा रहा था। तिब्बत से कुशल पूर्वक लौट आया, इसको स्मरण कर फूला न समाता था। जो उद्देश

था वह होगया । सच है किसी कार्य की सफलता का आनन्द भी बिलकुल निराला ही होता है ।

गर्व्याङ्ग

मध्याह्न के बाद गर्व्याङ्ग के पास पहुँचे । यहाँ काली नदी का पुल पार कर ग्रामकी तरफ आगये क्योंकि आज हम काली के नैपाल वाले किनारे किनारे आए थे । गर्व्याङ्ग इस ओर का आखिरी पोस्ट आफिस है जैसे जोहार की तरफ मनस्यारी सबसे आखिरी डाक घर है, ऐसे ही इधर गर्व्याङ्ग है । काली नदी का पुल पारकर ऊंची चढाई चढ़ने के बाद गर्व्याङ्ग पहुँच गए । यहाँ मेरे इधर आने की सूचना कई प्रेमियों को पहले से थी इस लिये कोई कष्ट नहीं हुआ । रहने का ठीक ठाक कर लिया ।

गर्व्याङ्गकी अधित्यका (प्लेनो) समुद्री तल से दस हजार फीट की ऊँचाई पर है, अल्मोड़े से साढ़े चार हजार फीट ऊँचा समझिये । तीपूलेक घाट द्वारा तिब्बत में प्रवेश करने वाले व्यापारियों का यह मुख्य स्थान है इस लिये यहाँ अनाज तथा अन्य विक्रियार्थ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है । व्यापक चौदास के लोग यहाँ आकर ठहरते हैं, और यहीं के पोस्ट-आफिस द्वारा उनका रुपया तिब्बत में जाता आता है । मई से अक्तूबर तक यहाँ स्कूल और डाकघराना शादि रहते हैं । जाडों में भोदिये लोग नीचे धार सूना में नले जाते हैं । यहाँ अच्छे पत्तके दड घर बने हैं । लोगों की आर्थिक म्ना प्रबन्धी है । इनके चेहरे भी संतोषियन हैं । इन प्रत्यंग नद नजबून होते हैं । सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है । ननाचार पन आते हैं । यहाँ के विद्यार्थी प्रयोग्य पढ़ने जाते हैं । जंग

बड़े उत्साही हैं। कुछ वर्षों बाद शिक्षा फैलने से इनके आचार व्योहार अच्छे हो जायेंगे अभी तो तिब्बतियों की संगत से जहालतकी टोकरी विद्यमान है। गलियां गन्दी, स्कूल के आस पास गन्दा, मकानों के आंगन गन्दे, कहां तक कहूं, सफाई के तो यह लोग मानो दुश्मन हैं।

यहां मैं तीन दिन रहा। मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था, खाना पचता नहीं था। तकलाकोट में एक दिन मैंने मोटे बड़े बड़े उड़द बनवा कर खाए थे। उस ऊंचाई में भला मोटे उड़द कैसे पक सकते हैं, मैं उनको कच्चे ही खा गया, उसी भूल का दण्ड भरना पडा। एक सप्ताह भर मुझे अजीर्णता की शिकायत रहा, इसके बाद फिर अच्छा होगया।

१४ अगस्त शनीवार—गव्याङ्ग के आगे निरूपनियां का बड़ा विपम और दुर्गम पथ है। आज कल वर्षा के कारण उसने भीषण रूप धारण किया था। कोई कुली मेरा अस-वाव उठाकर साथ जाना नहीं चाहता था। एक प्रेमीकी सहायता से कुली का ठोकठाक किया। आज भोजनोपरान्त चल पड़े।

गव्याङ्ग से बुदी चारमील है। आज यहीं रात काटने की सलाह थी। ग्राम से निकलते ही उतार आरम्भ हो जाता है, बुदी तक कठिन उतार है। तीन घंटे में मार्ग तै किया; बुदी के स्कूल में ठहरे, स्कूल के अध्यापक महाशय ने भोजनादि का यथोचित प्रबन्ध कर मुझे अनुग्रहीत किया। रात यहीं रहे।

मालपा

१५ अगस्त रविवार—सधेरे चले। बुदी से मालपा तक रास्ता खराब है; वर्षा के कारण रास्ता स्थान स्थान पर दूख

हुआ मिला। काली नदी काटखाने को दौड़ती है; उसीके किनारे किनारे जाना था। दो तीन जगह ऐसे जलप्रपात मिले जो यात्रीके ठीक सिर पर गिरते हैं। ऊपरसे जलप्रपात, नीचे काली का भयंकर नाद, गज़ भरके करीब चलने की जगह और उस पर भी कोई जमी हुई, ऐसे पथ पर चलने वाले यात्री की मानसिक परिस्थिति क्या होगी? इसका अनुमान पाठक स्वयं लगाले।

१२ वजे के करीब मालपा पहुँचे। यहां चट्टान के ऊपर घास की एक भोंपड़ी है, इसीमें डाकखाने के हरकारे लोग ठहरते हैं। इनका काम मालपा से गर्व्याङ्ग तक डाक पहुँचाना है। मालपा से गलागाड़ आने वाले हरकारे भी यहीं ठहरते हैं। काली नदी के ठीक किनारे पर इनकी भोंपड़ी है। नदी की सागी लीला यहां से दिखाई देनी है। एक दूसरा पहाड़ी नाला यहां काली में मिलता है। आज यह बड़े ज़ोरों पर था। मैंने बहुतेरा यत्न इसके पार करने का किया मगर सफलता न हुई। बहुत अधिक जल इसमें न था, मुश्किल से मेरी कमर तक होगा पर धक्के गज़ब के देता था। जहां से मेरी इच्छा इसे पार करने की थी वहां से काली पांच गज पर होगी; ज़रा सा पाप्राँ के उखडने की देर थी, वस फिर तो पार करने वाले का अन्त ही समझिये।

इस तंग घाटी में बड़ा छुटपटा रहा हूँ। मेरे दहिने हाथ पहाड़ी नाला बड़े वेग से चट्टानों पर से कूदता हुआ आगता है, बायें हाथ काली बड़ी निर्दयता पूर्वक चट्टानों का नंगार कर रही है; उस संगम पर मैं ऊंचे पत्थर का आश्रय बिन सदा हूँ। मेरी कुलु भी पेश नहीं जाती, बस मेरा गन्ता गोंह रहा है। सामने पहाड़ों नाले के पार गालागाड़ से शाने घाला

हरकारा बैठा है। वह वेचारा भी क्रोध से पहाड़ी नाले की ओर देख रहा है। नाले ने लकड़ियों के पुल को तोड़ डाला है। आज पुल नहीं बन सकता; कल बनाया जायगा।

पाठक, आप शंका करते होंगे कि पहाड़ी नाले ने पुल कैसे तोड़ डाला? कृपया ज़रा इधर के पुलों का चित्र तो अपने मन में खींचिए। किसी वृक्षकी बड़ी मोटी लम्बी शाखा को फाटकर नाले के आरपार रखदेते हैं, वस यही इधर का पुल है। यदि उसमें कुछ वैज्ञानिक बुद्धि का प्रयोग करना हो तो एक लम्बे काष्ठ की बजाय दो काष्ठ रखदिए, और दोनों के बीच जो खाली स्थान रहा उसको पत्थरों से ढकदिया। ऐसा पुल इधर बड़ा सुदृढ़ समझा जाता है और उसपर हज़ारों रुपए के माल से लदे हुए पशु बेखटके आते जाते हैं। जिस काष्ठ के पुल पर हम लोग पांचदस रुपये मिलने पर भी पाओं न रखें, उस पर भोटिए लड़के वाज़ीगरों की तरह कूदते चले जाते हैं। यह सब अभ्यास की बात है।

आज रात काली के किनारे गुफा में रहे। सारी रात जल बरसता रहा। पिस्तुओं के मारे अच्छी प्रकार सोना नहीं हो सका।

१६ अगस्त सोमवार—भोर होतेही हरकारे लोग नाले का पुल बनाने की चेष्टा करने लगे। मैंने तो एक दृष्टपुष्ट पहाड़ी नवयुवक की मदद से पुल बनाने के पहले ही नाला पार करलिया। थोड़ी देर बाद दो चार आदमियों ने मिलकर एक मोटे लट्टे को जल के आरपार रखा। इसी खौफनाक एक-लट्टे के पुल पर से वाकी सामान पार उतारा गया। पथ-प्रदर्शक के साथ आगे बढ़े। अब निरपनियों की विषमता मालूम हुई।

निरपनियां

ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। रास्ता कहीं गड़भर है, कहीं
 आध-गड़, टूटा हुआ; पाथ्रों फिसलते हैं। ऊपर चढ़ने में पौधों
 की टहनियां पकड़ पकड़ कर चढ़ता हूँ। यदि कहीं भूल से
 पैर इधर उधर होजाय तो फिर सैकड़ों फीट नीचे घाटी में
 जाकर हड़्डी हड़्डी सब टूट जाए। रास्ता कीचमय है; मिट्टी
 फिसलाऊ है। ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। इस पहाड़ के ऊंचे
 शिखर पर पहुंचना है। काली नदी, नीचे, नीचे, नीचे, उसकी
 मंद मंद आवाज़ आ रही है। यह तो ! गड़गड़ !! वह सामने
 बड़ा ढोंका किस तेज़ी से नीचे फिसलता जा रहा है, इसकी
 गर्जना हृदय को कम्पायमान करती है। परमदेव, परमदेव,
 आपही सहायक हैं।

पहाड़ के ऊपर शिखर पर पहुंचे। यहां से इर्दगिर्द दृष्टि
 दौड़ाई। वादल कहीं नीचे, कहीं चोटियों पर विचर रहे थे।
 पूर्व की तरफ सामने नैपाल के पहाड़ हैं, उनकी चोटियां
 बादलों से ढकी हैं। वर्षा इस समय बन्द है। यहां बैठकर
 सत्तू खाए और कमण्डलु भर जल पिया। पथ-प्रदर्शक चलने
 को कह रहा है; अभी ऐसे ऐसे दो तीन पहाड़ और पार
 करने हैं।

चल पड़े। अब नीचे उतर रहे हैं। इधर बायें हाथ दृष्टि
 दौड़ाये तो आंख कहीं ठहरती नहीं, इकड़म नीची घाटी है।
 कमज़ोर दिल मनुष्य को तो यह नीचार्द डेगकर ही चक्कर
 आने लगे। जैसे ऊंचे आप थे जैसे ही नीचे जा रहे हैं। नीचे
 जाना ऊपर जाने से भी कठिन है; वहां गिरने का प्रयत्न भय
 रहता है। एक तो महा कठिन उतार दूसरे भीना हुआ रास्ता,

तीसरे बेटे ब फिसलन, वास पकड़ पकड़कर नीचे उतरता हूँ, एक एक इञ्चभूमि के लिए लड़ रहा हूँ। उतरते उतरते, नीचे काली के किनारे पहुँच गए। अब फिर ऊपर चढ़ना है।

बड़ा भयङ्कर रास्ता है। पुराने मार्ग से, मीलों का चक्कर खाकर जाना है। जो रास्ता अधिकारियों ने बनवाया था उस को नदी बहा ले गई; आज कल पुराने बाबा आदम के समय के रास्ते से सब लोग आते जाते हैं। जिस पथ-प्रदर्शक के साथ मैं था, उस मूर्खने उस पुराने पथ को भी छोड़कर, ऐसा दुर्गम पथ धर लिया कि जिधर से भेड बकरी भी कठिनाई से जासके। एक सीधी ऊंची चट्टान है; उसकी भीत पकड़, धीरे धीरे जा रहा हूँ। यदि इस समय वर्षा होजाय तो मैं निस्सन्देह नीचे घाटी से गिर पड़ूँ। बैठ बैठकर चलता हूँ; ओ ईश्वर ! ऐसा रास्ता !! सारी यात्रा में निरपनियाँ जैसा बेटे पथ नहीं मिला। कई बार गिरते गिरते बच गया; धोखा देने वाला मार्ग है; यहां तेज़ आखों की आवश्यकता है। पथ-प्रदर्शक को पुकार कर साथ साथ चलने के लिए कहता हूँ। ओशम् ! ओशम् !! का जाप करता हुआ जा रहा हूँ ताकि यदि गिर भी जाऊँ तो परमपिता का नाम स्मरण करते हुए प्राण निकले।

* * * *

इस उतार के अन्त होने पर निरपनियाँ का भी अन्त हो जायगा। अब नीचे काली के किनारे पर फिर आ गए। यहां पथ बिल्कुल टूटा है; पथ-प्रदर्शक की सहायता से किसी प्रकार इसे तै किया यहां से आगे यद्यपि चढ़ाई है पर रास्ता निरपनियाँ जैसा खराब नहीं। उस चढ़ाई को आरम्भ करने से पहले यहां नदी किनारे बैठकर सत्सु साये, वर्षा हो रही है।

गलागाड़

भीगते भागते चले। चढ़ाई चढ़ रहे हैं। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ गए। दो घंटे के बाद पहाड़ के ऊपर पहुंचे; यहाँ से गलागाड़ दिखलाई देता है। पौन घंटों के बाद वहाँ पहुंच गए। यहाँ का वंगला रुका हुआ था; इस कारण ऊपर एक गृहस्थ के घर के पास ठहरे। खाने पीने, सोने का प्रबन्ध सब हो गया। कपड़े भीग रहे थे, उनको सूखने के लिए डाल दिया; खूब आग जलाई। रात को पहाड़ों के झूटने और बड़े बड़े पत्थरों के खिसकने की गर्जना सुनते रहे। मुश्किल से तीन चार घंटे सो सका।

१७ अगस्त मङ्गलवार—गन्याङ्ग की धर्मात्मा रुमा देवी ने मेरे लिए हरकारे के हाथ चावल और अन्य राने का सामान भेजा था। उस देवी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उस रसद से मुझे बड़ी सहायता मिली।

आज सवेरे गलागाड़ से चले, अच्छा मार्ग है, ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले गये। मुझे चौन्दास पहुंचना था। गलागाड़ से चौदास १२ मील है चढ़ाई, के बाद बढ़िया उतार है। सीढ़ी बजाता हुआ, भजन गाता हुआ जान्हा था।

तुमही करतार हो दुखों से बचाने वाले।

घरने भक्तों को सदा पास लज्जने वाले ॥

भक्त प्रह्लाद को परत से बचाया लेंने।

कष्ट भूमि में तदा नाथ निमाने वाले ॥

आनन्द में मस्त जा रहा था। जहाँ प्यास लगती भक्तों का ठण्डा स्वच्छ जल पी लेता। परमेश्वर हिमालय के तुरम्य ढेरों को देख देख मन मुदित हो रहा था। देवदार उन्नत

मुख किये समधुर स्वर से सर सर नाद कर मेरे चित को
 आह्लादित करते थे । जंगलों की अनोखी छटा का मज़ा लेता
 हुआ आगे बढ़ा । सड़क कहीं कहीं बने वृत्तों से आच्छादित
 है; पादपों की शाखायें एक दूसरे के गले में बांह डाले प्रेम-
 पाश में बन्धी हैं । कहीं कहीं पत्तों पर से वर्षा के विन्दु टप
 टप गिर रहे थे ।

चौन्दास

इस प्रकार ठण्डी सड़क की सैर का सुख भोगते हुये एक
 स्रोत के पास पहुंचे । यहां बैठकर सत्तू खाए और पेट पूजा
 कर फिर बढ़े । अब पहाड़ी ग्राम दृष्टि गोचर हुये । कृषक
 लोगों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, पहाड़ी सीढ़ियों जैसे
 खेत फिर दिखाई दिए । ग्राम में पहुंचे तो वहां कई विद्यार्थियों
 से भेंट हुई । यह ग्राम पर्वतस्थली में स्थित है; इसके
 चारों ओर अपूर्व दृश्य हैं; स्वर्गीया अमरीकन मिस श्रेल्डन
 का बंगला भी यहीं है । यहां कुछ देर सुस्ता लिया ।

चौन्दास का इलाका भी बड़ा रमणीय है । जल वायु
 नीरोग, वन शोभा विशिष्ट, प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम और
 लाघण्यमयी भू-श्री यहां विराज रही है । ६००० फीट की
 ऊंचाई पर के ये ग्रामसमूह इन दिनों सुन्दर विहारस्थल बन
 जाते हैं ।

*

*

*

*

*

हिमाचल की इस रम्य पर्वत-स्थली तथा व्यास और
 दारिमा की पट्टियों में जो भोटिए रहते हैं उनमें बड़ी बड़ी
 भद्दी रस्में प्रचलित हैं । जैसे पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को
 स्वतन्त्रता है वैसे ही, बल्कि उससे भी अधिक स्वच्छन्दता

उधर की स्त्रियों को दी जाती है। इनके यहां 'रामवंग' की चाल है। प्रत्येक ग्राम में एक घर ऐसा बनाते हैं जहां युवक और युवतियां रात को स्वतन्त्रता से मिल सकें। इस घर को 'रामवंग' अथवा 'क्लवहौस' कहिए। रात के समय युवक लोग अपनी प्यारी युवतियों के साथ यहां इकट्ठे होकर शृङ्गाररस के गीत गाते हैं; मद्यपान करते हैं; धूम्रपान कर हृदय जलाते हैं। सारी रात यही धन्धा रहता है। जब मद्यका नशा खूब चढ़ जाता है तो यही क्लव हौस में सो रहते हैं।

छोटी छोटी लडकियां, आठ दश वर्ष की अवस्था से ही, इस भोटिया क्लवहौस में जाना आरम्भ करती हैं। माता पिता खुशी से अपनी सन्तान को इस नाश-गृह में भेजते हैं। जब किसी युवक को लडकियों के प्रेमालाप की चाह होती है तो वह रात को अपने घर से निकल, किसी ऊंची चट्टान पर खड़ा हो अपने दोनों ओरों पर अगुलियाँ रंग सीटी बजाता है। उस सीटी को सुनते ही युवतियां अपने घरों से आग ले लेकर निकलती हैं और 'रामवंग' की ओर चल देती हैं। ग्राम के नवयुवक भी सीटी सुनते ही प्रसन्न हो उधर ही मुंह करने हैं। वहां लडकियां और लडके आमने सामने बैठजाते हैं, मृदु नाच रंग होता है। यदि लडकियों की इच्छा लडकों के पुमाने की हो तो वे किसी चट्टान के निचे को पकड़ कर हवा में हिलाती हैं, या सीटी ब्रेकर अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं।

इस प्रथा का परिणाम बड़ा भयंकर है—जवानी की अवस्था, परान्तस्थान, शराब की मस्ती, नाच रंग की हिल-मिल, रात का समय—इन सब कारणों से भोटिया समाज में पातिव्रत धर्म का हान हो गया है। आगे लभ्यता का धेच्छ, सर्वोत्तम-रत्न पातिव्रत धर्म है, भोटिया भाई इस रात को निक-

कुल भूल गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस आपत्काल में आर्य क्षत्रियों ने इन कठिन, दुर्गम पर्वतों में आकर शरण ली थी, उस समय यहां के एकान्त-यहां की निर्जनता-ने उनको वे तरह सताया होगा। समय काटनेके लिये उन्होंने कोई न कोई उपाय दिला वहलाने का किया होगा। परदा तो उनमें था ही नहीं इसलिये इस प्रकार की प्रथा का चल जाना आश्चर्य जनक नहीं है। सभ्यता के केन्द्र से दूर रह कर उन्होंने इसी तरीके से विवाह की समस्याको हल किया होगा किन्तु इस समय इस प्रथाको बहुत जल्द दूर करने की आवश्यकता है। इस प्रथा से जारज सन्तान, व्यभिचार, भ्रष्ट कुलाचार आदि दुर्गुणों की समाज में वृद्धि होती है। लड़के लड़कियां आपस में मिलें, वार्तालाप करें, एक दूसरे के स्वभाव की पहचान करें और उनका विवाह बड़ी अवस्था में आपस की स्वाकृति से हो, यह सब अच्छा है, परन्तु युवक और युवतियों को मद्यमान की खुली छुट्टी, एकान्त में रातें काटना, शृङ्गार रस के गीत, ये सब ब्रह्मचर्य की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने के सामान हैं। जहां तक हो सके इस प्रथा को शीघ्र दूर करना चाहिये। मैं अपने शिक्षित भोटिप भाइयों से नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे अपनी इस बुरी प्रथा का संशोधन कर अपनी समाज की रक्षा करें।

इधर के लोगों में एक और भी भौंडा रिवाज है जिसको ये लोग धुङ्ग कहते हैं। जब कोई आदमी या औरत मर जाती है तो उसके सम्बन्धी दाह कर्मादि से निश्चिन्त हो अपने ग्राम के बड़े बूढ़े दां बुलाकर धुङ्ग में विषय में परामर्श लेते हैं। धुङ्ग संस्कार के लिए एक तिथि निश्चित की जाती है। यदि मरनेवाला पुरुष हो तो उसी लिङ्ग का पशुभी धुङ्ग

के लिये चुना जाता है। भेड़, बकरी, याक इनमें से जो पशु उचित समझा जाए उसीको मृतप्राणी का प्रतिनिधि ठहराते हैं। बहुत से लोग जिनपर हिन्दू धर्म का प्रभाव पड़ा है याक (चंवर गाय) को इस कार्य के लिये काम में लाने के विरोधी हैं। वे भेड़ अथवा बकरी से वही मतलब निकालते हैं। निश्चित तिथि को मृतक के सम्बन्धी पशु को ग्राम से बाहर एक खास जगह पर ले जाते हैं, वहाँ उसे अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाते हैं। तत्पश्चात् पशु पर जो फेंके जाते हैं और उसे मृतक का सच्चा प्रतिनिधि बना श्मशान भूमि में लेजाते हैं, साथही उसके सींगों में सफेद कपड़ा बांध देते हैं।

तीसरे दिन मृतक की अस्थियां इकट्ठी करके उनको घड़े लम्बे जूतों में रख कर घर लाने हैं। कुछ कृत्य करने के बाद ग्राम के सब मनुष्य लम्बी कतारें बांध बांध कर नाचते हैं, और इस प्रकार भूतों की तरह नाचते हुये मृतक के घर पहुंचते हैं: वहाँ बड़ा जलसा होता है; खूब दावते उड़ती हैं, खाना खाने के बाद बड़ा गुलगपाड़ा करने हुये सब लोग पीतल के बर्तनों को बजाकर नाचते हैं; लड़कियां मशालें ले कर चलती हैं।

आखिरी दिन पशु को कपड़ों से सजाकर ग्राम के बाहर दूर ले जाते हैं। वहाँ सब लोग उस बेचारे निरपराध पशु को पीट कर दूर भगा देते हैं। जब पशु दूर ऊँचे पहाड़ों पर अदृश्य हो जाता है तो सब भुट्टिये गाते नाचते ग्राम का वापिस आते हैं और मूंडन तथा स्नानादि कर शुद्ध होते हैं। तिब्बती लुखिये कपड़ों से लदे हुये उस पशु की तारु में गढ़ते हैं, जब भोट्टिये अपने ग्राम की ओर लौटते हैं तो वे उस अगाध पशु को पकड़, काट हूट कर, लाजाने हैं।

यह इन भोटियों की धुङ्गनाम्नी पिशाचिनी प्रथा है। आश्चर्य्य है कि इन लोगों में यह जंगलीपन कहां से घुस आया। मालूम होता है यह तिब्बती संसर्ग का दोष है। मेरी कई एक पढ़े, लिखे भोटियों से इस विषय पर बातचीत हुई थी, वे सब इस प्रथा के कट्टर विरोधी हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अपनी समाज में घोर आन्दोलन कर इस भौंडे संस्कार को दूर करेंगे और अपने बच्चों को प्राचीन सोलह संस्कारों की शिक्षा देंगे। अब रेल और तार का जमाना है, डाकखाने खुले हुये हैं, अच्छी से अच्छी पुस्तकें पारसल द्वारा आसकी हैं, आवश्यकता है कि शुद्ध हिन्दू सभ्यता की पुस्तकों का प्रचार इन पर्वतों में किया जाये ताकि हमारे ये विहुड़े हुये भारतीय बन्धु पुनः ऋषियों के बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण कर सकें।

* * * * *

आज रात पटवारी महोदय के घर का आतिथ्य स्वीकार किया। यहीं रात कटी।

खेला

१२ अगस्त बुद्धवार—चौन्दास से चला। पौन मील तक उतार होगा इसके बाद थोड़ी चढ़ाई, फिर वेढ़व उतार प्रारंभ होता है। खेतों को देखता हुआ चला। नीचे काली के गूँजने की की धीमी आवाज़ आरही है, और नदी संफेद सूत के तागे की तरह दिखाई देती है। मुझे इसी के किनारे पहुंचना है। लड़क स्थान स्थान पर टूटी हुई थी; वर्षों से जगह जगह नाले वह रहे थे, कई जगह पहाड़ टूट गया था। किसी प्रकार सम्भल सम्भल कर इस वेढ़व सीधे उतार को पूरा किया।

चौन्दास से ५००० फीट नीचे आगये, धौलीगंगा यहां दारिमा से आकर काली में मिली है, इसका पुल पार कर फिर खेला की चढ़ाई चढ़ना शुरू किया। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ठहरने के स्थान पर पहुंचे। यहाँ बड़ा सुख मिला। भोजनो परान्त थके हारे सोगये।

१६ अगस्त से २७ अगस्त तक—खेला पांच हजार फीट ऊंचा है। अच्छा बड़ाग्राम है। यहाँ पोस्टऑफिस है। दारिमा और चौन्दास का यह नाका है। यहां से अस्कोट तीसमील हांगा और अस्कोट से अल्मोड़ा सत्तर मील—मुझे अभी एक सौ मील और जाना है। रास्ते में धारचूला, बलवाकोट, अस्कोट, थल, बेरीनाग आदि छः सात पड़ाव ठहरना है। अल्मोड़ा से टिकटिकिआ की करतूतों की भयानक खबरें आरही हैं। कुछ प्रेमी अल्मोड़ा न आने की सलाह देते हैं; कुछ अन्तर्धान होने के लिये कहते हैं पर यहां तो बात ही दूसरी है —

न जायते नियने वा कदाचिन्
नास भूत्वा भविता वा न भूय ।
अज्ञो नित्यः शास्त्रज्ञोऽप्य पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

जिलने इस अमृत का पान कर लिया है उसको कोई क्या उरा सकता है।

खेला से धारचूला दसमील होगा। काली के किनारे किनारे चल रहे हैं। काली भी विभिन्न नदी है। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी नदियां इसमें मिलती है पर यह अकार तक नहीं लेती; वैसी की वैसी बनी रहती है। अकार नदी है। एक स्थान पर पहाड़ी नदी का पुल नहीं था, वहां सूते द्वारा पार होता

पड़ा। वाये हाथ काली और दहिने हाथ पर्वत के साथ साथ
जारहा हूं। सड़क अच्छी है, मगर आजकल वर्षा के कारण
इसकी दशा विगड़ गई थी, मजदूर लोग मरम्मत भी कर
रहे थे।

धारचूला

शामको धारचूला पहुंच गए। यहां प्रेमी लोग आगे से
ही वाट जोह रहे थे। अच्छा स्वागत किया; बंगले में ठहरे।
चार पांच दिन बड़े आनन्द से कटे; काली में स्नान कर उसकी
लहरों के थपेड़े खाये। धारचूला पांच चारसौ घरों की
आवादी का अच्छा कसबा है। काली के उस पार नेपाल राज्य
के अधिकारी रहते हैं। नदी के आर पार जाने आने के लिये
रस्सियां का झूला है। दिन भर लोग आते जाते हैं। ब्यास
चौन्दास के भोटिये शोककाल में यहीं रहते हैं इस लिये उनके
मकान आज कल खाली पड़े थे। यहां दो तीन उपदेश हुये;
लोगों ने बड़ी श्रद्धा से राष्ट्रीय सन्देशों को सुना; शिक्षा की
महत्ता उनको भली प्रकार मालूम हुई। परिडित लोकमणि जी
तथा परिडित प्रेमवल्लभ जी बड़े श्रद्धालु सज्जन हैं। आप दोनों
ने मुझ थके हारे को आराम देने का यथोचित प्रबन्ध किया।

धारचूला से पलवाकोट दस मील है। यहाँ मध्याह्न समय
में पहुंचे। आज रक्षा बन्धन था। इस लिये असकोट के
धर्मात्मा जत्रीपुत्र श्रीमान खड्गसिंह जी काली नदी के तीर
पर विप्रवरों के साथ ऋषि तर्पण कर रहे थे। इनके अनुरोध
पर आज मैं यहीं ठहर गया। यहां पता लगा कि एक शेर
पलवाकोट के आस पास जंगल में है, कई आदमियों को उसने
खा लिया था। उसके डरके मारे ग्रामीण लोग अपने गांव से

दूर घास काटने नहीं जाते थे। सब कोई उससे परेशान थे। श्रीखडगसिंह जी उसी के मारने के लिये यहां उहरे हुये थे- पर वह नटखट पशु इनके हाथ नहीं आता था। जहां उसने आदमी खाया फौरन काली नदी पार कर नैपाल के जंगलों में छुस जाता था और जब उधर उसके पकड़ने के सामान होते तो नदी पार कर इधर बलवाकोट की तरफ आजाता था। काली नदी ऐसी भयंकर है कि तैर कर उसको पार करना मनुष्य के लिये महा कठिन है, लेकिन वह हिंसक पशु इसको कुछ भी नहीं समझता था। गाओं वाले नेचारे सब हीन उसके डर के मारे रात को सो भी नहीं सकते थे। बलवाकोट बड़ी गरम जगह है। यहां केवल एक रात बड़ी कठिनाई से रहा दूसरे दिन सबेरे असकोट की ओर चले।

असकोट

असकोट यहां से बारह मील है। रास्ते में मुन्दर दृश्य गिल-खिलाती हुई धूप का आनन्द तथा काली के सहायक जन प्रपातों कानाद सुनते हुये बारह बजे के करीब गोरी नदी के पुल के पास पहुंचे। गोरी (जोहार) मनस्यारी की ओर ले आकर असकोट के नीचे कुछ दूर जाकर काली से मिल गई है। यहां से इसके किनारे किनारे जोहार को रास्ता जाना है। जो यानी तनकपुर के मार्ग से शोर होकर असकोट से जोहार के रास्ते कैनाश दर्शन करना चाहते हैं वे इसी मार्ग से मनस्यारी पहुंच सकते हैं। यहां गोरी के तट पर न्यान ध्यान से निश्चिन्त हो असकोट पर्वत पर चढ़े। दो तीन मील की विस्तृत चढ़ाई करने के बाद नीरोग शीतल जन वायु में आनन्द। दिमाकत के तेज-गिक दृश्य फिर दिखाई दिने। ईर्द गिर्द ऊंची चहाटियां मैयां

से खेल रही थीं। यहां के रजवार महोदय ने प्रेम पूर्वक मुझे ठहराया। श्रीमान जगतसिंहजी महाशय क् में बड़ा धन्यवाद करता हूं जिन से मुझे बहुत कुछ बातें तिब्बत के विषय में अधिक मालूम हुईं। आप एक अंगरेज अधिकारी के साथ तिब्बत भ्रमण के लिये गए थे, और जो कुछ उस अंगरेज को तिब्बत सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हुआ वह आप ही के दुभाषिया होने की वदौलत था। आप हिन्दी के परम भक्त और बड़े साधु स्वभाव के हैं। यहां दो तीन दिन आराम किया; वर्षा की वहार देखी।

असकोट तकलाकोट से नब्बे मील है, और अलमोड़ा से सत्तर मील; तनकपुर रेलवे स्टेशन यहां से ८० मील पर होगा। असकोट पहले बड़ी रियासत थी और इसकी प्रभुता नैपाल से काबुल तक फैली हुई थी। समय के हेर फेर ने हिमाचल के इस उच्चस्थल परभी अपना प्रभाव डाला और अब यह छांटे से ताल्लुके के वरावर है। यहां के क्षत्रियों का सम्बन्ध नैपाल के क्षत्रियों के साथ होता है। रंग रूप में मंगोलियन पन के चिन्ह इनमें नहीं हैं। बहुत ही अच्छा हो यदि राजपूताना तथा अन्य प्रान्तों के राजपुत्रों के विवाह सम्बन्ध इस ओर होने लग जायें ताकि परस्पर की विभिन्नता दूर होकर एकता के सूत्र की वृद्धि हो।

२८ अगस्त से दोसितम्बर तक—आज शनिवार था। असकोट से चलने की तय्यारी कर ली। यद्यपि टिकटिकिआं* की धूर्तता से विचित्र जाल विद्युया गया था पर यहां तो—

*यदि कभी समय मिला तो छोटी कथा के रूप में इस अन्याय पूर्ण, धूर्तता रञ्जित विचित्र घटना को पाठकों की भेंट करूंगा —

लेखक।

जिन्हें रखे साइयां मार न सके कोय ।

वाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय ॥

वाली बात है; निश्चय निर्वन्द हो अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान किया । यहां से अल्मोड़ा की तरफ सुन्दर राइक गई है । कुली असबाब उठाये ले जा रहा था । इधर के मज़दूर वोक्ता उठाने में ग़ज़ब करते हैं, दो दो मन वोक्ता पीठ पर लाद ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ जाते हैं । इस सड़क पर जगह जगह जंगलों से वर्षा का पानी आ रहा था । अलकोट से सान मील पर चौरस भूमि में डीडिहाट है, यहां एक पाठशाला है, दो तीन दुकानें हैं । यहां मैं नहीं ठहरा; तेज़ी से बढ़ा चला गया । मुझे आज थल पहुंचना था ।

थल

यह ग्राम रामगज़ा के किनारे बसा है । साल में एक बार संक्रान्ति के मौके पर यहां भी मेला भरता है और छः दिन तक रहता है । जैसे वागेश्वर के मेले में भोटिये लोग माल बेचते हैं ऐसे ही यहां भी ये लोग तिन्वती ओटे, चंबर, चुटके, थुलमे, पंखियाँ, नगक, स्रहागा आदि बेचते हैं । अल्मोड़े से कणड़ा, वर्तन, तन्नाकू, मिथ्री आदि चीज़ें यहां विकने आती हैं । यहां एक पाठशाला और छोटा डाकखाना भी है । थल डीडिहाट से दस मील पर होगा; रास्ते में तीन मील का उतार पड़ता है ।

मध्याह्न के बाद तीन बजे थल पहुंचे । यहां भी भोटिये लोगों ने बड़े आदर सकार से उदराया । पताड़ी लोग सुन्न हैं अगर भोटिये बड़े होशियार हैं । ब्राह्मण, चर्षा भूरे नडिनार्ड से दिन बितारहे हैं लेकिन ये लोग व्यापार कर आगन्द

से जीवन काटते हैं। यह सब उद्योग की बात है। उच्चवर्णों के लोग नौकरी के फेर में पड़े हैं, वे नौकरी के सिवाय दूसरा धन्धा नहीं जानते, परिणाम यह है कि उनकी दशा बड़ी हीन है।

* * * * *

रामगङ्गा के यहां फिर दर्शन हुये। तेजम में इससे बातें की थीं, उस समय इसका जल खच्छ था, आजकल इसका पेट बढ़ गया है, रंग बदला हुआ है; सरयु जी से भेंट करने को बड़ी शीघ्रता से जा रही है।

रात को यही ठहरे। चलने-की जल्दी थी इसलिये उप-देश आदि का प्रबन्ध नहीं किया, इच्छा शीघ्र अल्मोड़ा पहुंचने की थी। दूसरे दिन सवेरे चल पड़ा। तीन मील बराबर मैदान चला गया है। जंगल की शोभा अनुपम है। आगे अच्छी मज़ेदार चढ़ाई है, ठरडी सड़क है, कुछ विकृत मालूम नहीं होती। रास्ते में एक नाले के पास स्नान ध्यान से निश्चिन्त हो गया। दस बजे सवेरे बेरीनाग पहुंचा, यहां डाकखाने में मेरी डाक जमा थी, इस लिये यहां पाँच चार घंटे व्यतीत किये।

बेरीनाग

बेरीनाग अल्मोड़ा से व्यालील मील पूर्व की ओर है। इसकी ऊँचाई छः हजार फीट से कुछ अधिक ही होगी। यहां चाय के दड़े बड़े बगीचे हैं और इस जगह से हजारों रुपये की चाय हर साल बाहर जाती है, खासा व्योपार होता है। यहां पोस्टऑफिस, डाक बंगला, पाठशाला, गिरजाघर सभी

कुछ है; गान्तरस का यहां जोर है और वे ही अधिकांश चाय के बगीचों के स्वामी हैं।

मुझे यहाँ अधिक नहीं ठहरना था। राय बहादुर कृष्ण-सिंह जी यहां से छः सात मील पर झलतोला में रहते हैं, मुझे उन्हीं के पास जाना था। मज्जान्ह वाद उनका आदमी घोड़ा लेकर आया। शाम को झलतोला पहुंचे। यह भी रमणीक स्थान है; जल वायु नीरोग और दृश्य मनोहर हैं; पंचाचूनी की चोटियां यहां से स्पष्ट दिखाई देती हैं और जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अजब बहार होती है।

मैं यहां दो सेप्टेम्बर तक रहा; यात्रा की थकावट को दूर किया। रायबहादुर कृष्णसिंह जी बड़े देशहितैषी सज्जन हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार देशहितकार्यों में योग देने में सदा तत्पर रहते हैं। यद्यपि आप वृद्ध हैं पर उत्साह आपका युवकों जैसा है। आप पूर्वी पश्चिमी तिव्वत में कई वर्षों तक घूमे हैं और अत्यन्त कष्ट सहन कर वहां के नक़शे तय्यार किए हैं। तिव्वत-अन्वेषण में आप—“A. K. Pandit ए० के० पण्डित” के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप से तिव्वत सम्बन्धी वार्तालाप कर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। तिव्वत सम्बन्धी जितना ज्ञान आपको है सिद्धित मंनार में उतना दूसरों को कम होगा। दुःख है कि आपकी वाकफ़ियत से हिन्दी संसार को कुछ लाभ नहीं पहुंचा। यदि आप अपने तिव्वत-अन्वेषण की यात्रा पर कोई ग्रन्थ लिखें तो वह अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक ही हो।

यात्रा का अन्त

३ सेप्टेम्बर बुधवार—झलतोला से शरमोड़ा ३६ मील

होगा। बड़ी सुन्दर सड़क वेरीनाग से अल्मोडा तक गई है। जैसे कोई सैलानी आदमी ठण्डी सड़क की सैर करने जाता है, ठीक ऐसा ही रास्ता है। आनन्द से घोड़े पर सवार शीतल वायु की अठखेलियां देखता हुआ चला गया। रायबहादुर साहव ने घोड़े का प्रबन्ध करदिया था इसलिए पैदल चलना नहीं पड़ा। आज कल यह मार्ग विचरने योग्य होता है। धोए धाए वृक्ष, हरियाली से लदी हुई पहाड़ियां, स्थान स्थान पर जल की कलकल ध्वनि, पशुपत्नी सब प्रसन्न; वर्षा का अन्त—सचमुच मनुष्य को खुशी के मारे नशा सा चढ़ जाता है। भला मैदान के रहने वाले इस सुख को क्या जानें। लू में मरने वाले, धूल फांकनेवाले, पसीने की बदवू में बसनेवाले इस मज़े को अनुभव नहीं कर सकते। यह मज़ा सचमुच सब से निराला है।

सड़क पर जाता हुआ यही सोचरहा था—“ईश्वर ने अपने प्यारे भारतियों को क्या ही सुन्दर सुहावना देश दिया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर रमणीक के पर्वत-मालाये हैं क्या हम उनसे लाभ उठाते हैं? बिल्कुल नहीं। गरमियों में भुण्ड के भुण्ड यात्रियों को इधर आना चाहिए; इधर की नैसर्गिक छटा का सुख भोगना चाहिए। इन पर्वतों पर अच्छी अच्छी पाठशालाओं की आवश्यकता है, यहां बड़े बड़े कालिज खुलने उचित हैं। अमरीका और यूरोप में प्राकृतिक शोभा विशिष्ट पर्वत-स्थलियों में कैसे कैसे विश्व-विद्यालय खुले हुए हैं; वहां के विद्यार्थी कैसे बलिष्ठ होते हैं। क्या हमारे यहाँ वैसे स्थानों की कमी है? नहीं, फिर क्यों हमारे लीडर उनका सदुपयोग नहीं करते? हा! इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए छाती फटने लगती है। जिन सुरम्य स्थानों

पर कालेज, विश्वविद्यालय, गुरुकुल, ऋषिकुल आदि बनने चाहियें वहाँ भैसे और बकरे कटते हैं।

भारत सन्तान ! अपने देश के पर्वतों का सदुपयोग करना सीखिए। ग्रीष्म ऋतु में अपने आसपास के पहाड़ों पर जाकर वहाँ की प्राकृतिक शोभा देखिए; प्रकृति माता से बातें करने का अभ्यास कीजिए। अपने देश के पर्वतों को छान डालिए; उनकी वन्यता का उपयोग जानिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पर्वतों में अपना ग्रीष्म-गृह बनवाइए और इर्द गिर्द की भूमि में निर्धन विद्यार्थियों के रहने लायक मकान बनवा दीजिए ताकि मैदान के विद्यार्थी छुट्टियों में आकर वहाँ रह सकें। अपनी सुस्ती निकालने के लिए हमें पहाड़ों में विचरने की आवश्यकता है; हमें अब पहाड़ों को अपनाते की ज़रूरत है।

परन्तु एक बात का ध्यान रखना होगा। अब तक तो मैदान-वालों की बुराइयाँ ही पहाड़ों में पहुँची हैं; अब तक अधिकांश कामान्ध धनी, राजे, नन्वाव पहाड़ों में व्यभिचार फैलाने के लिए ही जाते हैं, अथवा पहाड़ी कन्यायें उनके अत्याचारों से अत्यन्त दुखी हैं; वे धन के लिए बेची जाती हैं। हमारा उद्देश्य पर्वतों में शिक्षा प्रचार आरोग्यता लाभ चाहिए। हमें पर्वतों में विद्या-केन्द्र बनाने उचित हैं। जो नौ केवल यात्रा के विचार से—मन्दिरों को दाथ लगाने के लिए गिरि कन्दराओं में घूमते हैं उनके कुछ यथेष्ट लाभ न होता। अपने पूज्य मन्दिरों के दर्शन कीजिए, किन्तु नाथ आंग, कान गोलकर प्राकृतिक सुन्दरता भी अनुभव पा जाइए, ताली धरुके पानेसे कुछ लाभ नहीं होता।

अल्मोड़ा

चार सितम्बर को धौलछीना से सबेरे ही चलकर ग्यारह बजे के करीब अल्मोड़े पहुँच गया। १६ जून को मैं यहाँ से श्री कैलाश दर्शन के लिये निकला था, अठारह महीने से कुछ अधिक दिन मुझे इस विकट यात्रा में लग गये।

यहाँ अल्मोड़े में मेरे विषय में तरह तरह की चर्चा फैली हुई थी। कोई कहता था—“सत्यदेव के नाम का वारन्ट निकला हुआ है और पुलीस उनको पकड़ने के लिये असकोट गई हुई है”। किसी ने उड़ाया—“सत्यदेव निव्वत भाग गये और अब जरमनी जा रहे हैं”। बड़े बड़े पढ़े लिखों में ऐसी ही बातें फैल रही थीं। जो प्रेमी मिलने आते वे यही कहते—“हमने सुना था कि आप के नाम का वारन्ट निकला हुआ है।” डाक जो मिली थी उसमें भी विचित्र चिट्ठियाँ नीचे मैदान से आई थीं। कई सज्जनों ने बिहार प्रान्त से पत्र भेजे—“हमने सुना है आपके व्याख्यान एक वर्ष के लिये वन्द कर दिये गये हैं।” कहां तक लिखूँ। मैंने जो एक वर्ष के लिये, व्याख्यान वन्द कर देने का नोटिस निकाला था, उसके धूर्त लोगों ने तरह तरह के अर्थ लगाये और मुझे वदनाम करने के लिये घृणित से घृणित बातें फैलाई गईं। भारतवर्ष की जनना मूर्ख है, वह गणों पर भट्ट विश्र्वाम कर लेती है। उसमें सोचने की बुद्धि नहीं। जिस साहित्य सम्बन्धी कार्य तथा मानसिक शक्ति उपाज्जन के निमित्त मैंने एक वर्ष तक एकान्त सेवन का विचार किया था लाचार होकर मुझे कुछ काल के लिए उस विचार को स्थगित कर देना पड़ा। इस अभाग्य देश की ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ मार्ग में कांटे घोनेवाले

अधिक हैं मगर कार्य में हाथ बटाने वाले नहीं हैं। कई भले-मानसों का तो झूठी बातें उड़ाना पेशा ही है।

पाठक महोदय ! साधन रहित, फोटोग्राफर के बिना, योरपीय महाभारत के समय में मैंने श्री कैलाश जी की यात्रा की है। जो कुछ वर्णन, जो कुछ यात्रा का व्योरा, मैंने दिया है वह आधुनिक 'सचित्र-युग' की परिभाषा के अनुसार तो है नहीं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यह पुस्तक बहुत से सज्जनों को श्री कैलाश दर्शन के लिये प्रेरित करेगी। मुझे आशा है कि कोई योग्य हिन्दीहितैषी महाशय साधन सम्पन्न हो कर, तिब्बत जायेंगे और वहाँ का सचित्र वर्णन हिन्दी संसार की भेंट करेंगे।

कैलाश दर्शन तथा मानसरोवर स्नानकर मैंने अपने जीवन की एक बड़ी इच्छा को पूर्ण किया है। जो कुछ मुझे वहाँ आनन्द मिला है, मैंने हिन्दी संसार को उसका भागी बनाने का यत्न किया है। यह पुस्तककेवल मेरे हृदय के उद्गार हैं। मैंने किसी योरपीय वैज्ञानिक की तरह, अथवा अल्मोड़ा के किसी राजकर्मचारी की तरह बीस बीस मनुष्यों का बोझा लादकर तिब्बत की यात्रा नहीं की थी, मैं केवल एक कठिन व्रतपालनार्थ वहाँ गया था। आज कत जय कि भारत के सब दरवाजे बन्द हैं और बिना पासपोर्ट के कोई बाहिर जा नहीं सकता, मेरे जैसे पुराने साधनसम्पन्न हो कर तिब्बत जाना हो नहीं सकता था। अनपेक्षित सद्दय पाठक ! यदि इस छोटी सी पुस्तक से कुछ भी आनन्द आपने अनुभव किया है, यदि भारत द्वारापाल हिमालय के दर्शनों की उच्छ्वास आपके मन में जागृत हो उठी है, यदि तमाऊं की झूठी की लावण्यता देखने की लालसा आप में उत्पन्न हो गई है तो मैं

समझूंगा कि मेरा उद्योग सफल हो गया ।

मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के वच्चे योरपीय वैज्ञानिकों की तरह हिमाचल का अन्वेषण करें; मेरी इच्छा है कि मेरे देशवासी अपने देश के पर्वतों की उपयोगिता को समझें; मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि भारत का शिक्षित समुदाय भारत के पडोसियों से परिचय प्राप्त करे। श्रीकैलाश जी की यात्रा करने से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि भारत की भावी उन्नति के साधनों का अमली रहस्य हमारे पर्वतों में छिपा हुआ है, और भारतोत्थान की अभिलाषा को प्रत्यक्ष करने के लिये हमें पूज्य हिमाचल की शरण लेनी पड़ेगी।

परमात्मन् ! क्या मेरे देशबन्धु मेरी आवाज़ को सुनेंगे ?

नम्र-निवेदन

आज सवा दो वर्षों के बाद सत्य-ग्रन्थ माला की आठवीं संख्या प्रकाशित करता हूँ। मुझे दुःख है, अत्यन्त दुःख है कि मैंने हिन्दी साहित्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। नए वर्ष १९७३ विक्रमी में मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित्त करूँगा, और यदि योरोपीय महायुद्ध के कारण कोई कठिन बाधा पुस्तक प्रकाशन में न हुई तो अवश्य ही उत्तम उत्तम पुस्तकों लिखकर अपनी पूज्या हिन्दी महाराणी के चरणों में धरूँगा। मैंने अपनी पहली पुस्तकों का स्वत्व हिन्दी साहित्य-रत्नाकर, मुज़फ्फरपुर वालों से फिर खरीद लिया है, अब सत्य-ग्रन्थ माला की कुल पुस्तकों के कापी-राइट पर मेरा अधिकार है, इसलिए उन पुस्तकों के जो नवीन संस्करण निकलेगे उनका दाम यथा सम्भव कम किया जाएगा। 'अमरीका दिग्दर्शन' और 'आश्चर्यजनक घंटी' के प्रथम संस्करण कई महीनों से खतम हो चुके हैं; 'अमरीका भ्रमण' प्रथम भाग की केवल एक सौ प्रति स्टॉक में हैं; ये तीनों पुस्तकें शीघ्र छपनी चाहियें, परन्तु बाजार में कागज नहीं मिलता, ऐसी दशा में पुस्तक प्रकाशक बेचारा लाचार है। जैसे जैसे कागज मिलने में सुभीता होता जायगा, वैसेही मैं अपनी पहली पुस्तकों के नए शुद्ध संस्करण छपवाता जाऊँगा। जब तक कागज का अभाव है पहली पुस्तकों के नए संस्करण छप नहीं सकने, अतएव ग्राहक महाशय उन पुस्तकों के लिए शरधार पत्र न भेजें।

'कैलाश यात्रा' के बाद 'संजीवनी-वृष्टी' का नम्बर है

समझूंगा कि मेरा उद्योग सफल हो गया ।

मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के बच्चे योरपीय वैज्ञानिकों की तरह हिमाचल का अन्वेषण करें; मेरी इच्छा है कि देशवासी अपने देश के पर्वतों की उपयोगिता को समझें; हार्दिक अभिलाषा है कि भारत का शिक्षित समुदाय भारतीय पंडितों से परिचय प्राप्त करे। श्रीकैलाश जी की कृपा करने से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि भारत की उन्नति के साधनों का अमली रहस्य हमारे पर्वतों में छिपा है, और भारतोत्थान की अभिलाषा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें पूज्य हिमाचल की शरण लेनी पड़ेगी ।

परमात्मन् ! क्या मेरे देशबन्धु मेरी आवाज़ को सुनेंगे ?



शिक्षा का आदर्श

मूल्य पांच आने

और

लेखन-कला

मूल्य पांच आने

स्वामी सत्यदेव जी के प्रसिद्ध व्याख्यान जो उन्होंने कलकत्ता, प्रयाग, लखनऊ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हैदराबाद, (सिन्ध) आदि बड़े बड़े नगरों में सहस्रों मनुष्यों की स्थिति में दिये थे।

विषय—शिक्षा के आदर्श की भूमिका—विषय योजना—शिक्षा की ध्याख्या—शारीरिक स्वतन्त्रता—आर्थिक स्वतन्त्रता—मानसिक स्वतन्त्रता—आत्मिक स्वतन्त्रता।

सम्मतियां

मैंने पुस्तक सायन्त पढ़ी, पुस्तक बहुत ही उत्तम तथा लाभकारी है।
—पं० गणेशविहारी मिश्र

आपकी पुस्तक 'शिक्षा का आदर्श' तथा लेखन-कला' मुझे दोरे पर प्राप्त हुई। दो दिन के अन्दर मायन्त पढ़ा तो पुस्तक बड़ी ही उपयोगी समझ डी। वान्तव में पुरानी लकीर के फकीरों के नेत्र खोलने के लिए आजकल रत जो ऐसी ही पुस्तकों की आवश्यकता है। बगला में तो ऐसे इन पर विचारपूर्ण ग्रन्थ से ग्रन्थ हैं किन्तु, हिन्दी में उनका एकदम अभाव ना आप ऐसे ग्रन्थ लिखकर हमारी भाषा ना बडाभारी उपकार कर रहे हैं—
—पं० शुकदेवविहारी मिश्र वी० ए०

आपने 'शिक्षा का आदर्श' लिखकर इन दुबले हुए भारत ना पर्याप्त र किया है। इस छोटीसी पुस्तक जो जरूर देखनेसे भी बूझि नहीं सोंगी। अत्यन्त में सम्मिलित कर का पुस्तक सर्वश पाठ की जावे तो बहूत

चित्त ही आपके उपकार का कुछ अंश सफल हुआ कहा जा सकता है..... इस पुस्तक के प्रत्येक अक्षर सर्वदा मनन करने योग्य हैं। एकाग्रवृत्ति से यदि इसके पदोंपर दृष्टि फेरी जाय तो इसके प्रत्येक अक्षरांश में विद्युत् प्रवाह होते हुए प्रतीत होता है और एक बार मृतशरीर में भी जीवन संचार हो उठता है। भारत के प्रत्येक वंश में माता पिता को उचित है कि इस पुस्तक के पाठ अपने बालकों को अवश्य कएठस्थ करादे और आर्यावर्त की प्रत्येक भाषा में इसका सुस्वरूप दे उसे हिन्दीलिपि में पाठ्य पुस्तक बनावे -

—पं० ताराचन्द्रदुबे

इस पुस्तक का घर २ प्रचार कर पुण्य सञ्चय कीजिये ।

सत्य-निबन्धावली

स्कूल और पाठशालाओं में पढाने योग्य पुस्तक है। उपदेशप्रद छोटे छोटे निबन्ध हैं।

विषय सूचि—निवेदन—सन्देशा—हिम्मत करो—नन्दादेवी के दर्शन—लन्दन हाइड पार्क के सायकालिक दृश्य—शासन सम्बन्धी वार्तालाप—प्राणी मात्र से मनुष्य की सगोत्रता—सिकन क्लास का साहेब—मुक्ति की प्राप्ति और आर्थिक स्वतन्त्रता—चेकरी—जापान नरेश मत्सूहीटो—एक सत्य सिद्धान्त—वीरवालक—भावी विप्लव—राजनीति विज्ञान—चोर विद्यार्थी—विश्वास घातकता का घोर दण्ड—जीवन क्या है—बोस्टन से मानचेस्टर—देशद्रोही अरनल्ड—सूद खोर कातुली—गोमाता ।

सम्मतियाँ

Satya-nibandhavali — This is the seventh number of series of very useful books written and published by that well-known Hindi writer Mr. Satya-Dev. The book before us contains twenty-five essays which in a very simple language and manner bring home to the mind some of the most important

and most useful truths of political, social and economic sciences, a knowledge of which is essential to the progress of our country.

—LEADER, *Allahabad*.

उपरोक्त सम्मति प्रयाग के प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'लीडर' की है।

In this publication 25 short essays of Mr. Satya Deva on various social subjects have been published the author's *nivedan* in the beginning in which he gives his views about the cultivation of the Hindi Literature should commend itself to all. His discourses are as a rule very interesting and he has the merit of making even dry-as-dust subjects read with pleasure.....

—MODERN REVIEW, *Calcutta*.

यह सम्मति भारत की प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका 'मॉडर्न रिव्यू' की है। पुस्तक का दाम आठ आने।

अमरीकन यात्री

स्वामी सत्यदेव जी

के शिक्षाप्रद और उपयोगी ग्रंथोंकी नामावली

१—अमरीका-पथ-प्रदर्शक—

(द्वितीयावृत्ति) चार हजार रूप्य चुका है। दाम 1/- आने।

२—आश्चर्यजनक घंटी—

दो महीनों में ब्याज में नहीं है। मीत्र दफेगी।

३—अमरीका दिग्दर्शन—

दो महीनों में लान है। फिर दफेगा।

चित्त ही आपके उपकार का कुछ अंश सफल हुआ कहा जा सकता है..... इस पुस्तक के प्रत्येक अक्षर सर्वदा मनन करने योग्य हैं। एकाग्रचित्त से यदि इसके पदोंपर दृष्टि फेंकी जाय तो इसके प्रत्येक अक्षराश में विद्युत् प्रवाह होते हुए प्रतीत होता है और एक बार मृतशरीर में भी जीवन संचार हो उठता है। भारत के प्रत्येक वंश में माता पिता को उचित है कि इस पुस्तक के पाठ अपने बालकों को अवश्य कण्ठस्थ करादे और आर्यावर्त्त की प्रत्येक भाषा में इसका सुस्वरूप दे उसे हिन्दीलिपि में पाठ्य पुस्तक बनावे -

—पं० ताराचन्द्रदुबे

इस पुस्तक का घर २ प्रचार कर पुण्य सञ्चय कीजिये ।

सत्य-निबन्धावली

स्कूल और पाठशालाओं में पढाने योग्य पुस्तक है। उपदेशप्रद छोटे छोटे निबन्ध हैं।

विषय सूचि—निवेदन—सन्देश—हिम्मत करो—नन्दादेवी के दर्शन—लन्दन हाइड पार्क के सायकालिक दृश्य—शासन सम्बन्धी वार्तालाप—प्राणी मात्र से मनुष्य की सगोत्रता—सिकन क्लास का साहेब—मुक्ति की प्राप्ति और आर्थिक स्वतन्त्रता—बेकारी—जापान नरेश मत्सूहीटो—एक सत्य सिद्धान्त—वीरबालक—भावी विप्लव—राजनीति विज्ञान—चोर विद्यार्थी—विग्रास घातकता का घोर दण्ड—जीवन क्या है—बोस्टन से मानचेस्टर—देशद्रोही अरनल्ड—सूट खोर काबुली—गोमाता ।

सम्मतियाँ

Satya-nibandhavalī — This is the seventh number of series of very useful books written and published by that well-known Hindi writer Mr. Satya-Deva. The book before us contains twenty-five essays which in a very simple language and manner bring home to the mind some of the most important

and most useful truths of political, social and economic sciences, a knowledge of which is essential to the progress of our country.

—LEADER, *Allahabad.*

उपरोक्त सम्मति प्रयाग के प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'लीडर' की है।

In this publication 25 short essays of Mr. Satya Deva on various social subjects have been published the author's *nivedan* in the beginning in which he gives his views about the cultivation of the Hindi Literature should commend itself to all. His discourses are as a rule very interesting and he has the merit of making even dry-as-dust subjects read with pleasure.....

—MODERN REVIEW, *Calcutta.*

यह सम्मति भारत की प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका 'मॉडर्न रिव्यू' की है। पुस्तक का दाम आठ आने।

अमरीकन यात्री

स्वामी सत्यदेव जी

के शिक्षाप्रद और उपयोगी ग्रंथोंकी नामावली

१—अमरीका-पथ-दर्शक—

(द्वि-वीयाटनि) चार हजार रूप चुका है। दाम 1/- आने।

२—आश्चर्यजनक घंटी—

कई मदीनों से म्यान में नहीं है। गीत बनेगी।

३—अमरीका-दिग्दर्शन—

कई मदीनों से तनन है। फिर बनेगा।